



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 52]

नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 30—जनवरी 5, 2007 (पौष 9, 1928)

No. 52] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 30—JANUARY 5, 2007 (PAUSA 9, 1928)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 4

[PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]
[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 30 दिसम्बर 2006

सं. 638, दिनांक 1 दिसम्बर 2006—राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा (जम्मू-कश्मीर: 93) के अधिकारी की धीरज गुप्ता को 7.11.2006 (अपराह्न) से पांच वर्ष की अवधि तक अथवा उनके रक्षा मंत्री के निजी सचिव के पद पर कार्य करते रहने तक अथवा अगले आदेश जारी होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, रक्षा मंत्री (श्री ए. के. एंटनी) के उप सचिव स्तर पर निजी सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं। मंत्री के निजी सचिव के रूप में पांच वर्ष की अवधि 7 वर्ष के संयुक्त कार्यकाल के अंतर्गत आती है। केन्द्र में उनके कार्यकाल की गणना 30.03.2006 से होगी।

राष्ट्रपति, आई आर ए एस (91) की अधिकारी सुश्री नमिता मेहरोत्रा का रेल मंत्रालय (रेल बोर्ड) से स्थानांतरण होने पर उन्हें 16.11.2006 (पूर्वाह्न) से 15.11.2011 तक की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश जारी होने तक, इनमें से जो भी पहले हो रक्षा मंत्रालय में निदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रपति, आई आर एस एस (88) के अधिकारी श्री विनोद कुमार लंगन का रेल मंत्रालय (रेल बोर्ड) से स्थानांतरण होने पर उन्हें 8 नवम्बर, 2006 (अपराह्न) से 08.11.2011 तक अथवा अगले आदेश जारी होने तक, इनमें से जो भी पहले हो रक्षा मंत्रालय में निदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रपति, वाणिज्य विभाग (पूर्ति प्रभाग) के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के सहायक श्री वी. डी. धर्मीजा को 03.11.2006 (पूर्वाह्न) से 31.12.2006 तक की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश जारी होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, निम्नलिखित शर्तों के अधीन 6,500-200-10,500/- रुपए के वेतनमान में रक्षा मंत्रालय में तदर्थ आधार पर अनुभाग अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं:—

- (i) तदर्थ नियुक्ति से नियुक्त व्यक्ति को ग्रेड में अनिश्चित समय तक बने रहने या नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में शामिल करने या केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारियों के ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा; और
- (ii) यह तदर्थ व्यवस्था उस समय तक चलती रहेगी जब तक अनुभाग अधिकारी ग्रेड में वरिष्ठता कोटा और/अथवा सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से नियमित अभ्यर्थी उपलब्ध न हो जाए। उक्त दोनों में से किसी भी श्रेणी में नियमित नियुक्ति के लिए अर्हक न होने पर तदर्थ नियुक्तिधारक को इस प्रकार नियमित अधिकारी के उपलब्ध होने पर उस तारीख से सहायक ग्रेड में प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा जिस तारीख से नियमित अनुभाग अधिकारी रक्षा मंत्रालय में कार्यभार ग्रहण करता है।

राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग) के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के सहायक श्री एस. सी. मंडल को 16.10.2006 (पूर्वाह्न) से 31.12.2006 तक की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश जारी होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, निम्नलिखित शर्तों के अधीन 6,500-200-10,500/- रुपए के वेतनमान में रक्षा मंत्रालय में तदर्थ आधार पर अनुभाग अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं:--

- (i) तदर्थ नियुक्ति से नियुक्त व्यक्ति को ग्रेड में अनिश्चित समय तक बने रहने या नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में शामिल करने या केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारियों के ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा; और
- (ii) यह तदर्थ व्यवस्था उस समय तक चलती रहेगी जब तक अनुभाग अधिकारी ग्रेड में वरिष्ठता कोट और/अथवा सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से नियमित अभ्यर्थी उपलब्ध न हो जाए। उक्त दोनों में से किसी भी श्रेणी में नियमित नियुक्ति के लिए अहंक न होने पर तदर्थ नियुक्तिधारक को इस प्रकार नियमित अधिकारी के उपलब्ध होने पर उस तारीख से सहायक ग्रेड में प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा जिस तारीख से नियमित अनुभाग अधिकारी रक्षा मंत्रालय में कार्यभार ग्रहण करता है।

राष्ट्रपति, श्री टी. प्रताप को 8 नवम्बर 2006 (अपराह्न) से मंत्री द्वारा पद पर बने रहने तक या अगले आदेश जारी होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, 6,500-200-10,500/- रुपए के वेतनमान में रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) के प्रथम वैयक्तिक सहायक के पद पर नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रपति, श्री जे. एस. अय्यर को 09 नवम्बर 2006 (अपराह्न) से मंत्री के पद पर बने रहने तक या अगले आदेश जारी होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, 6,500-200-10,500/- रुपए के वेतनमान में रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) के सहायक निजी सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रपति, वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) के केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी श्री विक्रान्त सचदेवा को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 25 सितम्बर, 2006 के का. ज्ञा. संख्या 5/8/2006-सी एस-1 (डेरक) (भाग iii) के संदर्भ में 14.11.2006 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश जारी होने तक रक्षा मंत्रालय में तदर्थ आधार पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-1 (अवर सचिव) में नियुक्त करते हैं।

2. उपर्युक्त अधिकारी की अवर सचिव (तदर्थ) के रूप में नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:--

- (i) तदर्थ पदोन्नति से ग्रेड में अनिश्चित समय तक बने रहने या नियमित नियुक्ति की चयन सूची में शामिल करने या केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-1 (अवर सचिव) में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा;
- (ii) तदर्थ नियुक्ति को बिना कोई कारण बताए किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है।

एस. के देव
अवर सचिव

सं. 639, दिनांक 4 दिसम्बर 2006--भारत के राष्ट्रपति अपने अवैतनिक वैयक्तिक स्टाफ में 01 नवम्बर 2006 से निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं:--

अवैतनिक वायु सेना एडीसी--

एयर मार्शल के. एस. चतुर्वेदी, वि. से. मै. (12100) ए इ (एल)

एस.डी. बांगा
अवर सचिव

(सेना शाखा)

सं. 640, दिनांक 6 दिसम्बर 2006--राष्ट्रपति, निम्नलिखित की सहर्ष नियुक्ति करते हैं:--

नियमित सेना

स्थाई आयोग

(ले. के पद पर दिनांक 12 जून 1999 से)

निम्नलिखित अधिकारी को भारत सरकार के राजपत्र जो कि दिनांक 13 मई 2000 को प्रकाशित हुआ है, में सम्मिलित किया जाता है:--

अविनाश प्रकाश (आईसी-58757एन) एसी, ज्येष्ठता मनीष भोला (आईसी-58756एल) मैक के नीचे प्रकाशित किया जाए।

(ले. के पद पर 10 दिसम्बर 2005 से)

निम्नलिखित 117 नियमित पाठ्यक्रम (117 डाइरेक्ट इन्ट्री, 107 एनडीए तथा 84 एसीसी) के कैडिटों को सशस्त्र सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर दिनांक 10 दिसम्बर 2005 से स्थायी रूप से सेना निर्देश ए/एस/74 (डाइरेक्ट इन्ट्री) सेना निर्देश 53/78 को वि से नि/एस/74 को साथ पढ़ा जाए (एनडीए), सेना निर्देश 53/73 (एसीसी) के अन्तर्गत स्थायी कमिशन प्रदान किया जाता है:--

नाम, आईसी नम्बर और आर्म/सर्विस

सुभाष चन्द्र (67383के), इन्फैन्ट्री

मोहित सिंह (67384एम), आर्टी

रोहिन छिन्बर (67385पी), एसी

नौरज सिंह (67386एक्स), ईएमई

राहुल गुप्ता (67387ए), इन्फैन्ट्री

मनीष कुमार पिल्ले (67388एच), इन्फैन्ट्री

तरुण राणा (67389एल), इन्फैन्ट्री

विनोद कुमार चौधरी (67390ए), आर्टी

जयवर्धन सानन (67391एच), एएससी

रोहित कुमार (67392एल), आर्टी	मनी सिंह (67426एन), एओसी
हरसिमरन सिंह संधावालिया (67393एन), इन्फैन्ट्री	रिशमरीत सिंह धुम्मन (67427डब्ल्यू), इन्फैन्ट्री
सुनील कुमार पाल (67394डब्ल्यू), इन्फैन्ट्री	मिद्धार्थ छिक्कारा (67428वाई), सिग्नल्स
आशीष जसवाल (67395वाई), इन्फैन्ट्री	संदीप वशिष्ठ (67429एफ), इन्फैन्ट्री
अंकुर सुहाग (67396एफ), इन्फैन्ट्री	कार्बमबम नेपोलियन सिंह (67430डब्ल्यू), इन्फैन्ट्री
अर्नब नारायण डे (67397के), एएससी	भंवरदीप सिंह (67431वाई), एएडी
रोहित कुमार सिंह (67398एम), इन्फैन्ट्री	नवशिनंदर सिंह खेडा (67432एफ), इंजीनियर
गर्गे युवराज अभय (67399पी), मैकनाइज	अमित भट्ट (67433के), एसी
स्वर्णेन्दु रॉय (67400वाई), एओसी	रंजन ठाकुर (67434एम), आर्टी
सिद्धार्थ गोपाल (67401एफ), एएडी	विक्रम वसंत नलावडे (67435पी), इन्फैन्ट्री
दिनेश तिवारी (67402के), इन्फैन्ट्री	अमित त्यागी (67436एक्स), एओसी
गजेन्द्र सिंह उपरारी (67403एम), इन्फैन्ट्री	अमन कुमार तिवारी (67437ए), मैकनाइज
कुमार अभिषेक (67404पी), एओसी	गौरव पचौरी (67438एच), एएससी
सुमित कुमार (67405एक्स), आर्टी	सौरभ शर्मा (67439एल), एएडी
दीपक ठाकुर (67406ए), सिग्नल	तारकेश्वर सिंह (67440ए), इन्फैन्ट्री
शैलेन्द्र (67407एच), इन्फैन्ट्री	विकास कुमावत (67441एच), आर्टी
मयुरेश जाधव (67408एल), इंजीनियर	पुनित ओबराय (67442एल), एसी
अनुज चन्द्र श्रीवास्तव (67409एन), एएडी	आर बालाकार्तिक (67443एन), इन्फैन्ट्री
साहिल बुटालिया (67410एच), एसी	तरूण खरब (67444डब्ल्यू), एएससी
एस युनेश योगा राज (67411एल), आर्टी	ध्रुव सिंह चहाल (67445वाई), एसी
मयंक बागची (67412एन), इन्फैन्ट्री	पंकज कुमार (67446एफ), इन्फैन्ट्री
अर्जुन सिंह तोमर (67413डब्ल्यू), इन्फैन्ट्री	बसवराज एस हल्ली (67447के), इंजीनियर
नसांगव सिमारे (67414वाई), इन्फैन्ट्री	सतीश राय (67448एम), एएडी
संदीप चोपड़ा (67415एफ), ईएमई	मनु गौड (67449पी), आर्टी
अमित कुमार सिरोही (67416के), एएससी	अमनप्रीत सिंह (67450के), मैकनाइज
विवेक सिंह भदौरिया (67417एम), एएडी	पूरन चन्द्र (67451एम), एओसी
शिव शंकर राठी (67418पी), इन्फैन्ट्री	रोमिल गोयल (67452पी), आर्टी
राजेश बिश्वास (67419एक्स), आर्टी	निशान्त कालड़ा (67453एक्स), इन्फैन्ट्री
राजदीप सिंह मान (67420एम), मैकनाइज	उमेश चन्द्र नायक (67454ए), इन्फैन्ट्री
खान अहमद अनवरुल्ला मौ. अहमद मजिदुल्ला खान (67421पी), इन्फैन्ट्री	चंदन कुमार (67455एच), आर्टी
युवराज मलिक (67422एक्स), इन्फैन्ट्री	उत्पल दास (67456एल), इन्फैन्ट्री
दिनेश गर्ग (67423ए), इंट	अभीत पाटिल (67457एन), सिग्नल्स
हरदीप इन्दर सिंह सिद्धु (67424एच), आर्टी	बेन एम एस (67458डब्ल्यू), इन्फैन्ट्री
अंकित शर्मा (67425एल), इन्फैन्ट्री	अश्विन विवेक खरे (67459वाई), इंजीनियर

अतुल कुमार (67460एन), इन्फैन्ट्री
 प्रकाश कुमार (67461डब्ल्यू), इन्फैन्ट्री
 चरणजीत सिंह (67462वाई), आर्टी
 सुभाष यादव (67463एफ), इंटर
 प्रशान्त लोढा (67464के), आर्टी
 नीरज सिंह मान (67465एम), इन्फैन्ट्री
 संदीप सचदेवा (67466पी), एएडी
 मनीष कुमार (67467एक्स), एएससी
 गिरित्रा जोशी (67468ए), इन्फैन्ट्री
 ज्ञान चंद भूयाँ (67469एच), आर्टी
 प्रदीप सिंह (67470एक्स), इंजीनियर
 मोहित वर्मा (67471ए), इन्फैन्ट्री
 ए विवेक अरुमनायगम (67472एच), इन्फैन्ट्री
 जगजीत सिंह (67473एल), इन्फैन्ट्री
 अभिषेक मुदगिल (67474एन), इन्फैन्ट्री
 ऋषि चौहान (67475डब्ल्यू), एसी
 परमिन्दर सिंह (67476वाई), आर्टी
 आशीष दूबे (67477एफ), एएडी
 राजपाल नेगी (67478के), इन्फैन्ट्री
 उमेश एम पई (67479एम), इन्फैन्ट्री
 अमित शर्मा (67480एफ), इन्फैन्ट्री
 ओझरकर सचिन दीपक (67481के), आर्टी
 नवअरूण मंजुमदार (67482एम), एसी
 सतेन्द्र कुमार (67483पी), सिग्नल्स
 हरसुखचैन सिंह (67484एक्स), इन्फैन्ट्री
 अमृत शंकर (67485ए), इन्फैन्ट्री
 प्रशान्त कुमार (67486एच), इंटर
 अनुराग उपाध्याय (67487एल), इन्फैन्ट्री
 सुबोध कुमार त्रिपाठी (67488एन), एओसी
 पंकज जे भोजवानी (67489डब्ल्यू), आर्टी
 जितेन्द्र सिंह (67490एल), मैकनाइज
 अंशुल अहलावत (67491एन), इन्फैन्ट्री
 अनुपम सिंह कारडिया (67492डब्ल्यू), इन्फैन्ट्री
 मनोज डोबरियाल (67493वाई), इन्फैन्ट्री

विवेक यादव (67494एफ), एसी
 विवेक यादव (67495के), इन्फैन्ट्री
 नेटके अतुल केशव (67496एम), आर्टी
 पंकज कुशवाहा (67497पी), इंजीनियर
 मनीष बराल (67498एक्स), इन्फैन्ट्री
 राहुल नारंग (67499ए), एएडी
 गोखले अतुल सुभाष (67500के), इन्फैन्ट्री
 कुशग्र सिंह (67501एम), इन्फैन्ट्री
 पुनीत प्रकाश श्रीवास्तव (67502पी), आर्टी
 कुलकर्णी मंगेश भालचंद (67503एक्स), आर्टी
 तरुण सिंह (67504ए), इन्फैन्ट्री
 सत्यम आनंद (67505एच), मैकनाइज
 भूपेन्द्र मलिक (67506एल), इन्फैन्ट्री
 उमेश सुखीजा (67507एन), आर्टी
 मनमोत सिंह (67508डब्ल्यू), आर्टी
 अदित्य राणा (67509वाई), इन्फैन्ट्री
 वाकनिस हषिकेश अजीत (67510एन), इन्फैन्ट्री
 देवेश जयंत जोशी (67511डब्ल्यू), इन्फैन्ट्री
 राहुल सिंह (67512वाई), इन्फैन्ट्री
 कुलदीप सिंह शेखावत (67513एफ), इन्फैन्ट्री
 आनंद त्रिपाठी (67514के), इंजी.
 सनासम शलैन्द सिंह (67515एम), इन्फैन्ट्री
 नवीन सहरावत (67516पी), एएडी
 देवेन्द्र वशिष्ठ (67517एक्स), इन्फैन्ट्री
 राहुल पठनिया (67518ए), इन्फैन्ट्री
 राकेश शर्मा (67519एच), एसी
 कृष्ण कुमार शर्मा (67520एक्स), एएडी
 मानव (67521ए), एओसी
 अभिषेक प्रकाश (67522एच), आर्टी
 बेबले सत्यजीत सूर्यकांत (67523एल), इन्फैन्ट्री
 जितेन्द्र कुमार (67524एन), इन्फैन्ट्री
 अमित कुमार सिंह (67525डब्ल्यू), इन्फैन्ट्री
 आशीष ममगाई (67526वाई), इन्फैन्ट्री
 लाइश्राम चौरजीत सिंह (67527एफ), एसी

निशान्त कुमार (67528के), इन्फैन्ट्री
 उदिप्तो भूषण मलिक (67529एम), मैकनाइज
 अनुदीप सिंह सिद्ध (67530एफ), एओसी
 मनबीर सिंह गुमान (67531के), एएससी
 मारुति नंदन (67532एम), इंटर
 दिगम्बर सिंह (67533पी), मैकनाइज
 ईशू कुमार यादव (67534एक्स), आर्टी
 विक्रम चाढ़क (67536एच), इंजीनियर
 कल्लाल विश्वाल (67537एल), आर्टी
 जी सोमू महाराजन (67538एन), आर्टी
 दीपक कुमार डिमरी (67539डब्ल्यू), इन्फैन्ट्री
 राविश पाठक (67540एल), इन्फैन्ट्री
 ताडपत्रीकर प्रणव राम (67541एन), आर्टी
 अभिषेक कुमार (67542डब्ल्यू), एएससी
 कृष्ण थापा (67543वाई), इन्फैन्ट्री
 दीपक कुमार सिंह (67544एफ), आर्टी
 विकास कुमार रेपस्वाल (67545के), एसी
 मनु पान्डे (67546एम), एएससी
 नितिन चौहान (67547पी), इन्फैन्ट्री
 नीरज कुमार (67548एक्स), इन्फैन्ट्री
 अमित डढ़वाल (67549ए), आर्टी
 गौरव कटोच (67550ए), एसी
 वरूण चौधरी (67551एक्स), इन्फैन्ट्री
 ज्ञानेश कुमार (67552ए), एओसी
 प्रशान्त एस (67553एच), सिग्नल्स
 अंचित कुमार (67554एल), इन्फैन्ट्री
 दिश्वान प्रेवाल (67555एन), ईएमई
 दिपांकर हिमालयन (67556डब्ल्यू), इन्फैन्ट्री
 किशलय शुक्ला (67557वाई), आर्टी
 प्रभान्शु सिंह (67558एफ), आर्टी
 राजीव थापा (67559के), एएससी
 विनोद कुमार राठौर (67560वाई), इन्फैन्ट्री
 मयुरेश शरद खेडेकर (67561एफ), इन्फैन्ट्री
 वी चैतन्य रेडी (67562के), इन्फैन्ट्री

संतोष सेमवाल (67563एम), एओसी
 श्रीनिवास राव कुप्पिली (67564पी), सिग्नल्स
 शौर्य सिंह (67565एक्स), इन्फैन्ट्री
 कुलदीप वैष्णव (67566ए), मैकनाइज
 नीरज कुमार (67567एच), इंटर
 चरनजीत सिंह (67568एल), एओसी
 धीरज पोहड (67569एन), इंजीनियर
 हिमांशु सकलानी (67570एच), एएससी
 संदीप सुमन (67571एल), इन्फैन्ट्री
 विकास थापा (67572एन), एएससी
 अदित्य सिन्हा (67573डब्ल्यू), इन्फैन्ट्री
 शैलेन्द्र सिंह शेखावत (67574वाई), एओसी
 सुमित कोठियाल (67575एफ), मैकनाइज
 शशी शंकर विद्यार्थी (67576के), इंजीनियर
 गोविंद नारायण मिश्रा (67577एम), आर्टी
 कनिष्क थापा (67578पी), इन्फैन्ट्री
 अरूनेश प्रसाद दिवेदी (67579एक्स), एओसी
 कुलवंत सिंह (67580एम), आर्टी
 सुरेश एस (67581पी), एओसी
 रोमित शर्मा (67582एक्स), इन्फैन्ट्री
 जोशी श्रीराम श्रीहर्ष (67583ए), आर्टी
 राजकुमार मंडल (67584एच), मैकनाइज
 सौगत सरकार (67585एल), एएससी
 सुरेन्द्र सिंह राठौर (67586एन), एएससी
 तारा दत्त जोशी (67587डब्ल्यू), आर्टी
 मितलेश जोशी (67588वाई), एओसी
 सुकृत धर जयाल (67589एफ), इन्फैन्ट्री
 कपिल कुमार चांद (67590डब्ल्यू), आर्टी
 विश्वास कुमार (67591वाई), एसी
 शितांशु जैन (67592एफ), एएससी
 पूनेन्द्र सिंह भकुनी (67593के), इन्फैन्ट्री
 अलोक तोमर (67594एम), एएडी
 अमित कुमार सिंह (67595पी), एसी
 सागर सूर्यकांत बर्गे (67596एक्स), इन्फैन्ट्री

राजकुमार पल्लव गोहांई (67597ए), इन्फैन्ट्री	लव गौरव वत्स (67631पी), आर्टी
श्रेयस सुभाष देशपांडे (67598एच), इंजीनियर	नरेन्द्र शिवनारायण सिंह (67632एक्स), इन्फैन्ट्री
प्रदीप कुमार (67599एल), आर्टी	अभिजीत पत्रा (67633ए), इन्फैन्ट्री
ए सन्थाना गोपाला कृष्णन (67600पी), इन्फैन्ट्री	निखिल प्रकाश (67634एच), एएडी
सिद्धार्थ कुकरेती (67601एक्स), एएडी	दीपांशु साहा (67635एल), इन्फैन्ट्री
प्रतीक माथुर (67602ए), आर्टी	जाधव निखिल विजय (67636एन), एएससी
पंकज सूद (67603एच), इन्फैन्ट्री	शरद नेगी (67637डब्ल्यू), इन्फैन्ट्री
पारस अरोड़ा (67604एल), आर्टी	राहुल सिंह (67638वाई), एओसी
अमित यादव (67605एन), एओसी	जितेन्द्र रतुरी (67639एफ), इन्फैन्ट्री
पुरोहित गोपालराज जसराज (67606डब्ल्यू), इन्फैन्ट्री	पीयूषपाणि पाण्डेय (67640डब्ल्यू), इंटर
सुदीप सिंह रावल (67607वाई), एसी	सरीश तिवारी (67641वाई), इन्फैन्ट्री
भूपेन्द्र सिंह (67608एफ), एएससी	दलीप कुमार सैन (67642एफ), एएडी
राजीव कोनर (67609के), इन्फैन्ट्री	पवन कुमार शुक्ला (67643के), आर्टी
दीपक कुमार ठाकुर (67610वाई), इंजीनियर	अर्पण राय (67644एम), इन्फैन्ट्री
सुधीर कुमार (67611एफ), इन्फैन्ट्री	किंगशुक रक्तिम (67645पी), एएससी
कुनाल गांगुली (67612के), इन्फैन्ट्री	विकास कश्यप (67646एक्स), एसी
किष्कम जीत सिंह (67613एम), इन्फैन्ट्री	परिशित चौहान (67647ए), सिग्नल्स
सरोज कुमार अधिकारी (67614पी), एओसी	जय प्रकाश कुमार (67648एच), इन्फैन्ट्री
रजनीश कुमार शर्मा (67615एक्स), इन्फैन्ट्री	राम जी (67649एल), इंजीनियर
सुधांशु खुराना (67616ए), इंटर	विवेक कुमार (67650ए), इन्फैन्ट्री
विकास पंवार (67617एच), आर्टी	सुनील कुमार शर्मा (67651एच), आर्टी
रिशु गोयल (67618एल), एएडी	अभिषेक श्रीवास्तव (67652एल), आर्टी
ओम प्रकाश चमोला (67619एन), आर्टी	रवि राज रंधावा (67654डब्ल्यू), आर्टी
गण्डिकोट वी वी रामा संतोष किरण (67620एच), इन्फैन्ट्री	अनील कुमार खजुरिया (67655वाई), आर्टी
गौरव यादव (67621एल), इन्फैन्ट्री	नरेन्द्र सिंह (67656एफ), इन्फैन्ट्री
मनीष नरवाल (67622एन), इन्फैन्ट्री	अनिल कुमार पाण्डेय (67658एम), इन्फैन्ट्री
प्रशांत सिंह ठाकुर (67623डब्ल्यू), इन्फैन्ट्री	विवेक एस वी (67659पी), आर्टी
विजय दाका (67624वाई), एएससी	मनोज सेहरावत (67660के), इंटर
संजीव सिंह (67625एफ), मैकनाइज	अमन यादव (67661एम), एसी
दीपक छाजटा (67626के), एसी	अलोक कुमार (67662पी), एएडी
शैलेन्द्र सिंह शेखावत (67627एम), मैकनाइज	रविन्द्र सिंह (67664ए), इन्फैन्ट्री
अभिमान पत्तार (67628पी), इन्फैन्ट्री	के मुकेश कुमार नायडू (67665एच), इन्फैन्ट्री
करन कारिर (67629एक्स), इन्फैन्ट्री	संदीप कुमार दूबे (67666एल), इन्फैन्ट्री
रौनेन्द्र सिंह (67630एम), आर्टी	कार्तिक यू (67667एन), इन्फैन्ट्री

भानू प्रताप सिंह राठौर (67668डब्ल्यू), एएडी
 संदीप भजवा (67669वाई), एसी
 नरेश शर्मा (67670एन), आर्टी
 मनीष गुंशाई (67671डब्ल्यू), इन्फैन्ट्री
 निलेश भारद्वाज (67672वाई), मैकनाइज
 पुनीत नागर (67673एफ), आर्टी
 प्रदीप (67674के), इंजीनियर
 विनीत चौधरी (67675एम), इन्फैन्ट्री
 राहुल रमन (67676पी), एससी
 सौरभ त्रिपाठी (67677एक्स), मैकनाइज
 विशाल मलिक (67678ए), इंजीनियर
 अमीत मिश्रा (67679एच), एसी
 जोशी जोसफ (67680एक्स), इन्फैन्ट्री
 चासकर प्रशांत गुलाबराव (67681ए), एसी
 अभिनव दत्ता (67682एच), आर्टी
 मनोज उनियाल (67683एल), इन्फैन्ट्री
 करन वीर (67684एन), मैकनाइज
 विशाल सिंह राठौर (67685डब्ल्यू), आर्टी
 पनुर्नवा चक्रवर्ती (67686वाई), इन्फैन्ट्री
 दुष्यन्त चौहान (67687एफ), एएडी
 ललित सिंह बिष्ट (67688के), एओसी
 पुनीत भारद्वाज (67689एम), एओसी
 श्रीरंघ पाण्डे (67690एफ), इन्फैन्ट्री
 कपिल वाष्णीय (67691के), इन्फैन्ट्री
 के जया कुमार (67692एम), इन्फैन्ट्री
 आकाश खत्री (67693पी), इन्फैन्ट्री
 दुष्यन्त अरोड़ा (67694एक्स), इन्फैन्ट्री
 अग्नी प्रधान (67695ए), इन्फैन्ट्री
 नीरज नोटियाल (67696एच), सिग्नल्स
 विजय जलनीला (67697एल), ईएमई
 संदीप कुमार भट्टाचार्य (67698एन), आर्टी
 मोहित गोस्वामी (67700ए), इन्फैन्ट्री
 कार्तिक राजेन्द्रन (67701एच), इंटर
 आशीष चितले (67702एल), आर्टी
 विवेक तिवारी (67703एन), एएडी
 जशपाल सिंह नेगी (67704डब्ल्यू), एससी
 रानी राठी (67705वाई), इन्फैन्ट्री
 अभिमन्यु शर्मा (67706एफ), सिग्नल्स

पुष्पेन्द्र सिंह परिहार (67708एम), इन्फैन्ट्री
 गजेन्द्र मोहन सिंह खत्री (67709पी), आर्टी
 सुकेश सुर (67710के), आर्टी
 सुनील दत्त (67711एम), सिग्नल्स
 अनील कुमार उपाध्याय (67712पी), एएडी
 नवीन कुमार झा (67713एक्स), एसी
 रामेन्द्र कुमार सिंह (67714ए), इन्फैन्ट्री
 हर्ष तोमर (67715एच), इन्फैन्ट्री
 मनीष यादव (67716एल), ईएमई
 निपेन्द्र सिंह (67717एन), आर्टी
 अमित कुमार शर्मा (67718डब्ल्यू), इन्फैन्ट्री
 देवेन्द्र पढियारी (67719वाई), इन्फैन्ट्री
 तुहिन जोशी (67720एन), एसी
 कुमार अशिश सुनील (67721डब्ल्यू), इन्फैन्ट्री
 अंशुल वर्मा (67722वाई), एएडी
 प्रवीन निरुला (67723एफ), इन्फैन्ट्री
 अभिषेक डुशिजा (67724के), एओसी
 आवेश उदेय पाल (67725एम), ईएमई
 राहुल मेहता (67726पी), इन्फैन्ट्री
 विजय एस अहलावत (67727एक्स), इन्फैन्ट्री
 रवि शंकर (67728ए), एससी
 फाहद इनायत (67729एच), इन्फैन्ट्री
 एम साजिन (67731ए), आर्टी
 संदीप कुमार तोमर (67732एच), इंजीनियर
 रामुल पी (67733एल), आर्टी
 शिराज सिंह (67734एन), मैकनाइज
 आशिष शर्मा (67735डब्ल्यू), इन्फैन्ट्री

चन्द्र शेखर
 ले. कर्नल
 एएमएस-8बी

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन

सं. 641, दिनांक 06 दिसम्बर 2006--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं:--

टी.बी.आर.एल., चण्डीगढ़ के श्री दीपक कोठारी, अस्थायी वैज्ञानिक 'डी' को 27 जुलाई 2005 (पूर्वाह्न) से रु. 12,000-375-16,500/- के वेतनमान पर एक वर्ष की परखावधि के लिए।

पी. सारथ
 संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

तटरक्षक मुख्यालय

सं. 642, दिनांक 05 दिसम्बर 2006.--राष्ट्रपति, तटरक्षक में निम्नलिखित को उनके नाम के समक्ष दर्शाई गयी तिथि से सहायक कमांडेन्ट (जी डी/तकनीकी) के रूप में नियुक्ति करते हैं:--

सामान्य ड्यूटी

नाम	नियुक्ति	कार्य आरम्भ तिथि	वैयक्तिक नंबर
1	2	3	4
(सर्वश्री)			
एम.वी.एन. अभिषेक राव	दो वर्ष की परिवीक्षाधीन अवधि पर वेतनमान रुपये 8,000-275-13,500/- में सहायक कमांडेन्ट (जी डी/पी एन) के रूप में नियुक्त	27 जून 2005	0647एस
दीपक कुमार लामा	-यथोक्त-	-यथोक्त-	0648वी
तरुण दत्त पाण्डे	-यथोक्त-	-यथोक्त-	0649एक्स
मनीष कुमार	-यथोक्त-	-यथोक्त-	0650सी
मोतीलाल	-यथोक्त-	09 सितम्बर 2005	0651डी
वेद पाल	-यथोक्त-	-यथोक्त-	0652ई
विजेन्द्र सिंह तौमर	-यथोक्त-	26 दिसम्बर 2005	0653जे
वांगला वेंकटेश्वर रेड्डी	-यथोक्त-	-यथोक्त-	0654एल
जी मनी कुमार	-यथोक्त-	-यथोक्त-	0655एम
अतुल कुमार अग्रवाल	-यथोक्त-	-यथोक्त-	0656पी
ओ मरजीत सिंह	-यथोक्त-	-यथोक्त-	0657क्यू
अभीक चक्रवर्ती	-यथोक्त-	-यथोक्त-	0658एस
अभिमन्यु सिंह चौहान	-यथोक्त-	-यथोक्त-	0659वी
चंदन कुमार सिंह	-यथोक्त-	-यथोक्त-	0660एक्स
संदेश प्रभा के जे	-यथोक्त-	-यथोक्त-	0661सी
सुनील दत्त	-यथोक्त-	-यथोक्त-	0662डी
तकनीकी			
विकास कपूर	दो वर्ष की परिवीक्षाधीन अवधि पर वेतनमान रुपये 8,000-275-13,500/- में सहायक कमांडेन्ट (तकनीकी) के रूप में नियुक्त	27 जून 2005	5090क्यू
सी आर हरी कुमार	-यथोक्त-	-यथोक्त-	4138ई
गिरीश आर्य	-यथोक्त-	-यथोक्त-	4139ई
करमजीत सिंह	-यथोक्त-	-यथोक्त-	5091एस
विनोद कुमार एन बी	-यथोक्त-	09 सितम्बर 2005	4140जे
विकास राठी	-यथोक्त-	26 दिसम्बर 2005	4141एल
डी जय कुमार	-यथोक्त-	-यथोक्त-	4142एम
प्रदीप कुमार जेना	-यथोक्त-	-यथोक्त-	4143पी
प्रदीप रॉय	-यथोक्त-	-यथोक्त-	4144क्यू

1	2	3	4
दीपक गोसाई	दो वर्ष की परिवीक्षाधीन अवधि पर वेतनमान रुपये 8,000-275-13,500/- में सहायक कमांडेंट (तकनीकी) के रूप में नियुक्त	27 जून 2005	5090क्यू
अजब सिंह तंवर	-यथोक्त-	-यथोक्त-	5093एक्स
जीवन सिंह	-यथोक्त-	-यथोक्त-	5094सी
कुलदीप कुमार गुप्ता	-यथोक्त-	-यथोक्त-	5095डी
			वी.के. तिवारी निदेशक (नौसेना-II)

वायु शाखा

सं. 643 दिनांक 6 दिसम्बर 2006.--सष्टपति, निम्नलिखित अफसरों को उनके नाम के सामने दी गई तिथि से वायु सेना आदेश 59/98 के उपबंधों के तहत स्थायी कमीशन (परखाधीन) प्रदान करते हैं:--

भारतीय वायु सेना

भूतपूर्व फ्लाईट कैडेट फ्लाईंग अफसर के रैंक में

प्रशासनिक शाखा

फ्लाईंग अफसर पूरुषोत्तम मरूदा मरिप्पन (28225), शर्मा सूरज कुमार हरिकांत (28226), विकास चौधरी (28227), सागर भारद्वाज (28228), धन मोहन सिंह (28229), जगत बेहरी दाश (28230), अशीष कक्कड़ (28231), परितोण कुमार सिंह (28232) कंगेयम हनुमंताराव नगराजन (28233), मनीष चन्द्रा (28234), देवेन्द्र सिंह (28235), दीपक कुमार चौबे (28236), गौरव कपिल (28237), चिन्मय सन्याल (28238), जे श्रीनिवास (28239), पलश घोष (28240), पंकज कुमार शाह (28242), शिरके विवेक वसंत (28243), कृष्णा कुमार पी एन (28244), कोदिदाला हरि प्रसाद (28245), दूर्गा शंकर दास (28246)

--18 दिसम्बर 04 से प्रभावी

सांमारिकी शाखा

फ्लाईंग अफसर ब्रजेश कुमार (28247), मालेकुडी जॉर्ज स्टीफन (28248), विजेन्द्र कुमार वर्मा (28249), सौरभ कुमार (28250), जयंत कुमार पत्ता (28251), प्रदीप कुमार (28252),

--18 दिसम्बर 04 से प्रभावी

लेखा शाखा

फ्लाईंग अफसर सतीशन वराकंडी (28253), कुमारन मानिया राजा (28254), राम कृष्णा कैटपीलै (28255), सुनिल गुप्ता (28256) चन्द्रासेखरण बीजू कुमार (28257), सीरा श्रीनिवास श्रीधर (28258)

--18 दिसम्बर 04 से प्रभावी

मौसम शाखा

फ्लाईंग अफसर सुरेन्द्र सिंह (28259), प्रशांत बी एस (28260)

--18 दिसम्बर 04 से प्रभावी

वायु शाखा

राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित यू/टी ऑफिसर को उनके नाम के सामने दी गई तिथि से भारत सरकार रक्षा मंत्रालय पत्र सं. वा से मू/24745/4/पी पी (ओ)/पी सी I/184/डी एस/एयर-III तारीख 23 अप्रैल 01 के उपबंधों के तहत अल्पकालीन सेवा कमीशन परखाधीन प्रदान करते हैं।

भारतीय वायु सेना

यू/टी ऑफिसर से फ्लाईंग ऑफिसर के रैंक में

मौसम शाखा

फ्लाईंग ऑफिसर रेश्मा पी पाटिल (27937) 5 जनवरी 2004 से प्रभावी।

राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित यू/टी ऑफिसर को प्रदत्त औपबन्धिक अल्पकालीन सेवा कमीशन समाप्त करते हैं तथा उनके नाम के सामने दी गई तिथि से भारत सरकार रक्षा मंत्रालय पत्र सं. वा से मू/24745/4/पी पी (ओ)/पी सी I/184/डी एस/एयर-III तारीख 23 अप्रैल 01 के उपबंधों के तहत अल्पकालीन सेवा कमीशन (परखाधीन) प्रदान करते हैं।

भारतीय वायु सेना

यू/टी ऑफिसर से फ्लाईंग ऑफिसर के रैंक में

मौसम शाखा

फ्लाईंग ऑफिसर रेश्मा पी पाटिल (27937) 18 दिसम्बर 2004 से प्रभावी।

राष्ट्रपति निम्नलिखित अफसरों को उनके नाम के सामने दी गई तिथि से भारत सरकार वायु सेना मुख्यालय पत्र संख्या वासेमु/24745/4/पी पी(ओ)/पीसी-I/184/डीएस/डी/(वायु-III) दिनांक 23 अप्रैल 2001 के उपबंधों के तहत औपबन्धिक अल्प सेवा कमीशन प्रदान करते हैं:--

भारतीय वायु सेना

भूतपूर्व फ्लाईट कैडेट फ्लाईंग अफसर के रैंक में

प्रशासनिक शाखा

फ्लाईंग अफसर निशांत सुहाग (28264), पूजा मिश्रा (28265), जया गौतम (28266), श्वेता चौधरी (28267), अर्पणा विष्ट (28268),

सरगम तटकावड़ी (28269), सौम्या बी (28270), सुगन्या कानाडी (28272), शिखा शर्मा (28273), आत्मा त्रिपाठी (28274), मंका भारती (28276), टी मुकिला (28277), रंजना सैनी (28278), ऐश्वर्या निर्मला (28279), मीणा अरोड़ा (28280), अनुदीप्ति (28281), लक्ष्मी सामना (28282), कुलकर्णी वरुशाली दीपक (28283), बी सुबा चंदना (28284) और डी पुनिया वीतिल (28285), 18 दिसम्बर 2004 से प्रभावी। अन्तरा डे चौधुरी (28294), 17 जनवरी 2005 से प्रभावी।

सांभरिकी शाखा

फ्लाईंग अफसर भावना मित्तल (28286), अभिलाषा श्रीवास्तव (28287), सरह क्लेवेटिन (28288), आर सिंधिया (28289) और भुमल पल्लवी सुधिर (28290), 18 दिसम्बर 2004 से प्रभावी।

लेखा शाखा

फ्लाईंग अफसर मिश्रा ललिता अखिलेश एस (28291), 18 दिसम्बर 2004 से प्रभावी।

शिक्षा शाखा

फ्लाईंग अफसर प्रिया जोशी (28292), 18 दिसम्बर 2004 से प्रभावी।

राष्ट्रपति निम्नलिखित अफसर (फ्लाइट कैडेट) को उनके नाम के सामने दी गई तिथि से वायु सेना आदेश 59/98 के उपबंधों के तहत फ्लाईंग अफसर रैंक में स्थायी कमीशन तथा विंग (परखाधीन) प्रदान करते हैं। ये अफसर स्थायी कमीशन तथा विंग (परखाधीन) प्रदान करने के तारीख से उड़ान वेतन पाने के अधिकारी हैं जो 18 दिसम्बर 2004 है :--

भारतीय वायु सेना

उड़ान पायलट शाखा

भूतपूर्व फ्लाइट कैडेट से फ्लाईंग अफसर के रैंक में

फ्लाईंग अफसर अभय कुमार सिंह (28169), वरिन्दर सैनी (28171), निखिल कुमार रथ (28172), सागिली साई किरण (28173), वरुण फौजदार (28174), अंकित राज सिंह (28175), रोहित सिंह (28176), गुरप्रीत सिंह दिल्लीन (28177), शुभंकन (28178), वैभव विशाल (28179), रंजीत सिंह सिधु (28181), प्रशांत उनयाल (28182), प्रशांत सिंह नेगी (28183), करण कपूर (28184), नीमिश महेश्वरी (28185), ध्रुव कुमार (28186), रवि राज खत्री (28187), संदीप रनवा (28189), योगेश शर्मा (28194), अतुल आनंद (28195), एम सुरेन्द्रण (28197), विरेन्द्र खत्री (28199), अंगद प्रताप (28200), धीरज अहलावत (28201), गौतम सिंह (28204), मनीष (28205), रोहन बिष्ट (28206), चेतन सी जे (28207), गौरव कुडलिया (28209), नवरेन्द्र कंवर (28210), अभिषेक सिंह तनवर (28211), अजय चौहान (28213), सुनिल गौत (28214), करण शिरिश देव (28215), अबरर असगर मौलवी (28217), आशीष कपूर (28218), सयंतन चक्रवर्ती (28219), संसार (28220), हरमीत तलवार (28221), परिक्षित हास्तेकर (28223), सुमेध अशोक जामकर (28224), 18 दिसम्बर 2004 से प्रभावी।

राष्ट्रपति निम्नलिखित अफसर (फ्लाइट कैडेट्स) को उनके नाम के सामने दी गई तिथि से वायु सेना आदेश 59/98 के उपबंधों के तहत फ्लाईंग अफसर रैंक में स्थायी कमीशन तथा विंग (परखाधीन) प्रदान करते हैं। ये अफसर स्थायी कमीशन तथा विंग (परखाधीन) प्रदान करने के तारीख से उड़ान वेतन पाने के अधिकारी हैं, जो 19 जून 2004 है :--

भारतीय वायु सेना

उड़ान (पायलट) शाखा

भूतपूर्व फ्लाइट कैडेट से फ्लाईंग अफसर के रैंक में

फ्लाईंग अफसर निरंजन आचार्या (28025), 19 जून 2004 से प्रभावी।

राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित ऑफिसरों को उनके नाम के सामने दी गई तिथि से भारत सरकार रक्षा मंत्रालय पत्र संख्या वासेमु/24745/4/पी पी(ओ)/पीसी-1/184/डीएस/एयर-III तारीख 23 अप्रैल 2001 के उपबंधों के तहत औपबन्धिक अल्पकालीन सेवा कमीशन तथा विंग प्रदान करते हैं। ये ऑफिसर औपबन्धिक अल्पकालीन सेवा कमीशन तथा विंग प्रदान करने की तारीख यानि 18 दिसम्बर 2004 से उड़ान वेतन पाने के अधिकारी हैं:--

भारतीय वायु सेना

उड़ान (पायलट) शाखा

भूतपूर्व फ्लाइट कैडेट्स से फ्लाईंग ऑफिसर के रैंक में

फ्लाईंग ऑफिसर ब्योमिका सिंहा (28261), टीमा मथ्यु (28262) और मधुरा अशोक वारनेकर (28263), 18 दिसम्बर 2004 से प्रभावी।

राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित ऑफिसरों (फ्लाइट कैडेट्स) को उनके नाम के सामने दी गई तिथि से वायु सेना आदेश 59/98 के उपबंधों के तहत स्थायी कमीशन तथा ब्रेवेट्स (परखाधीन) प्रदान करते हैं। ये अफसर स्थायी कमीशन तथा ब्रेवेट्स (परखाधीन) प्रदान करने की तारीख से उड़ान वेतन पाने के अधिकारी हैं, जो 18 दिसम्बर 2004 है :--

भारतीय वायु सेना

उड़ान (नेवीगेटर) शाखा

भूतपूर्व फ्लाइट कैडेट्स से फ्लाईंग ऑफिसर के रैंक में

फ्लाईंग ऑफिसर कुमार विक्रम सिंह बघेल (28170), देवेन्द्र बूरा (28180), दीपक कुमार देहुरी (28193), मोहित चौहान (28196), अयुश रावत (28202), विकास त्याल (28203), विक्रान्त सिंह जमवाल (28216) और रजनीश चन्द कटोच (28222), 18 दिसम्बर 2004 से प्रभावी।

राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित ऑफिसरों को प्रदत्त औपबन्धिक अल्पकालीन सेवा कमीशन समाप्त करते हैं तथा वायु सेना आदेश

59/98 के उपबंधों के तहत उनके नाम के सामने दी गई तिथि से स्थायी कमीशन (परखाधीन) प्रदान करते हैं:—

भारतीय वायु सेना

यू/टी ऑफिसर पे फ्लाईंग ऑफिसर हो रैंक में

मोसम शाखा

फ्लाईंग ऑफिसर पुरली कृष्णा (27935), निदुमान्दा सन्देश अपैराह (27936), 18 दिसम्बर 2004 से प्रभावी।

राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित यू/टी ऑफिसरों को उनके नाम के सामने दी गई तिथि से वायु सेना आदेश 59/98 के उपबंधों के तहत औपबंधिक अल्पकालीन सेवा कमीशन प्रदान करते हैं:—

भारतीय वायु सेना

मौसम शाखा

फ्लाईंग ऑफिसर मुरली कृष्णा (27935), निदुमान्दा सन्देश अपैराह (27936), 05 जनवरी 2004 से प्रभावी।

एस श्रीवास्तव
विंग कमांडर
जे डी पी ओ-3(डी)

वायु सेना

सं. 644, दिनांक 6 दिसम्बर 2006—राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित ऑफिसरों को जिन्हें (परखाधीन) प्रदान किया गया था, उन्हें उनके नाम के सामने दी गई दिनांक से पुष्टि करते हैं:—

भारतीय वायु सेना

उड़ान (पायलट) शाखा

फ्लाईंग अफसर निरंजन आचार्या (28025), 19 जून 2004 से प्रभावी।

एस श्रीवास्तव
विंग कमांडर
जे डी पी ओ-3(डी)

थल सेना शाखा

सं. 645, दिनांक 1 दिसम्बर 2006—राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नतियाँ करते हैं।

(नियमित थल सेना)

(सेना चिकित्सा कोर)

स्थायी सूबेदार मेजर एम्बुलेन्स असिस्टेंट

सूबेदार कल्याण सिंह मील (जेसी-692731एच), 01 फरवरी 2006

स्थायी सूबेदार (एम्बुलेन्स असिस्टेंट)

नायब सूबेदार इंदराज कुमार (जेसी-694311वाई), 01 सितम्बर 2005

नायब सूबेदार बिनोद कुमार सिंह (जेसी-694347ए), 01 जनवरी 2006

नायब सूबेदार जीता राम (जेसी-694476ए), 01 जनवरी 2006

नायब सूबेदार रायकवाड़ बबन जय राम (जेसी-694486के), 01 जनवरी 2006

नायब सूबेदार गामा प्रसाद यादव (जेसी-694488पी), 01 फरवरी 2006

नायब सूबेदार लेखराज (जेसी-694489एक्स), 01 फरवरी 2006

नायब सूबेदार सदा नन्द राय (जेसी-694490एम), 01 फरवरी 2006

नायब सूबेदार राम चन्द्र ठाकुर (जेसी-694491पी), 01 फरवरी 2006

नायब सूबेदार देब सिंह बिष्ट (जेसी-694503पी), 01 फरवरी 2006

नायब सूबेदार चन्द्र मोहन (जेसी-694492एक्स), 01 फरवरी 2006

नायब सूबेदार लाल बाबू ठाकुर (जेसी-694493एक्स), 01 फरवरी 2006

नायब सूबेदार मंगंडे अंकुश हरीबा (जेसी-694494एच), 01 फरवरी 2006

नायब सूबेदार गगन बिहारी ऐच (जेसी-694496एन), 01 फरवरी 2006

नायब सूबेदार सशी कुमार सिंहा (जेसी-694497डब्ल्यू), 01 फरवरी 2006

नायब सूबेदार मदन लाल (जेसी-694498वाई), 01 फरवरी 2006

नायब सूबेदार विष्णुबीर थापा (जेसी-694504एफ), 01 फरवरी 2006

नायब सूबेदार भाष्कर ई (जेसी-694499एफ), 01 फरवरी 2006

नायब सूबेदार अक्षय कुमार जेना (जेसी-694500एल), 01 फरवरी 2006

नायब सूबेदार मिर्जा कोशाम्बी (जेसी-694501एन), 01 फरवरी 2006

नायब सूबेदार जगदेव सिंह (जेसी-694565वाई), 01 फरवरी 2006

नायब सूबेदार भरत चौधरी (जेसी-694566एफ), 01 फरवरी 2006

नायब सूबेदार जय गोपाल राय (जेसी-694567के), 01 फरवरी 2006

नायब सूबेदार अशोक कुमार (जेसी-694568एम), 01 फरवरी 2006

नायब सूबेदार छोटू राम (जेसी-694338वाई), 01 मार्च 2006

नायब सूबेदार प्रभाकर सिंह (जेसी-694569पी), 01 मार्च 2006

नायब सूबेदार ए राजपणन (जेसी-694371एम), 01 मार्च 2006

नायब सूबेदार नागराजन पी (जेसी-694572पी), 01 मार्च 2006

नायब सूबेदार प्रबुन कुमार धडवाल (जेसी-694573एक्स), 01 मार्च 2006

नायब सूबेदार विरेन्द्र सिंह (जेसी-694703पी), 01 मार्च 2006

नायब सूबेदार सन्तोष कुमार पाठक (जेसी-694574ए), 01 मार्च 2006

नायब सूबेदार रामेश्वर ठाकुर (जेसी-694575एच), 01 मार्च 2006

नायब सूबेदार सेवा सिंह (जेसी-694576एल), 01 मार्च 2006

नायब सूबेदार प्रबुद्ध कुमार धर (जेसी-697577एन), 01 मार्च 2006

नायब सूबेदार जी उग्री नायडू (जेसी-6945704एक्स), 01 मार्च 2006

नायब सूबेदार जय प्रकाश पी के (जेसी-694705ए), 01 मार्च 2006

नायब सूबेदार एम विजयन (जेसी-694706एच), 01 मार्च 2006

नायब सूबेदार मनमोहरन एम (जेसी-694707एल), 01 जून 2006

नायब सूबेदार महेन्द्र कुमार (जेसी-694708एल), 01 जून 2006

नायब सूबेदार मदन लाल (जेसी-694710एल), 01 जून 2006

नायब सूबेदार बलवन्त सिंह (जेसी-694765पी), 01 जून 2006

नायब सूबेदार राज नाथ राय (जेसी-694767ए), 01 जून 2006

नायब सूबेदार सुनील कुमार सिन्हा (जेसी-694816एक्स), 01 जून 2006

नायब सूबेदार नन्दजी दुबे (जेसी-694768एच), 01 जून 2006

नायब सूबेदार राधवा मलिया भाई भूना भाई (जेसी-694817ए), 01 जून 2006

स्थायी सूबेदार (ड्राईवर) (एम टी)

नायब सूबेदार पहिलधान (जेसी-694602एफ), 01 मार्च 2006

नायब सूबेदार उदयवीर सिंह (जेसी-694712डब्ल्यू), 01 जून 2006

नायब सूबेदार दिनेश राय (जेसी-694603एक्स), 01 जून 2006

नायब सूबेदार ए इसाकी दोस (जेसी-694604एम), 01 जुलाई 2006

नायब सूबेदार करमवीर (जेसी-694770ए), 01 जुलाई 2006

नायब सूबेदार श्रीनिवास सिंह (जेसी-694772एल), 01 जुलाई 2006

नायब सूबेदार राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता (जेसी-694821एच), 01 जुलाई 2006

नायब सूबेदार (एम्बुलेन्स असिस्टेंट)

हवलदार चमन लाल (सं. 13951332एच अब जेसी-695569एफ), 09 जुलाई 2006

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2005 से दी जायेगी)

हवलदार गनपत राम (सं. 13952729एफ अब जेसी-695332के), 10 फरवरी 2006

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 जनवरी 2006 से दी जायेगी)

हवलदार बिजोय कुमार बिश्वास (सं. 13950318के अब जेसी-695527पी), 22 मार्च 2006

हवलदार महादेव ओरन (सं. 13951057एन अब जेसी-695372एल), 13 मार्च 2006

हवलदार नियारन पात्रास नाग (सं. 13950678ए अब जेसी-695360डब्ल्यू), 08 मार्च 2006

हवलदार हरा कुमार देव वर्मा (सं. 13952238एल अब जेसी-695393एफ), 14 मार्च 2006

हवलदार बशीर खान (सं. 13952628एन अब जेसी-695394के), 20 मार्च 2006

हवलदार फकीर रज्जाक महताब (सं. 13952824एन अब जेसी-695333एम), 20 फरवरी 2006

हवलदार सुरेन्द्र प्रसाद राय (सं. 13952869एन अब जेसी-695344वाई), 03 मार्च 2006

हवलदार सिवा शंकरा पिल्लई वी (सं. 13952897ए अब जेसी-695373एन), 20 मार्च 2006

हवलदार राम भवन गोस्वामी (सं. 13952906डब्ल्यू अब जेसी-695334पी), 18 फरवरी 2006

हवलदार जय राम (सं. 13952925एफ अब जेसी-695335एक्स), 13 फरवरी 2006

हवलदार रंजीत कुमार राय (सं. 13952956एफ अब जेसी-695336ए), 06 फरवरी 2006

हवलदार प्रीत पाल (सं. 13952946एक्स अब जेसी-695361वाई), 23 फरवरी 2006

हवलदार आर रामचन्द्रन (सं. 13952952एल अब जेसी-695345एफ), 25 फरवरी 2006

हवलदार विरेन्द्र कुमार (सं. 13952983एल अब जेसी-695346के), 20 फरवरी 2006

हवलदार मेहर सिंह (सं. 3380527एफ अब जेसी-695362एफ), 07 मार्च 2006

हवलदार बाम देव तिवारी (सं. 13952990एफ अब जेसी-695347एम), 22 फरवरी 2006

हवलदार दगदू बाबू राव पाटिल (सं. 13953157के अब जेसी-695363के), 03 मार्च 2006

हवलदार चन्द्रप्पा एन (सं. 13953382एम अब जेसी-695364एम), 06 मार्च 2006

हवलदार शुखलाल वैश्य (सं. 13953385ए अब जेसी-695348पी),
02 मार्च 2006

हवलदार विनोद कुमार पाण्डेय (सं. 13953388एन अब जेसी-695349एक्स), 28 फरवरी 2006

हवलदार सुरेन्द्र कुमार मिश्रा (सं. 13953436एच अब जेसी-695350एम), 27 फरवरी 2006

हवलदार सिद्ध नाथ पासवान (सं. 13953432एम अब जेसी-695450एम), 27 फरवरी 2006

हवलदार राजेन्द्र प्रसाद हरिजन (सं. 13953440एल अब जेसी-695337एच), 18 फरवरी 2006

हवलदार हनुमन्थू रामा कृष्णा राव (सं. 13953446एम अब जेसी-695351पी), 23 फरवरी 2006

*(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 फरवरी 2006 से दी जायेगी)

हवलदार मन्जे गोवडा एम टी (सं. 13953483ए अब जेसी-695374डब्ल्यू), 16 मार्च 2006

हवलदार श्रीकान्त नायर बी (सं. 13953523डब्ल्यू अब जेसी-695365पी), 09 मार्च 2006

हवलदार देवेन्द्र नारायण सिंह (सं. 13952381एक्स अब जेसी-695337वाई), 13 मार्च 2006

हवलदार राम कृष्णन मण्डल (सं. 13953466ए अब जेसी-695395एम), 31 मार्च 2006

हवलदार एस पुष्पराज (सं. 13953529एच अब जेसी-695376पी), 13 मार्च 2006

हवलदार दिलीप कुमार सिन्हा (सं. 13953534एच अब जेसी-695396पी), 24 मार्च 2006

हवलदार माचवराम वेंकट रंगईया (सं. 13953537डब्ल्यू अब जेसी-695377के), 09 मार्च 2006

हवलदार राम विवेक ठाकुर (सं. 13953490डब्ल्यू अब जेसी-695360एफ), 14 मार्च 2006

हवलदार मगदुल्ला प्रसाद (सं. 13953494एम अब जेसी-695397एक्स), 15 मार्च 2006

*(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 मार्च 2006 से दी जायेगी)

हवलदार भानु प्रताप (सं. 1395511एफ अब जेसी-695308ए), 01 अप्रैल 2006

हवलदार रत्ना कान्त बोरा (सं. 13953501एक्स अब जेसी-695399एच), 03 अप्रैल 2006

हवलदार मारुती जयावन्त खोत (सं. 13953570एन अब जेसी-695461एक्स), 01 अप्रैल 2006

*(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2006 से दी जायेगी)

हवलदार रमेश चन्द्र (सं. 13952482एल अब जेसी-695528एक्स),
20 मई 2006

हवलदार जितेन्द्र व दास (सं. 13953583एल अब जेसी-695529ए),
27 मई 2006

हवलदार विजय पाण्डेय (सं. 13953614ए अब जेसी-695532ए),
01 जून 2006

*(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 मई 2006 से दी जायेगी)

हवलदार राधे श्याम (सं. 13953625एम अब जेसी-695567डब्ल्यू),
05 जून 2006

हवलदार राजेन्द्र सिंह (सं. 13953624के अब जेसी-695533एच),
01 जून 2006

हवलदार मेजर सिंह (सं. 13951343पी अब जेसी-695534एल),
01 जून 2006

हवलदार गिरजा शंकर (सं. 13953621डब्ल्यू अब जेसी-695530पी),
01 जून 2006

*(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 जून 2006 से दी जायेगी)

हवलदार जेलेश्वर राय (सं. 13952909के अब जेसी-695593एक्स),
26 जुलाई 2006

हवलदार सुरेश चन्द्र यादव (सं. 13952927एम अब जेसी-695570डब्ल्यू), 10 जुलाई 2006

*(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 11 जून 2006 से दी जायेगी)

हवलदार राज नारायण राव (सं. 13953389डब्ल्यू अब जेसी-695524एन), 12 सितम्बर 2006

हवलदार नागेन्द्र कुमार (सं. 13953635डब्ल्यू अब जेसी-695525पी),
23 अगस्त 2006

हवलदार राजेन्द्र प्रसाद नाडिया (सं. 13953634एन अब जेसी-695594ए), 20 जुलाई 2006

हवलदार नारायण सिंह (सं. 13953644एक्स अब जेसी-695595एच),
21 जुलाई 2006

हवलदार शिव शंकर नाविक (सं. 13953641के अब जेसी-695596एल), 05 अगस्त 2006

हवलदार विनोद कुमार भट्ट (सं. 13953632एच अब जेसी-695597एन), 05 अगस्त 2006

*(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 जून 2006 से दी जायेगी)

हवलदार भाना राम (सं. 13953477एम अब जेसी-695598डब्ल्यू),
14 अगस्त 2006

हवलदार सुरेन्द्र सिंह (सं. 13953674पी अब जेसी-695599वाई),
01 अगस्त 2006

हवलदार कसिन्द्र यादव (सं. 13953680एच अब जेसी-695600एच),
01 अगस्त 2006

*(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले
ज्येष्ठता 01 अगस्त 2006 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार (ड्राईवर एम डी)

हवलदार मदन पाल शर्मा (सं. 13951632के अब
जेसी-695343डब्ल्यू), 15 फरवरी 2006

*(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले
ज्येष्ठता 13 नवम्बर 2006 से दी जायेगी)

हवलदार शिव पूजन राउत (सं. 13951203एच अब
जेसी-695400एम), 24 मार्च 2006

हवलदार सुधीर प्रसाद सिंह (सं. 13951204एल अब जेसी-
6955462एम), 20 अप्रैल 2006

हवलदार पटोले भरत तुकाराम (सं. 13952632डब्ल्यू अब
जेसी-695401पी), 22 जनवरी 2006

*(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले
ज्येष्ठता 22 जनवरी 2006 से दी जायेगी)

हवलदार प्रभाकर तुकारामजी लहवाल (सं. 13954716एच अब
जेसी-695568वाई), 15 जून 2006

हवलदार परम हंस सिंह (सं. 13954745एक्स अब जेसी-695531एक्स),
29 मई 2006

*(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले
ज्येष्ठता 02 अप्रैल 2006 से दी जायेगी)

हवलदार राजेन्द्र सिंह (सं. 13954473एच अब जेसी-695601एल),
12 अगस्त 2006

हवलदार ससाधर देशमुख (सं. 13954242एम अब जेसी-695602एन),
31 जुलाई 2006

*(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले
ज्येष्ठता 11 जून 2006 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार (नर्सिंग असिस्टेंट)

हवलदार कुंवर सिंह पाल (सं. 13956578एल अब जेसी-695109ए),
01 मई 2006

*(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले
ज्येष्ठता 01 मई 2006 से दी जायेगी)

हवलदार नरेश कुमार (सं. 13956636के अब जेसी-695110पी),
01 अगस्त 2006

हवलदार बाबू शर्मा (सं. 13956761एन अब जेसी-695175एच),
01 अगस्त 2006

हवलदार श्री कृष्ण (सं. 13956988एफ अब जेसी-695182वाई),
01 अगस्त 2006

हवलदार उत्तर कुमार राय (सं. 13955610एच अब
जेसी-695402एक्स), 01 अगस्त 2005

*(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले
ज्येष्ठता 01 अगस्त 2005 से दी जायेगी)

हवलदार राम प्रसाद पाल (सं. 13956476पी अब जेसी-695302एम),
01 अक्टूबर 2005

हवलदार उत्तम कुमार देव (सं. 13956766के अब जेसी-695303पी),
01 अक्टूबर 2006

हवलदार मनोहर सिंह राठौर (सं. 13953633एफ अब जेसी-695315के),
01 अक्टूबर 2005

*(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2006 से दी जायेगी)

हवलदार मोहम्मद सगीर (सं. 13957100ए अब जेसी-695266एम),
01 नवम्बर 2006

हवलदार गुलाब सिंह (सं. 13957104डब्ल्यू अब जेसी-695267पी),
01 नवम्बर 2005

हवलदार महेन्द्र सिंह (सं. 13957162डब्ल्यू अब जेसी-695268एक्स),
01 नवम्बर 2005

*(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले
ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2005 से दी जायेगी)

हवलदार मोती लाल वर्मा (सं. 13957178एल अब जेसी-695269ए),
01 दिसम्बर 2005

हवलदार सुरेश चन्द (सं. 13957194एच अब जेसी-695270पी),
01 दिसम्बर 2005

*(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले
ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2005 से दी जायेगी)

हवलदार रमेश चन्द्र (सं. 13957298के अब जेसी-695316एम),
01 जनवरी 2006

हवलदार सुरेन्द्र कुमार (सं. 13957320के अब जेसी-695403ए),
01 जनवरी 2006

हवलदार शेर सिंह यादव (सं. 13957429के अब जेसी-695317पी),
01 जनवरी 2006

हवलदार सत्यवान (सं. 13957417पी अब जेसी-695359एफ),
01 जनवरी 2006

*(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2006 से दी जायेगी)

हवलदार अजय कुमार (सं. 13957413वाई अब जेसी-695458के),
01 फरवरी 2006

हवलदार राजेन्द्र सिंह (सं. 13957419ए अब जेसी-695416एक्स),
01 फरवरी 2006

हवलदार लाल धर राम (सं. 13957426 डब्ल्यू अब जेसी-695404एच),
01 फरवरी 2006

हवलदार श्रीकान्त यादव (सं. 13957465पी अब जेसी-695496ए),
01 फरवरी 2006

हवलदार चैन सिंह (सं. 13952605एम अब जेसी-695417ए),
01 फरवरी 2006

हवलदार उमैद सिंह रावत (सं. 13956831एफ अब जेसी-695418एच), 01 फरवरी 2006

*(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 फरवरी 2006 से दी जायेगी)

हवलदार सुशान्त कुमार नेहरा (सं. 13956994पी अब जेसी-695419एल), 02 फरवरी 2006

*(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 02 फरवरी 2006 से दी जायेगी)

हवलदार अशोक कुमार जेना (सं. 13957275एच अब जेसी-695420ए), 01 मार्च 2006

हवलदार सत्यपाल सिंह (सं. 13957432के अब जेसी-695405एल),
01 मार्च 2006

हवलदार वेद पाल (सं. 13957454एच अब जेसी-695559एक्स),
01 मार्च 2006

हवलदार अरूण कुमार शर्मा (सं. 13957495एम अब जेसी-695421एच), 01 मार्च 2006

हवलदार राम फल (सं. 13957494के अब जेसी-695422एल),
01 मार्च 2006

हवलदार राम अवतार (सं. 13957450एम अब जेसी-695423एन),
01 मार्च 2006

*(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 मार्च 2006 से दी जायेगी)

हवलदार सुभाष चन्द्र शर्मा (सं. 13957150एल अब जेसी-695490एल), 10 मार्च 2006

*(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 10 मार्च 2006 से दी जायेगी)

हवलदार गिरधारी लाल (सं. 13957361एन अब जेसी-695560एम),
01 अप्रैल 2006

हवलदार अशोक कुमार के जी (सं. 13957393डब्ल्यू अब जेसी-695424डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2006

हवलदार कैलाश बिहारी शर्मा (सं. 13957380वाई अब जेसी-695491एफ), 01 अप्रैल 2006

हवलदार रोहतास सिंह (सं. 13957455एल अब जेसी-695497एच),
01 अप्रैल 2006

हवलदार चौहाल सिंह (सं. 13957376डब्ल्यू अब जेसी-695561पी),
01 अप्रैल 2006

हवलदार जसवन्त सिंह (सं. 13957511वाई अब जेसी-695425वाई),
01 अप्रैल 2006

हवलदार रेजी ए (सं. 13957397एम अब जेसी-695538एफ),
01 अप्रैल 2006

हवलदार मोहनन पिल्लई सी (सं. 13957398पी अब जेसी-6954441डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2006

हवलदार कृष्णा कुरुप एम आर (सं. 13957387एच अब जेसी-695562एच), 01 अप्रैल 2006

हवलदार श्री कुमार आर (सं. 13957394वाई अब जेसी-695492के),
01 अप्रैल 2006

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2006 से दी जायेगी)

हवलदार राधे श्याम कुशवाहा (सं. 13957496पी अब जेसी-695493एम), 01 अप्रैल 2006

हवलदार राजेन्द्र सिंह (सं. 13957386पी अब जेसी-695563ए),
01 अप्रैल 2006

हवलदार सतपाल सिंह (सं. 13957452वाई अब जेसी-695565एल),
01 अप्रैल 2006

हवलदार पिंटू कुमार विश्वास (सं. 13957476एफ अब जेसी-695556एल), 01 अप्रैल 2006

हवलदार गोरख नाथ यादव (सं. 13957473एन अब जेसी-695494पी),
01 अप्रैल 2006

हवलदार मनोज कुमार सिंह (सं. 13957517ए अब जेसी-695564एच),
01 अप्रैल 2006

हवलदार विरेन्द्र कुमार (सं. 13957520ए अब जेसी-695463पी), 01 अप्रैल 2006

हवलदार तीर्थ राज सिंह (सं. 13957521एन अब जेसी-695442वाई),
01 अप्रैल 2006

हवलदार ईश्वर सिंह (सं. 13957518एच अब जेसी-695495एक्स),
01 अप्रैल 2006

हवलदार अतर मोहम्मद (सं. 13957526एफ अब जेसी-695536एन),
01 अप्रैल 2006

हवलदार महेश कुमार (सं. 13957825वाई अब जेसी-695498एल),
01 अप्रैल 2006

हवलदार जयवीर (सं. 13957557एफ अब जेसी-695604वाई), 01 अप्रैल 2006

*(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2006 से दी जायेगी)

हवलदार रंजन कुमार परीवा (सं. 13957605डब्ल्यू अब जेसी-695566एन), 01 मार्च 2006

हवलदार सतीश कुमार (सं. 13957593एम अब जेसी-696505एफ),
01 मई 2006

*(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले
ज्येष्ठता 01 मई 2006 से दी जायेगी)

हवलदार मदूसूधन एस (सं. 13957392एन अब जेसी-695571वाई),
25 मई 2006

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता
25 मई 2006 से दी जायेगी)

हवलदार मनवर सिंह (सं. 13957632ए अब जेसी-695536डब्ल्यू),
01 जून 2006

हवलदार मोहिन्दर सिंह (सं. 13957658पी अब जेसी-695539के),
01 जून 2006

हवलदार राम मूरत (सं. 13957668वाई अब जेसी-695537वाई),
01 जून 2006

*(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले
ज्येष्ठता 01 जून 2006 से दी जायेगी)

हवलदार सत्यदेव सिंह (सं. 13957679एल अब जेसी-695606के),
01 जून 2006

हवलदार अशोक कुमार (सं. 13957691एम अब जेसी-695572एफ),
01 जून 2006

हवलदार राम अवतार सिंह प्रजापति (सं. 13957692पी अब
जेसी-695540वाई), 01 जून 2006

*(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले
ज्येष्ठता 01 जून 2006 से दी जायेगी)

आर सी रतूडी
अवर सचिव

सं. 646 दिनांक 04 दिसम्बर 2006--राष्ट्रपति निम्नलिखित
पदोन्नतियां करते हैं:--

नियमित सेना

तोपखाना रेजिमेन्ट

सबस्टैंटिव सूबेदार (जी डी) के पद में

नायब सूबेदार नवाब सिंह (जेसी-265686के), 09 अगस्त 2006/
01 2006×

नायब सूबेदार जगत सिंह (जेसी-266045के), 01 जून 2006

नायब सूबेदार बालम सिंह (जेसी-264679एफ), 10 जुलाई 2006/
11 मई 2006×

नायब सूबेदार जय भगवान (जेसी-262835एफ), 10 मई 2006/
01 जनवरी 2006×

नायब सूबेदार वेद प्रकाश (जेसी-265258एल), 14 फरवरी 2006/
01 फरवरी 2006×

नायब सूबेदार सुरेन्द्र सिंह (जेसी-264521वाई), 12 मार्च 2006/
01 फरवरी 2006×

नायब सूबेदार रतन चन्द (जेसी-264373वाई), 05 अप्रैल 2006/
01 फरवरी 2006×

नायब सूबेदार बृज लाल कपूर (जेसी-264914पी), 01 दिसम्बर
2005

नायब सूबेदार पी श्रीनिवासन (जेसी-264473के), 08 अप्रैल 2006/
01 फरवरी 2006×

नायब सूबेदार ए मुरुगाराज (जेसी-265025के), 20 जून 2006/
01 फरवरी 2006×

नायब सूबेदार उन्नीकृष्णन के के (जेसी-265956एन), 20 जून
2006/07 अप्रैल 2006×

नायब सूबेदार पोकर मल (जेसी-265671के), 22 जुलाई 2006/
01 जून 2006×

नायब सूबेदार अम्मा राव अप्पीकाटला (जेसी-265181एन), 15 मई
2006/07 अप्रैल 2006×

नायब सूबेदार पटले तिरुथराज दूली (जेसी-265394एफ), 28 अगस्त
2006/01 जून 2006×

नायब सूबेदार शिन्दे खंडू देवराम (जेसी-265395के), 01 मई
2006/01 फरवरी 2006×

नायब सूबेदार रमेश चन्दर (जेसी-266033पी), 29 मई 2006/
01 मार्च 2006×

नायब सूबेदार राजन बाबु एम (जेसी-264944एम), 16 जून
2006/01 अप्रैल 2006×

नायब सूबेदार सुभाष सिंह (जेसी-266164ए), 30 मई 2006/
01 अप्रैल 2006×

नायब सूबेदार सतीश चन्द्र तिवारी (जेसी-265057एम), 07 जून
2006/01 मार्च 2006×

नायब सूबेदार अशोक प्रसाद (जेसी-266261एक्स), 11 फरवरी
2006/01 फरवरी 2006×

नायब सूबेदार नरीन्दर सिंह (जेसी-264458पी), 28 अप्रैल 2006/
01 फरवरी 2006×

नायब सूबेदार महेन्द्र सिंह (जेसी-264688एच), 26 जून 2006/
01 मार्च 2006×

नायब सूबेदार जगताप दिलीप कौतिक (जेसी-264733एक्स),
23 फरवरी 2006/01 फरवरी 2006×

नायब सूबेदार श्रवन कुमार राना (जेसी-265681एल), 01 फरवरी
2006

नायब सूबेदार दिनेश प्रसाद सिंह (जेसी-264971डब्ल्यू), 30 जून 2006/01 अप्रैल 2006×

नायब सूबेदार राम किशन (जेसी-266855एम), 04 सितम्बर 2006/01 अगस्त 2006×

नायब सूबेदार आनंद कुमार तिवारी (जेसी-267269डब्ल्यू), 04 सितम्बर 2006/01 सितम्बर 2006×

नायब सूबेदार बालकृष्णन शर्मा (जेसी-266078पी), 16 फरवरी 2006/01 फरवरी 2006×

नायब सूबेदार बिजेन्द्र कुमार (जेसी-264837एल), 05 जून 2006/01 अप्रैल 2006×

नायब सूबेदार बलकेश्वर सिंह यादव (जेसी-264544ए), 01 जुलाई 2006/01 मार्च 2006×

नायब सूबेदार राम नाथ (जेसी-263825के), 18 जून 2006/01 दिसम्बर 2005×

नायब सूबेदार दलीम कुमार सिन्हा (जेसी-262256पी), 30 मई 2006/01 अप्रैल 2006×

नायब सूबेदार रामचन्द्रन बी पी (जेसी-265127ए), 05 अक्टूबर 2006/01 जून 2006×

नायब सूबेदार त्राईलिंगा मुखर्जी (जेसी-265846वाई), 30 मई 2006/06 मई 2006×

नायब सूबेदार सुरमुख सिंह (जेसी-265633एल), 23 मई 2006/01 मई 2006×

नायब सूबेदार श्रीनिवास ढगे (जेसी-264340एन), 16 जून 2006/01 फरवरी 2006×

नायब सूबेदार जाधव आनंदराव शंकर (जेसी-264822एच), 13 जुलाई 2006/01 फरवरी 2006×

नायब सूबेदार अम्ब्रे रविन्द्र भागोजी (जेसी-266035ए), 28 दिसम्बर 2005/01 नवम्बर 2005×

नायब सूबेदार सुरेन्द्रन पी के (जेसी-266063एम), 10 मई 2006/01 मई 2006×

नायब सूबेदार जगदीश के (जेसी-266490ए), 01 जुलाई 2006

नायब सूबेदार अजय कुमार बी (जेसी-266034एक्स), 17 जुलाई 2006/01 मई 2006×

नायब सूबेदार दुश्मंता दास (जेसी-265945एफ), 24 फरवरी 2006/01 अगस्त 2005×

नायब सूबेदार गोकुल सिंह शेखावत (जेसी-264491एम), 01 मई 2006/01 फरवरी 2006×

नायब सूबेदार झिंगूर भट्ट (जेसी-265969एल), 21 जून 2006/01 जून 2006×

नायब सूबेदार राम अवतार यादव (जेसी-264975एम), 11 जून 2006/01 मई 2006×

नायब सूबेदार भोईटे दत्तात्रय विष्णू (जेसी-265569वाई), 01 जून 2006

नायब सूबेदार सकपाल विजय रघुनाथ (जेसी-265623एफ), 29 जुलाई 2006/01 जून 2006×

नायब सूबेदार अनिल कुमार दास (जेसी-265751वाई), 01 जून 2006/14 मार्च 2006×

नायब सूबेदार विजय कुमार शर्मा (जेसी-264804ए), 01 अप्रैल 2006

नायब सूबेदार अवनी कुमार मिश्रा (जेसी-265182डब्ल्यू), 11 जुलाई 2006/01 अप्रैल 2006×

नायब सूबेदार जर्नादनन टी (जेसी-264586एम), 03 जुलाई 2006/01 अप्रैल 2006×

नायब सूबेदार बलजीत सिंह (जेसी-262083एच), 06 मार्च 2006/01 जनवरी 2006×

नायब सूबेदार आत्मा राम (जेसी-266293ए), 01 फरवरी 2006

नायब सूबेदार एम कालीदास (जेसी-265968एच), 17 अप्रैल 2006/01 फरवरी 2006×

नायब सूबेदार चिन्नादुरई (जेसी-266071एल), 25 मई 2006/01 अप्रैल 2006×

नायब सूबेदार अनुप सिंह (जेसी-265552एल), 23 दिसम्बर 2005/01 दिसम्बर 2005×

नायब सूबेदार के पद में

हवलदार अशोक कुमार (सं. 14482085पी अब जेसी-269409डब्ल्यू), 16 मई 2006/01 फरवरी 2006 *

हवलदार नन्द किशोर झा (सं. 14467124एल अब जेसी-269410एल), 24 अप्रैल 2006/05 मार्च 2006 *

हवलदार परम सिंह (सं. 14471597एफ अब जेसी-269411एन), 07 जुलाई 2006/01 अप्रैल 2006 *

बी एच एम भूपेन्द्र सिंह (सं. 14368589एच अब जेसी-269412डब्ल्यू), 08 जुलाई 2006/01 अप्रैल 2006 *

हवलदार बरमन सिंह (सं. 14370396एफ अब जेसी-269413वाई), 07 जुलाई 2006/01 अप्रैल 2006 *

हवलदार सीवादासन सी (सं. 14363842पी अब जेसी-269414एफ), 01 अप्रैल 2006

हवलदार रघु राज सिंह (सं. 14492366वाई अब जेसी-269415के), 15 जून 2006/01 अप्रैल 2006 *

हवलदार शिव शंकर सिंह (सं. 14479578एल अब जेसी-269416एम), 23 जून 2006/07 अप्रैल 2006 *

हवलदार ओम कुमार द्विवेदी (सं. 14498850एफ अब जेसी-269417पी), 03 जुलाई 2006/21 मई 2006 *

बी एच एम दरव पाल (सं. 14371567पी अब जेसी-269418एक्स),
29 जून 2006/25 मई 2006 *

बी एच एम चन्द्रीका प्रसाद (सं. 14474216ए अब जेसी-269419ए), 10 जुलाई 2006/28 मई 2006 *

हवलदार राजपूत त्रिवेनी सिंह (सं. 15103922पी अब जेसी-269420पी), 03 जून 2006/01 जून 2006 *

हवलदार राम अवतार (सं. 14474292एम अब जेसी-269421एक्स),
15 अगस्त 2006/23 जुलाई 2006 *

हवलदार हरजीत सिंह (सं. 14382220एच अब जेसी-269422ए),
05 अगस्त 2006/01 अगस्त 2006 *

हवलदार चन्देश्वरी प्रसाद यादव (सं. 14363198एन अब जेसी-269423एच), 01 अगस्त 2006

बी एच एम श्याम वीर (सं. 14365152के अब जेसी-269424एल),
19 अगस्त 2006/01 अगस्त 2006 *

हवलदार भरत चन्द्रा मन्डल (सं. 14455788पी अब जेसी-269393डब्ल्यू), 03 जुलाई 2006/01 सितम्बर 2003 *

हवलदार जबरील अहमद (सं. 14465867पी अब जेसी-269394वाई),
08 मई 2006/01 दिसम्बर 2004 *

हवलदार राज कुमार (सं. 14368974एम अब जेसी-269395एफ),
19 मई 2005/06 अप्रैल 2005 *

हवलदार सरबजीत सिंह (सं. 14387126एच अब जेसी-269396के),
02 जून 2006/01 फरवरी 2006 *

आर एच एम बिन्देश्वरी सिंह (सं. 14389781ए अब जेसी-269397एम), 23 मई 2006/01 फरवरी 2006 *

हवलदार जसपाल सिंह (सं. 14474370वाई अब जेसी-269398पी),
12 जून 2006/01 फरवरी 2006 *

हवलदार रवी दत्त (सं. 14480471एच अब जेसी-269399एक्स),
11 मार्च 2006/08 फरवरी 2006 *

बी एच एम अमरजीत सिंह (सं. 14472510एफ अब जेसी-269400एफ), 09 फरवरी 2006

हवलदार रामपाल (सं. 14367465एफ अब जेसी-269401के),
14 जून 2006/01 अप्रैल 2006 *

हवलदार बालासुब्रामनी डी (सं. 14486621के अब जेसी-269402एम), 05 जून 2006/06 मई 2006 *

हवलदार भगत सिंह (सं. 14356429डब्ल्यू अब जेसी-269403पी),
01 अगस्त 2006/01 जून 2006 *

हवलदार दुर्ग पाल (सं. 14359913एन अब जेसी-269404एक्स),
05 अगस्त 2006/01 जून 2006 *

हवलदार कुरुमभैयाह सी एन (सं. 14397390के अब जेसी-269405ए), 19 अगस्त 2006/20 जून 2006 *

हवलदार सुरेन्द्र सिंह (सं. 14470644एफ अब जेसी-269406एच),
27 जुलाई 2006/04 जुलाई 2006 *

हवलदार चन्देश्वर प्रसाद सिंह (सं. 15109194डब्ल्यू अब जेसी-269407एल), 01 अगस्त 2006

हवलदार बलवन्त सिंह (सं. 14481923एम अब जेसी-269408ए),
01 सितम्बर 2006

हवलदार सुमेर सिंह (सं. 14379911के अब जेसी-269362डब्ल्यू),
28 अप्रैल 2006/01 फरवरी 2006 *

आर एच एम बलूर सिंह (सं. 14478717एक्स अब जेसी-269363वाई),
22 मई 2006/01 फरवरी 2006 *

हवलदार याकुब अली (सं. 14478101के अब जेसी-269364एफ),
11 मई 2006/01 फरवरी 2006 *

हवलदार के सेलवा राज (सं. 14494464एक्स अब जेसी-269365के),
02 मई 2006/01 फरवरी 2006 *

हवलदार काकडे नामदेव बाबू राव (सं. 14381966एम अब जेसी-269366एम), 01 अप्रैल 2006/17 फरवरी 2006 *

हवलदार एम पौलचामी (सं. 14373232डब्ल्यू अब जेसी-269367पी),
15 मई 2006/01 मार्च 2006 *

हवलदार नरेन्द्र सिंह (सं. 14390216पी अब जेसी-269368एक्स),
23 मई 2006/01 मार्च 2006 *

बी एच एम हरमेन्द्र सिंह (सं. 14397689डब्ल्यू अब जेसी-269369ए),
23 मई 2006/01 मार्च 2006 *

बी एच एम प्रकाश (सं. 14391711ए अब जेसी-269370पी),
05 जून 2006/08 मार्च 2006 *

बी एच एम एस राम नाथ बाबू (सं. 14359281एन अब जेसी-269371एक्स), 02 मई 2006/01 अप्रैल 2006 *

हवलदार नत्तेर प्रकाश (सं. 14479639एक्स अब जेसी-269372ए),
15 मई 2006/01 अप्रैल 2006 *

बी एच एम सी सौन्दारा पान्डियन (सं. 14490726एल अब जेसी-269373एच), 22 मई 2006/01 अप्रैल 2006 *

हवलदार रामअवतार सिंह (सं. 14377840पी अब जेसी-269374एल),
03 जून 2006/20 अप्रैल 2006 *

हवलदार सुखदेव सिंह (सं. 14385319के अब जेसी-269375एन),
01 जून 2006/01 मई 2006 *

हवलदार अकलेश चन्द्रा पाठक (सं. 14387774एल अब जेसी-269376डब्ल्यू), 16 जून 2006/01 जून 2006 *

हवलदार रमेश चन्द्र (सं. 14493219एच अब जेसी-269377वाई),
16 जून 2006/01 जून 2006 *

(*ज्येष्ठता प्राप्त)

सत्यपाल शर्मा
अवर सचिव

सं. 647, दिनांक 1 दिसम्बर 2006—राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदोन्नतियाँ करते हैं :—

नियमित सेना

कोर ऑफ इंजीनियर

बंगाल इंजीनियर ग्रुप

पक्के सूबेदार मेजर (जीडी) के रैंक में

- सूबेदार पिजुष कान्ती बरोई (जेसी-327225एल), 01 फरवरी 2006
 सूबेदार ढोलक बहादुर मल (जेसी-326796एक्स), 01 फरवरी 2006
 सूबेदार जगबीर सिंह (जेसी-326962ए), 01 फरवरी 2006
 सूबेदार कृष्णा बहादुर (जेसी-326799एल), 01 अप्रैल 2006
 सूबेदार राज पाल सिंह (जेसी-326899डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2006
 सूबेदार भुपिन्द्र सिंह (जेसी-326718ए), 01 मई 2006
 सूबेदार हरी दत्त जोशी (जेसी-327020डब्ल्यू), 01 मई 2006
 सूबेदार शेर सिंह (जेसी-326986के), 01 जून 2006
 सूबेदार कुलबीर सिंह (जेसी-326949डब्ल्यू), 01 जून 2006
 सूबेदार महेश चन्द्र (जेसी-326989एक्स), 01 जून 2006

पक्के सूबेदार मेजर क्लर्क (जीडी) के रैंक में

- सूबेदार कुन्दन सिंह नेगी (जेसी-325309ए), 01 नवम्बर 2005
 सूबेदार आनन्द सिंह नेगी (जेसी-325133ए), 01 जनवरी 2006
 सूबेदार कृष्णा मोनी सिंहा (जेसी-325137डब्ल्यू), 01 फरवरी 2006
 सूबेदार विजय नारायण सिंह (जेसी-325192एम), 01 फरवरी 2006
 सूबेदार बाबु राम आजाद (जेसी-325198एन), 01 फरवरी 2006
 सूबेदार रेणु पादा दास (जेसी-325261एक्स), 01 फरवरी 2006
 सूबेदार अतुल चेतिया (जेसी-325273एम), 01 मार्च 2006
 सूबेदार मनजीत सिंह (जेसी-325290एम), 01 मार्च 2006
 सूबेदार बलवन्त सिंह (जेसी-325291पी), 01 अप्रैल 2006
 सूबेदार बिष्णु चन्द्रा दुबे (जेसी-325499एक्स), 01 अप्रैल 2006
 सूबेदार शंकर बक्सला (जेसी-325504एक्स), 01 अप्रैल 2006
 सूबेदार बेचैन चौधरी (जेसी-325506एच), 01 अप्रैल 2006
 सूबेदार सरूप सिंह (जेसी-325314एल), 01 अप्रैल 2006
 सूबेदार बिरेंद्र प्रसाद सिंह (जेसी-325315एन), 01 मई 2006
 सूबेदार विनय कुमार (जेसी-325517पी), 01 मई 2006
 सूबेदार सुवासीस गांगुली (जेसी-325540एच), 01 जुलाई 2006
 सूबेदार सरजीवन (जेसी-325539एम), 01 जुलाई 2006

पक्के सूबेदार मेजर एसकेटी के रैंक में

- सूबेदार हरी चन्द (जेसी-325723वाई), 01 जनवरी 2006
 सूबेदार दीनानाथ त्रिपाठी (जेसी-326143डब्ल्यू), 01 जून 2006

पक्के सूबेदार मेजर सर्वे के रैंक में

- सूबेदार काबल सिंह (जेसी-327279एम), 01 जनवरी 2006
 सूबेदार मुकेश कुमार रावत (जेसी-328108एम), 01 जनवरी 2006
 सूबेदार योगेन्द्र सिंह (जेसी-328114ए), 01 जनवरी 2006
 सूबेदार भीमसेन मल्लिक (जेसी-328211एक्स), 01 जनवरी 2006
 सूबेदार दिनेश चन्द्रा (जेसी-328215एन), 01 जनवरी 2006
 सूबेदार स्वरूप माजी (जेसी-328216डब्ल्यू), 01 जनवरी 2006
 सूबेदार रमेश चन्द्र धीमान (जेसी-326393एक्स), 01 अगस्त 2006

पक्के सूबेदार मेजर आरटी के रैंक में

- सूबेदार सोम प्रकाश पन्त (जेसी-120469एम), 01 अप्रैल 2006
 सूबेदार गुरनेक सिंह (जेसी-120468के), 01 मई 2006

पक्के सूबेदार मेजर (जीडी) के रैंक में

- नायब सूबेदार आदित्य नारायण सिंह (जेसी-328885पी), 01 जनवरी 2006
 नायब सूबेदार अजिमीन के दास (जेसी-328887पी), 01 जनवरी 2006
 नायब सूबेदार दिनेश कुमार (जेसी-328888एच), 01 फरवरी 2006
 नायब सूबेदार सुजन सरकार (जेसी-328889एल), 01 फरवरी 2006
 नायब सूबेदार उपेन्द्र पाल सिंह (जेसी-328890ए), 01 फरवरी 2006
 नायब सूबेदार बिधान चन्द्रा मण्डल (जेसी-328891एच), 01 फरवरी 2006
 नायब सूबेदार सुभाष चन्द (जेसी-328940ए), 01 फरवरी 2006
 नायब सूबेदार सिबी सी जोसफ (जेसी-328892एल), 01 फरवरी 2006
 नायब सूबेदार बाबू के बी (जेसी-328893ए), 01 फरवरी 2006
 नायब सूबेदार सुनील कुमार पी वी (जेसी-328894डब्ल्यू), 01 फरवरी 2006
 नायब सूबेदार सुरेश कुमार जी (जेसी-328895वाई), 01 फरवरी 2006
 नायब सूबेदार दलजीत सिंह (जेसी-328896एफ), 01 फरवरी 2006
 नायब सूबेदार गब्बर सिंह (जेसी-328897के), 01 फरवरी 2006
 नायब सूबेदार जय पाल (जेसी-328898एम), 01 फरवरी 2006
 नायब सूबेदार ओंकार सिंह (जेसी-328920एम), 01 फरवरी 2006

नायब सूबेदार उमा शंकर सिंह (जेसी-328899पी), 01 फरवरी 2006

नायब सूबेदार हरजिन्द सिंह (जेसी-328900वाई), 01 फरवरी 2006

नायब सूबेदार प्रेम सिंह (जेसी-328901एफ), 01 फरवरी 2006

नायब सूबेदार पिताम्बर सिंह (जेसी-328902के), 01 फरवरी 2006

नायब सूबेदार धन्या चन्द्रा राय (जेसी-328921पी), 01 फरवरी 2006

नायब सूबेदार चांद सिंह (जेसी-328906ए), 01 फरवरी 2006

नायब सूबेदार शिव सिंह (जेसी-328861एल), 01 जनवरी 2006

नायब सूबेदार जगतार सिंह (जेसी-328907एच), 01 फरवरी 2006

नायब सूबेदार हरे कृष्णा मोहंती (जेसी-328908एल), 01 फरवरी 2006

नायब सूबेदार विजय सिंह बनी (जेसी-328909एन), 01 फरवरी 2006

नायब सूबेदार बसन्त कुमार साहनी (जेसी-328910एच), 01 मार्च 2006

नायब सूबेदार जगवीर सिंह (जेसी-328923ए), 01 मार्च 2006

नायब सूबेदार मीना केतन प्रधान (जेसी-328911एल), 01 मार्च 2006

नायब सूबेदार भरपूर सिंह (जेसी-328912एन), 01 मार्च 2006

नायब सूबेदार दिनेश कुमार नामदेव (जेसी-328913डब्ल्यू), 01 मार्च 2006

नायब सूबेदार भागिन चन्द्रा नाथ (जेसी-328925एल), 01 मार्च 2006

नायब सूबेदार हाकम सिंह (जेसी-328926एन), 01 मार्च 2006

नायब सूबेदार हरीश चन्द्रा (जेसी-328957एन), 01 मार्च 2006

नायब सूबेदार दलीप कुमार सिंह (जेसी-328927एन), 01 मार्च 2006

नायब सूबेदार बिषनु कुमार सिंह (जेसी-328928वाई), 01 मार्च 2006

नायब सूबेदार रामायण सिंह (जेसी-328880डब्ल्यू), 01 जनवरी 2006

नायब सूबेदार गोपाल हजारिका (जेसी-328746एल), 06 दिसम्बर 2004

नायब सूबेदार हयात सिंह (जेसी-328929एफ), 01 अप्रैल 2006

नायब सूबेदार सतनाम सिंह (जेसी-328942एल), 01 अप्रैल 2006

नायब सूबेदार लक्ष्मण सिंह (जेसी-328958डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2006

नायब सूबेदार जरनेल सिंह (जेसी-328964के), 01 अप्रैल 2006

नायब सूबेदार पारस नाथ सिंह (जेसी-328931वाई), 01 अप्रैल 2006

नायब सूबेदार वीर सिंह (जेसी-328991डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2006

नायब सूबेदार श्री कान्त सेठी (जेसी-328943एन), 01 अप्रैल 2006

नायब सूबेदार भूपेन्द्र सिंह (जेसी-328959वाई), 01 अप्रैल 2006

नायब सूबेदार श्याम सिंह (जेसी-328947के), 01 अप्रैल 2006

नायब सूबेदार दिनेश कुमार (जेसी-328948एम), 01 अप्रैल 2006

नायब सूबेदार सुमेर चन्द (जेसी-329130के), 01 अप्रैल 2006

नायब सूबेदार इन्द्र स्वरूप वर्मा (जेसी-328945वाई), 01 अप्रैल 2006

नायब सूबेदार बलजीत सिंह (जेसी-328941एच), 01 फरवरी 2006

नायब सूबेदार राम चन्द्रा राय (जेसी-328684डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2006

नायब सूबेदार तपस कुमार मण्डल (जेसी-328946एफ), 01 मई 2006

नायब सूबेदार माकन सिंह (जेसी-328789ए), 06 दिसम्बर 2005

नायब सूबेदार माधो सिंह (जेसी-328961डब्ल्यू), 01 मई 2006

नायब सूबेदार अजित कुमार सिंह (जेसी-328829डब्ल्यू), 01 नवम्बर 2005

नायब सूबेदार दरबारा सिंह (जेसी-329159एम), 01 जुलाई 2006

नायब सूबेदार हीरा सिंह (जेसी-328922एक्स), 01 जुलाई 2006

नायब सूबेदार उदय नारायण सिंह (जेसी-328904पी), 01 जुलाई 2006

नायब सूबेदार अरुण कुमार चौधरी (जेसी-328962वाई), 01 जुलाई 2006

नायब सूबेदार राम कुमार (जेसी-328992डब्ल्यू), 01 जुलाई 2006

नायब सूबेदार तारा सिंह (जेसी-328963एफ), 01 जुलाई 2006

नायब सूबेदार सत्या राम (जेसी-328965एम), 01 जुलाई 2006

नायब सूबेदार राजीन्द्र कुमार थापा (जेसी-329131एम), 01 जुलाई 2006

नायब सूबेदार किशोर कुमार (जेसी-328967वाई), 01 अगस्त 2006

नायब सूबेदार नारायण सिंह (जेसी-328968ए), 01 अगस्त 2006

नायब सूबेदार जगत सिंह रौठान (जेसी-328969एच), 01 अगस्त 2006

नायब सूबेदार रणवीर सिंह (जेसी-328207एच), 01 जुलाई 2006

नायब सूबेदार दलीप सिंह बेनीवाल (जेसी-329205डब्ल्यू), 01 जुलाई 2006	नायब सूबेदार ओमबीर सिंह (जेसी-327233के), 01 मार्च 2006
नायब सूबेदार आशूत माचरे (जेसी-329206डब्ल्यू), 01 जुलाई 2006	नायब सूबेदार रणजीत कुमार देबनाथ (जेसी-327135के), 01 अप्रैल 2006
नायब सूबेदार महेन्द्र सिंह (जेसी-328993वाई), 01 जुलाई 2006	नायब सूबेदार राज कुमार शर्मा (जेसी-327136एम), 01 अप्रैल 2006
पक्के सूबेदार क्लर्क (जीडी) के रैंक में	नायब सूबेदार परुथी राज दास (जेसी-328688एम), 01 अप्रैल 2006
नायब सूबेदार हरिशंकर सिंह (जेसी-327118के), 01 जनवरी 2006	नायब सूबेदार पूर्ण चन्द्रा नायक (जेसी-327289डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2006
नायब सूबेदार गोपाल चन्द शर्मा (जेसी-327103एफ), 01 जनवरी 2006	नायब सूबेदार करुणाकर नाथ (जेसी-327137एफ), 01 अप्रैल 2006
नायब सूबेदार राम कृष्ण (जेसी-327104के), 01 जनवरी 2006	नायब सूबेदार सतीष कुमार नड्डा (जेसी-327255एफ), 01 अप्रैल 2006
नायब सूबेदार सुखदेव गुलेरिया (जेसी-327105एम), 01 जनवरी 2006	नायब सूबेदार रतन कुमार शर्मा (जेसी-327218पी), 01 अप्रैल 2006
नायब सूबेदार जय किशन (जेसी-327077एल), 01 जनवरी 2006	नायब सूबेदार राम नरेश प्रसाद (जेसी-327256एल), 01 अप्रैल 2006
नायब सूबेदार राम पोल (जेसी-327106पी), 01 जनवरी 2006	नायब सूबेदार अशोक पति त्रिपाठी (जेसी-327257एन), 01 मई 2006
नायब सूबेदार सत्य नारायण (जेसी-327078एन), 01 जनवरी 2006	नायब सूबेदार कमलेश बहादुर सिंह (जेसी-327219एक्स), 01 मई 2006
नायब सूबेदार ससीनद्रन के आर (जेसी-327079डब्ल्यू), 01 जनवरी 2006	नायब सूबेदार महीपाल सिंह (जेसी-327234एम), 01 जून 2006
नायब सूबेदार राम रूप (जेसी-327119एम), 01 फरवरी 2006	नायब सूबेदार चन्द मणी पाण्डेय (जेसी-328011एफ), 01 जून 2006
नायब सूबेदार जयबीर सिंह (जेसी-327107एक्स), 01 फरवरी 2006	नायब सूबेदार राजेन्द्र सिंह (जेसी-327258डब्ल्यू), 01 जून 2006
नायब सूबेदार महिन्द्र पाल सिंह (जेसी-327108ए), 01 फरवरी 2006	नायब सूबेदार रामा नन्द (जेसी-327259वाई), 01 जून 2006
नायब सूबेदार शिव लाल (जेसी-327109एच), 01 फरवरी 2006	नायब सूबेदार गोविन्द प्रसाद (जेसी-327260एन), 01 जुलाई 2006
नायब सूबेदार अम्बा दत्त जोशी (जेसी-327110एक्स), 01 फरवरी 2006	नायब सूबेदार हेम चन्द्रा (जेसी-326083एम), 01 जुलाई 2006
नायब सूबेदार अवतार सिंह (जेसी-327111ए), 01 फरवरी 2006	नायब सूबेदार अनिल कुमार (जेसी-327235पी), 01 जुलाई 2006
नायब सूबेदार सत्यवान शर्मा (जेसी-327112एच), 01 फरवरी 2006	नायब सूबेदार श्याम सुन्दर (जेसी-327236एक्स), 01 अगस्त 2006
नायब सूबेदार रमेश चन्द्र बैरिक (जेसी-327113एल), 01 फरवरी 2006	नायब सूबेदार रन्जन कुमार ढल (जेसी-327262वाई), 01 अगस्त 2006
नायब सूबेदार बसन्त कुमार शर्मा (जेसी-327120एफ), 01 फरवरी 2006	नायब सूबेदार अनिल बोर गोहौई (जेसी-327264के), 01 अगस्त 2006
नायब सूबेदार भुपेन्द्र सिंह (जेसी-327121के), 01 फरवरी 2006	पक्के सूबेदार एसकेटी के रैंक में
नायब सूबेदार भोला राम प्रजापती (जेसी-327114एन), 01 मार्च 2006	नायब सूबेदार राम प्रवेश भक्त (जेसी-328198वाई), 01 जून 2006
नायब सूबेदार चद्र किशोर राय (जेसी-327131एन), 01 मार्च 2006	पक्के सूबेदार सर्वे के रैंक में
नायब सूबेदार हंस राज (जेसी-327132डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2006	नायब सूबेदार श्याम करण कुर्मी (जेसी-329596एम), 01 जून 2006
नायब सूबेदार रूडोल्फ करकेटा (जेसी-327215एफ), 01 अप्रैल 2006	
नायब सूबेदार देवेन्द्र प्रसाद सिंह (जेसी-327133वाई), 01 अप्रैल 2006	
नायब सूबेदार केशर सिंह घुगटियाल (जेसी-327134एफ), 01 अप्रैल 2006	

नायब सूबेदार मोहन दास टी पी (जेसी-329427एल), 01 जून 2006

नायब सूबेदार अनूप कुमार जैना (जेसी-329428एन), 01 जून 2006

नायब सूबेदार विनीत कुमार शर्मा (जेसी-329429डब्ल्यू), 01 जून 2006

नायब सूबेदार जितेन्द्र कुमार बैरीगंजन (जेसी-329430एल), 01 जून 2006

नायब सूबेदार जैसन सी वी (जेसी-329432डब्ल्यू), 01 जून 2006

नायब सूबेदार हरी दास पी वी (जेसी-329433वाई), 01 जून 2006

नायब सूबेदार प्रभात राय (जेसी-329435के), 01 जून 2006

नायब सूबेदार बेलेंगी राजु कोचेरला (जेसी-329436एम), 01 जून 2006

नायब सूबेदार मोटर कंदारी (जेसी-329437पी), 01 जून 2006

नायब सूबेदार श्री धर्मवीर सिंह (जेसी-329438एक्स), 01 जून 2006

नायब सूबेदार सर्वजीत शुक्ला (जेसी-329439ए), 01 जून 2006

नायब सूबेदार रामानन्द कुमार सिंह (जेसी-329440पी), 01 जून 2006

नायब सूबेदार परीक्षित मोहनती (जेसी-329441एक्स), 01 जून 2006

नायब सूबेदार प्रभात कुमार दुबे (जेसी-329442ए), 01 जून 2006

नायब सूबेदार श्री निबास बेहरा (जेसी-329444एल), 01 जून 2006

नायब सूबेदार राकेश कुमार रावत (जेसी-329445एन), 01 जून 2006

नायब सूबेदार यशवन्त सिंह नेगी (जेसी-329446डब्ल्यू), 01 जून 2006

नायब सूबेदार राजा सेखरय्या (जेसी-329447वाई), 01 जून 2006

नायब सूबेदार के ए लीला शिव कुमार (जेसी-329448एफ), 01 जून 2006

नायब सूबेदार दलीप सिंह राठौर (जेसी-329449के), 01 जून 2006

नायब सूबेदार सुशांत कुमार पाणीग्राही (जेसी-329450वाई), 01 जून 2006

नायब सूबेदार महेष चन्द (जेसी-329451एफ), 01 जून 2006

नायब सूबेदार राकेश चन्द (जेसी-329453एफ), 01 जून 2006

नायब सूबेदार प्रमोद साहु (जेसी-329454पी), 01 जून 2006

नायब सूबेदार पारथा सरकार (जेसी-329455एक्स), 01 जून 2006

नायब सूबेदार वेनुकुरी श्रीनिवास रेड्डी (जेसी-329456ए), 01 जून 2006

नायब सूबेदार संजीव कुमार पाण्डेय (जेसी-329458एल), 01 जून 2006

नायब सूबेदार जाधव निलेश वसन्त राव (जेसी-329459एम), 01 जून 2006

नायब सूबेदार राम गोपाल पटेल (जेसी-329460एच), 01 जून 2006

नायब सूबेदार अनूप कुमार बिसवास (जेसी-329461एल), 01 जून 2006

नायब सूबेदार प्रतोष कुमार बिसवास (जेसी-329462एन), 01 जून 2006

नायब सूबेदार द्वारिका नाथ शर्मा (जेसी-329431एन), 01 जून 2006

नायब सूबेदार दिनेश चन्द शर्मा (जेसी-329452के), 01 जून 2006

नायब सूबेदार समीरन कुमार पाल (जेसी-329463डब्ल्यू), 01 जून 2006

नायब सूबेदार राकेश कुमार (जेसी-329457एच), 01 जून 2006

नायब सूबेदार श्री सोवेन्द्रा सिंह (जेसी-329443एच), 01 जून 2006

नायब सूबेदार शिशु पाल सिंह (जेसी-326824वाई), 01 जुलाई 2006

पक्के सूबेदार आर टी के रैंक में

नायब सूबेदार वाचस्पती पाण्डेय (जेसी-305852एस), 01 मई 2006

नायब सूबेदार मेजर (जीडी) के रैंक में

हवलदार कुन्दन सिंह बिष्ट (सं. 1475146वाई अब जेसी-329916डब्ल्यू), 17 अप्रैल 2006@

हवलदार जागीर सिंह (सं. 1475216एम अब जेसी-329917वाई), 20 जून 2006#

हवलदार राम नाथ सिंह (सं. 1473742वाई अब जेसी-329918एफ), 01 जून 2006#

नायब सूबेदार क्लर्क के रैंक में

हवलदार कृष्ण पाल (सं. 1472223एक्स अब जेसी-329919के), 08 मार्च 2006\$

हवलदार श्याम धर गोस्वामी (सं. 1472367ए अब जेसी-329920वाई), 01 जुलाई 2006*

हवलदार मुन्नी लाल (सं. 1472457एफ अब जेसी-329921एफ), 01 अगस्त 2006&

हवलदार अटल बिहारी दुबे (सं. 1472420ए अब जेसी-329922के), 01 अगस्त 2006&

हवलदार विष्णुदेव यादव (सं. 1472542के अब जेसी-329923एम), 03 अगस्त 2006&

हवलदार राम अवतार (सं. 1472545एक्स अब जेसी-329924पी), 01 अगस्त 2006&

हवलदार दया शंकर पान्डेय (सं. 1472546ए अब जेसी-329925एक्स), 05 अगस्त 2006&

हवलदार श्री कान्त चटर्जी (सं. 1472568वाई अब जेसी-329926ए), 01 सितम्बर 2006%

हवलदार रामजी सिंह (सं. 1472664एन अब जेसी-329927एच), 01 सितम्बर 2006%

हवलदार प्रेम सागर मिश्रा (सं. 1472730एल अब जेसी-329928एल), 01 सितम्बर 2006%

हवलदार बिन्देश्वर तिवारी (सं. 1472974वाई अब जेसी-329929एन), 01 सितम्बर 2006%

हवलदार मोहमद अब्दुल कलाम (सं. 1473201एल अब जेसी-329930एच), 01 सितम्बर 2006%

हवलदार निरोद चन्द्र मलिक (सं. 1473243एक्स अब जेसी-329931एल), 01 सितम्बर 2006%

हवलदार शुशान्त दास (सं. 1473254के अब जेसी-329932एन), 01 सितम्बर 2006%

हवलदार महेश चन्द्र (सं. 1472342एन अब जेसी-329933डब्ल्यू), 01 सितम्बर 2006%

हवलदार राज नारायण दुबे (सं. 1472284पी अब जेसी-329934वाई), 01 सितम्बर 2006%

हवलदार जगपाल सिंह (सं. 1473263एल अब जेसी-329935एफ), 01 सितम्बर 2006%

नायब सूबेदार एसकेटी के रैंक में

हवलदार सत्यबीर सिंह (सं. 1483981पी अब जेसी-329936के), 11 जुलाई 2006#

नायब सूबेदार सर्वे के रैंक में

हवलदार उमेश कुमार सिंह (सं. 1465564ए अब जेसी-329937एम), 03 अगस्त 2006**

\$ (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2006).

@ (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2006).

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2006).

* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2006).

** (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 07 जुलाई 2006).

& (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2006).

% (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2006).

नायब सूबेदार (आर टी) के रैंक में

सिपाही रणजीत सिंह (सं. 2495690एक्स अब जेसी-329914एल), 12 मई 2006

बम्बई इंजीनियर ग्रुप

नायब सूबेदार (जीडी) के रैंक में

सूबेदार (जीडी) बलविंदर सिंह (जेसी-347889ए), 01 अगस्त 2006

सूबेदार (जीडी) नागेन्द्र मनी (जेसी-347935के), 06 अगस्त 2006

सूबेदार मेजर (क्लर्क जीडी) के रैंक में

सूबेदार (क्लर्क जीडी) दस्तगीर मियां (जेसी-347332एन), 06 जुलाई 2006

सूबेदार (क्लर्क जीडी) जोगिन्दर सिंह सन्धु (जेसी-347333डब्ल्यू), 24 अगस्त 2006

सूबेदार (जीडी) के रैंक में

नायब सूबेदार (जीडी) दीदार सिंह, एस एम (जेसी-349314के), 11 जुलाई 2006

नायब सूबेदार (जीडी) वामन रनबा अयटके (जेसी-349315एम), 11 जुलाई 2006

नायब सूबेदार (जीडी) अब्दुल हक खान (जेसी-349324एन), 13 जुलाई 2006

नायब सूबेदार (जीडी) कदम वैजनाथ भानुदास (जेसी-349276वाई), 14 जुलाई 2006

नायब सूबेदार (जीडी) अनिल कुमार पांडुरंग कदम (जेसी-349313एफ), 15 जुलाई 2006

नायब सूबेदार (जीडी) महाबीर सिंह (जेसी-349309वाई), 17 जुलाई 2006

नायब सूबेदार (जीडी) कदम मदन किसन (जेसी-349200वाई), 19 जुलाई 2006

नायब सूबेदार (जीडी) इंगवले दिलीप कुमार नामदेव (जेसी-349323एल), 19 जुलाई 2006

नायब सूबेदार (जीडी) गुरमीत सिंह (जेसी-349345के), 24 जुलाई 2006

नायब सूबेदार (जीडी) राकेश चंद (जेसी-349306एल), 25 जुलाई 2006

नायब सूबेदार (जीडी) राम सजीवन (जेसी-349300के), 04 अगस्त 2006

नायब सूबेदार (जीडी) जरनैल सिंह (जेसी-349325डब्ल्यू), 08 अगस्त 2006

नायब सूबेदार (जीडी) मते सुर्यभान श्रीरंग (जेसी-349341एन), 08 अगस्त 2006

नायब सूबेदार (जीडी) सुखमिंदर सिंह (जेसी-349333पी), 11 अगस्त 2006

नायब सूबेदार (जीडी) अवतार सिंह (जेसी-349310एन), 12 अगस्त 2006

नायब सूबेदार (जीडी) हरबंस सिंह (जेसी-349350पी), 21 अगस्त 2006

नायब सूबेदार (जीडी) खोखारिया राजुजी उमेदजी (जेसी-349335ए), 07 सितम्बर 2006

सूबेदार (एसकेटी) के रैंक में

नायब सूबेदार (एसकेटी) राजबीर सिंह (जेसी-348973एम), 01 अगस्त 2006

सूबेदार (क्लर्क जीडी) के रैंक में

नायब सूबेदार (क्लर्क जीडी) तरलोक एस चौधरी (जेसी-348652पी), 22 जून 2006

नायब सूबेदार (क्लर्क जीडी) राजेन्द्र सिंह (जेसी-348649पी), 23 जून 2006

नायब सूबेदार (क्लर्क जीडी) जवाहर लाल (जेसी-348647के), 22 जुलाई 2006

नायब सूबेदार (क्लर्क जीडी) धानी राम (जेसी-348656एल), 01 अगस्त 2006

नायब सूबेदार (क्लर्क जीडी) बलदेव प्रशाद पंथरी (जेसी-348658डब्ल्यू), 01 अगस्त 2006

नायब सूबेदार (क्लर्क जीडी) शशीकांत तिवारी (जेसी-348667एक्स), 01 अगस्त 2006

नायब सूबेदार (क्लर्क जीडी) गिरजा शंकर (जेसी-348653एक्स), 07 अगस्त 2006

नायब सूबेदार (क्लर्क जीडी) महक सिंह (जेसी-348671ए), 01 सितम्बर 2006

नायब सूबेदार (आर टी) के रैंक में

जसविंदर सिंह (जेसी-349957एफ), 20 अगस्त 2005

परविंदर सिंह (जेसी-349958के), 20 अगस्त 2005

दामोदर लाल शर्मा (जेसी-350079एच), 10 दिसम्बर 2005

कुलदीप सिंह (जेसी-350127एक्स), 20 अगस्त 2005

हरदीप सिंह (जेसी-350183डब्ल्यू), 12 मई 2006

मद्रास इंजीनियर ग्रुप

सूबेदार मेजर (जीडी) के मूल रैंक में

सूबेदार (जीडी) राजेंद्रन ए (जेसी-305580एच), 19 मई 2006

सूबेदार (जीडी) विस्वनाथन सी वी (जेसी-305694एन), 27 जून 2006

सूबेदार (जीडी) विजयकुमारन नायर एस (जेसी-305699एम), 06 जुलाई 2006

सूबेदार (जीडी) आरामुथु डी (जेसी-305700डब्ल्यू), 04 जुलाई 2006

सूबेदार (जीडी) सी अनंतराजन (जेसी-305728डब्ल्यू), 10 जुलाई 2006

सूबेदार (जी.डी.) के मूल रैंक में

नायब सूबेदार (जीडी) इंगंसे तिकी (जेसी-307381एन), 13 अप्रैल 2006

नायब सूबेदार (जीडी) एस जे सगायम (जेसी-307473ए), 22 मई 2006

नायब सूबेदार (जीडी) डी ए राजाकुमार (जेसी-307480डब्ल्यू), 24 जून 2006

सूबेदार (जीडी) एम बालासुंदरम (जेसी-307500वाई), 27 जून 2006

नायब सूबेदार (जीडी) श्रीधरन सी (जेसी-307503एम), 01 अगस्त 2006

नायब सूबेदार (जीडी) एम एलुमालाई (जेसी-307505एक्स), 23 जून 2006

नायब सूबेदार (जीडी) सुगुमारन के (जेसी-307507एच), 09 जून 2006

नायब सूबेदार (जीडी) एन उदय कुमार (जेसी-307511एल), 17 जुलाई 2006

नायब सूबेदार (जीडी) ए जोन जोसेफ (जेसी-307512एन), 29 जुलाई 2006

सूबेदार (जीडी) आयासामि एम (जेसी-307514वाई), 14 जुलाई 2006

नायब सूबेदार (जी.डी.) वी प्रेम कुमार (जेसी-307516के), 07 जुलाई 2006

नायब सूबेदार (जी.डी.) मोहन चंद्रन बी (जेसी-307517एम), 26 जुलाई 2006

नायब सूबेदार (जी.डी.) एम एल्बर्ट (जेसी-307518पी), 03 जुलाई 2006

नायब सूबेदार (जी.डी.) एम शांमुगम (जेसी-307522एक्स), 01 जुलाई 2006

नायब सूबेदार (जी.डी.) राधाकृष्णन पिल्लै आर (जेसी-307524एच), 31 जुलाई 2006

नायब सूबेदार (जी.डी.) शंकर वी (जेसी-307525एल), 04 अगस्त 2006

नायब सूबेदार (जी.डी.) रघुपथी आर (जेसी-307531वाई), 01 अगस्त 2006

नायब सूबेदार (जी.डी.) श्रीनिवासन के (जेसी-307532एफ), 01 अगस्त 2006

नायब सूबेदार (जी.डी.) के टिम्मा रेड्डी (जेसी-307546एफ), 01 अगस्त 2006

नायब सूबेदार (जी.डी.) सुब्रमनियन एम एस (जेसी-307549पी), 01 अगस्त 2006

सूबेदार (धर्म गुरु) के मूल रैंक में

सूबेदार (धर्म गुरु) अजय कुमार (जेसी-305851पी), 06 जुलाई 2006

नायब सूबेदार (लिपिक जी.डी./स्टोर) के रैंक में

हवलदार लिपिक (जी.डी.) युनुस एस (सं. 15306617एक्स अब जेसी-308516डब्ल्यू), 01 जून 2006 *

हवलदार लिपिक (जी.डी.) नैजाम टी जे (सं. 15306620एक्स अब जेसी-308517वाई), 01 जून 2006 *

हवलदार लिपिक (जी.डी.) ए लक्ष्मी कौंडेय्या (सं. 15306622एच अब जेसी-308518एफ), 01 जून 2006 *

हवलदार लिपिक (जी.डी.) मोति गीर गोस्वामी (सं. 15306632एम अब जेसी-308519के), 01 जून 2006 *

हवलदार लिपिक (जी.डी.) राधाक्रिश्ना उपाध्या (सं. 15306635ए अब जेसी-308520वाई), 01 जून 2006 *

हवलदार लिपिक (जी.डी.) जितेंद्रा कुमार लाम्बा (सं. 15306711एफ अब जेसी-308521एफ), 21 जून 2006 *

हवलदार लिपिक (जी.डी.) रामनाथ सिंह (सं. 15306706डब्ल्यू अब जेसी-308522के), 13 जून 2006 *

हवलदार लिपिक (जी.डी.) महेश प्रशाद (सं. 15306707वाई अब जेसी-308523एम), 01 जून 2006 *

हवलदार लिपिक (जी.डी.) दुर्गा दत्त पांडे (सं. 15306708एफ अब जेसी-308524पी), 08 जुलाई 2006 *

हवलदार लिपिक (जी.डी.) राजेंद्र नाथ (सं. 15306709के अब जेसी-308544एच), 03 जुलाई 2006 **

हवलदार लिपिक (जी.डी.) तुम्मा सिवा शंकर रॉव (सं. 2684375एल अब जेसी-308545एल), 11 जुलाई 2006 **

हवलदार लिपिक (जी.डी.) बी प्रसन कुमार पत्तरो (सं. 2684378वाई अब जेसी-308546एन), 01 जुलाई 2006 **

हवलदार लिपिक (जी.डी.) प्रेसेन्न जी (सं. 15306730एम अब जेसी-308547डब्ल्यू), 01 जुलाई 2006 **

हवलदार लिपिक (जी.डी.) अशोक कुमार त्रिपाठी (सं. 15306740डब्ल्यू अब जेसी-308548वाई), 03 जुलाई 2006 **

हवलदार लिपिक (जी.डी.) बलबीर सिंह (सं. 15306919के अब जेसी-308549एफ), 03 जुलाई 2006 **

हवलदार लिपिक (स्टोर) सतीश कुमार एम (सं. 15306942एक्स अब जेसी-308550डब्ल्यू), 01 जुलाई 2006 **

नायब सूबेदार (एस.के.टी.) के रैंक में

हवलदार (एस.के.टी.) लागामन्ना वालिकर (सं. 1382758एक्स अब जेसी-308525एक्स), 01 जून 2006 *

* नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2006 से दी जायेगी।

** नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2006 से दी जायेगी।

नायब सूबेदार (लिपिक जी.डी./स्टोर) के रैंक में

हवलदार लिपिक (जी.डी.) पदमैन्द्रा सिंह बिशत (सं. 15301628ए अब जेसी-308376पी), 01 दिसम्बर 2005 *

हवलदार लिपिक (जी.डी.) दीलिप रोय (सं. 15304867ए अब जेसी-308377एक्स), 01 दिसम्बर 2005 *

हवलदार लिपिक (जी.डी.) सुतार विद्ययानंद महादेव (सं. 15304914एम अब जेसी-308380एक्स), 01 दिसम्बर 2005 *

हवलदार लिपिक (जी.डी.) रोहतास सिंह (सं. 15304865पी अब जेसी-308379एच), 01 दिसम्बर 2005 *

हवलदार लिपिक (जी.डी.) ज्योतीश कुमार महांता (सं. 15304860डब्ल्यू अब जेसी-308378ए), 20 दिसम्बर 2005 *

हवलदार लिपिक (जी.डी.) दयानंद सेनी (सं. 15305713ए अब जेसी-308381ए), 21 दिसम्बर 2005 *

हवलदार लिपिक (जी.डी.) राकेश पौल सिंह (सं. 15306127के अब जेसी-308400ए), 02 जनवरी 2006 **

हवलदार लिपिक (जी.डी.) प्रावेश रंजन पांडा (सं. 15306119एल अब जेसी-308101एच), 02 जनवरी 2006 **

हवलदार लिपिक (जी.डी.) राधाक्रिश्नन टी (सं. 15306120ए अब जेसी-308402एल), 02 जनवरी 2006 **

हवलदार लिपिक (जी.डी.) नील कांथ जाना (सं. 15306125वाई अब जेसी-308421डब्ल्यू), 01 फरवरी 2006 ***

हवलदार लिपिक (जी.डी.) राजन लाल (सं. 15306165ए अब जेसी-308422वाई), 01 फरवरी 2006 ***

हवलदार लिपिक (जी.डी.) विनोद कुमार (सं. 15306296एल अब जेसी-308423एफ), 01 फरवरी 2006 ***

हवलदार लिपिक (जी.डी.) के दुराई राज (सं. 15306301एल अब जेसी-308443पी), 01 मार्च 2006#

हवलदार लिपिक (जी.डी.) आनंद रॉय पानीग्राही (सं. 15304522वाई अब जेसी-308444एक्स), 01 मार्च 2006#

हवलदार लिपिक (जी.डी.) राम नारायण पाथक (सं. 15300986एक्स अब जेसी-308445ए), 01 मार्च 2006#

हवलदार लिपिक (स्टोर) डी एच केशव (सं. 15306584एक्स अब जेसी-308446एच), 01 मार्च 2006#

हवलदार लिपिक (स्टोर) मारुति अनिल कुमार एम (सं. 15306593वाई अब जेसी-308447एल), 01 मार्च 2006#

हवलदार लिपिक (स्टोर) कदाम पोपत किशन (सं. 15306605एच अब जेसी-308448एन), 01 मार्च 2006#

हवलदार लिपिक (जी.डी.) महेंद्र कुमार पी (सं. 15306126एफ अब जेसी-308449डब्ल्यू), 01 मार्च 2006#

हवलदार लिपिक (जी.डी.) जोगिंद्रा कुमार सविता (सं. 15306370एफ अब जेसी-308450एल), 02 मार्च 2006#

हवलदार लिपिक (जी.डी.) अशोक कुमार पांडे (सं. 15306387पी अब जेसी-308451एन), 01 अप्रैल 2006#

हवलदार लिपिक (जी.डी.) अरुण कुमार (सं. 15306441एक्स अब जेसी-308452डब्ल्यू), 17 मार्च 2006#

हवलदार लिपिक (जी.डी.) अनिल कुमार आर (सं. 5346710के अब जेसी-308453वाई), 12 अप्रैल 2006#

हवलदार लिपिक (जी.डी.) गोविंद वल्लभ साठी (सं. 15306464वाई अब जेसी-308454एफ), 24 मार्च 2006#

हवलदार लिपिक (जी.डी.) टीका राम (सं. 15306466के अब जेसी-308455के), 11 मार्च 2006#

हवलदार लिपिक (जी.डी.) अरुण कुमार पांडे (सं. 15306474एच अब जेसी-308456एम), 17 मार्च 2006#

हवलदार लिपिक (जी.डी.) एम सुभानी शैख (सं. 15306481एच अब जेसी-308457पी), 29 मार्च 2006#

हवलदार लिपिक (जी.डी.) राम गोपाल (सं. 15306495वाई अब जेसी-308458एक्स), 27 मार्च 2006#

हवलदार लिपिक (जी.डी.) राम प्रकाश (सं. 15306499पी अब जेसी-308459ए), 17 मार्च 2006#

हवलदार लिपिक (जी.डी.) अनिल कुमार बी (सं. 15306504पी अब जेसी-308482एन), 10 अप्रैल 2006##

हवलदार लिपिक (जी.डी.) साझी कुमार ए (सं. 15306505एक्स अब जेसी-308483डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2006##

हवलदार लिपिक (जी.डी.) तारा चंद (सं. 15306293डब्ल्यू अब जेसी-308484वाई), 07 अप्रैल 2006##

हवलदार लिपिक (जी.डी.) लाल सिंह (सं. 15304056पी अब जेसी-308485एम), 13 अप्रैल 2006##

हवलदार लिपिक (जी.डी.) गणेश चंद्रा एम (सं. 15302723वाई अब जेसी-308486के), 07 अप्रैल 2006##

हवलदार लिपिक (जी.डी.) पशु राम सिंह (सं. 15306369एम अब जेसी-308487एम), 17 अप्रैल 2006##

हवलदार लिपिक (जी.डी.) सीता नाथ मंडल (सं. 15306559वाई अब जेसी-308488पी), 04 अप्रैल 2006##

हवलदार लिपिक (जी.डी.) नेमाई नाग (सं. 15306564एक्स अब जेसी-308489एक्स), 01 अप्रैल 2006##

हवलदार लिपिक (जी.डी.) के एस देव गौगैय (सं. 15306573एल अब जेसी-308490एम), 23 मई 2006\$

हवलदार लिपिक (जी.डी.) प्रोमोतोश कुमार मंडल (सं. 15306574वाई अब जेसी-308502डब्ल्यू), 01 मई 2006\$

हवलदार लिपिक (जी.डी.) डी चंद्रा अडक (सं. 15306576वाई अब जेसी-308503वाई), 01 मई 2006\$

हवलदार लिपिक (जी.डी.) टी राजेश सौमरॉव (सं. 15306586एच अब जेसी-308504एफ), 01 मई 2006\$

हवलदार लिपिक (जी.डी.) आर विजय मनोहर रॉव (सं. 15306592एन अब जेसी-308505के), 01 मई 2006\$

हवलदार लिपिक (जी.डी.) जी चंद्रा शेखर (सं. 15306594एफ अब जेसी-308506एम), 01 मई 2006\$

हवलदार लिपिक (जी.डी.) एच निशांत वामन रॉव (सं. 15306600के अब जेसी-308507पी), 01 मई 2006\$

हवलदार लिपिक (जी.डी.) धारने एस गनपत (सं. 15316587एल अब जेसी-308564डब्ल्यू), 03 अगस्त 2006\$

नायब सूबेदार (एस.के.टी.) के रैंक में

हवलदार (एस.के.टी.) अनिल कुमार ए वी (सं. 1383180वाई अब जेसी-308375एम), 29 दिसम्बर 2005 *

हवलदार (एस.के.टी.) उन्निक्रिशन बी (सं. 15300735पी अब जेसी-308442एम), 01 मार्च 2006#

* नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2005 से दी जायेगी।

** नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2006 से दी जायेगी।

*** नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2006 से दी जायेगी।

नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2006 से दी जायेगी।

नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 04 अप्रैल 2006 से दी जायेगी।

\$ नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2006 से दी जायेगी।

रोजी शर्मा
उप सचिव

सं. 648, दिनांक 6 दिसम्बर 2006--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित अधिकारियों की पदोन्नति करते हैं :--

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

(सेना चिकित्सा कोर)

कर्नल (व समकक्ष) से ब्रिगेडियर (व समकक्ष) के रैंक में

जिले सिंह (एमआर-03658एल), 08 अगस्त 2005 वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 18 अगस्त 2004 से दी जाती है।

स्कवाड्रन लीडर से विंग कमाण्डर के पद पर

(श्रीमती) रेणुका गर्ग (एमआर-06803एल) (एफ-25571), एएमसी, 27 मार्च 2006

(श्रीमती) आर गौरी (एमआर-07579एन) (एफ-23424), एएमसी, 06 अप्रैल 2006

(श्रीमती) बबिता मिश्रा (एमआर-07598वाई) (एफ-23471), एएमसी, 04 जून 2006

ए. गुप्ता (एमआर-06675डब्ल्यू) (एफ-23430), एएमसी, 06 जून 2006

मुकुल भाटिया (एमआर-06668एफ) (एफ-23064), एएमसी, 06 जून 2006

फ्लाइट लेफ्टि. से स्क्वाड्रन लीडर के पद पर

जूही बोगोहेन (एमआर-07270के) (27650), एएमसी, 05 फरवरी 2004

राखी मल्होत्रा (एमआर-07404एल) (27658), एएमसी, 15 फरवरी 2005

राजेश कामरान
ब्रिगे.

डिप्टी डीजीएफएमएस(पर्स.)

सं. 649, दिनांक 5 दिसम्बर 2006--राष्ट्रपति निम्नलिखित की पदोन्नति करते हैं :--

स्थायी थल सेना

स्थायी कमीशन

स्थायी मेजर जोकि स्थायी लेफ्टिनेंट कर्नल होंगे

राजपाल सिंह (आईसी-36716), ई.एम.ई., 16 दिसम्बर 2004

एन. जी. केशव (आईसी-38211), ए.डी. आर्टी, 16 दिसम्बर 2004

आशा आनन्द

उप निदेशक

गुआमनि/प्रशा-4

सं. 650, दिनांक 6 दिसम्बर 2006--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :--

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

मेजर जनरल के मूल रैंक में

नाम, आईसी, आर्म तथा मेजर जनरल के मूल रैंक की प्रभावी तिथि
बिग्रे. मितल पी (आईसी-24759), एओसी, 07 फरवरी 2005

बिग्रे. पनिकर एम के बी (आईसी-32014), गढ़ रिफ, 01 मार्च 2005

बिग्रे. वेंकटेश्वारलू पी (आईसी-32041), एएडी, 01 मार्च 2005

बिग्रे. दत्ता बी के, एसएम*, वीएसएम*, (आईसी-29732), 1 जीआर, 18 मार्च 2005

बिग्रे. गुमान जे एस (आईसी-29783), एईसी, 18 मार्च 2005

बिग्रे. चोपड़ा विनोद (आईसी-29915), गार्ड्स, 01 अप्रैल 2005

बिग्रे. भारद्वाज डी (आईसी-25053), 62 कैव, 01 अप्रैल 2005

बिग्रे. बख्शी टीपीएस, एसएम, (आईसी-25054), डोगरा, 01 मई 2005

बिग्रे. इन्द्रजीत सिंह (आईसी-25056), ईएमई, 01 मई 2005

बिग्रे. ग्रेवाल जी एस, वीएसएम*, (आईसी-25060), पारा, 01 जून 2005

बिग्रे. कुमार एस एस (आईसी-25064), गार्ड्स, 01 जुलाई 2005

बिग्रे. लाम्बा ए एस, (आईसी-25066), आर्टी (जीसी), 01 जुलाई 2005

बिग्रे. रविन्द्र सिंह (आईसी-25091), सिग्स, 01 अक्टूबर 2005 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 01 अगस्त 2005 से दी जाएगी।

बिग्रे. ग्रेवाल बीपीएस (आईसी-25123), सिग्स, 01 अक्टूबर 2005 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 01 अगस्त 2005 से दी जाएगी।

बिग्रे. सुजलाना आर एस, (आईसी-25126), सिख, 01 अगस्त 2005

बिग्रे. चतुर्वेदी वी के, वीएसएम, (आईसी-25135), आर्टी, 01 अगस्त 2005

बिग्रे. गुप्ता ए के (आईसी-25136), ग्रेन., 25 अगस्त 2005

बिग्रे. राज दीपक, एस एम, (आईसी-25141), मैक इन्फैन्ट्री, 25 अगस्त 2005

बिग्रे. चन्द्रा अंकुल (आईसी-25148), ईएमई, 25 अगस्त 2005

बिग्रे. सिंह जे पी (आईसी-25156), 82 एआर, 25 अगस्त 2005

बिग्रे. गोस्वामी राजा, वीएसएम, (आईसी-25178), आर्टी, 25 अगस्त 2005

बिग्रे. बनर्जी गौतम, वाईएसएम, (आईसी-25189), इंजी., 12 सितम्बर 2005 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 25 अगस्त 2005 से।

बिग्रे. सबरवाल मुकेश, वीएसएम, (आईसी-25213), राजपूत 25 अगस्त 2005

बिग्रे. सिन्हा एस के (आईसी-25236), एडी आर्टी, 01 सितम्बर 2005

बिग्रे. राव एस ए (आईसी-27878), इंजी. (जीसी), 01 सितम्बर 2005

बिग्रे. सहगल ए के (आईसी-27909), एडी आर्टी, 01 सितम्बर 2005

बिग्रे. भूटानी वी के (आईसी-32357), इन्ट, 01 सितम्बर 2005

बिग्रे. एम सी बधानी (आईसी-25408), इंजी., 01 जनवरी 2006 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 01 सितम्बर 2005 से दी जाएगी।

बिग्रे. एस जी चटर्जी, वीएसएस, (आईसी-25409), आर्टी (जीसी), 28 फरवरी 2006 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 01 सितम्बर 2005 से दी जाएगी।

बिग्रे. शर्मा विनय (आईसी-25439), डोगरा, 01 अक्टूबर 2005

बिग्रे. जी एस औल (आईसी-25440), सिग्स, 03 अप्रैल 2006 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 01 अक्टूबर 2005 से दी जाएगी।

बिग्रे. हान्डा एस एन (आईसी-25442), 3 जीआर, 01 अक्टूबर 2005

बिग्रे. रथ पी के (आईसी-25448), आर्टी (जीसी), 01 अक्टूबर 2005

बिग्रे. अहलूवालिया वी के, वीएसएम (आईसी-25457), आर्टी (जीसी), 01 अक्टूबर 2005

बिग्रे. द्विवेदी जी जी, वीएसएम (आईसी-25466), जाट, 01 नवम्बर 2005

बिग्रे. यादव के एस, वीएसएम (आईसी-25469), वीएसएम, 01 नवम्बर 2005

बिग्रे. के बब्बया, वीएसएम (आईसी-25478), इंजी., 02 अप्रैल 2006 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 16 नवम्बर 2005 से दी जाएगी।

बिग्रे. के एम एस शेर गिल, वीएसएम (आईसी-25501), एसी, 21 मई 2006 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 01 दिसम्बर 2005 से दी जाएगी।

बिग्रे. ब्रजेश कुमार (आईसी-25511), इंजी., 02 अप्रैल 2006 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 01 दिसम्बर 2005 से दी जाएगी।

बिग्रे. कुमार कमल (आईसी-25512), ईएमई, 01 दिसम्बर 2005

बिग्रे. गुरइकबाल सिंह (आईसी-25532), आर्टी (जीसी), 01 दिसम्बर 2005

बिग्रे. बख्शी जी डी, वीएसएम, (आईसी-25534), जैक रिफ, 01 दिसम्बर 2005

बिग्रे. स्वामी आर के (आईसी-25538), महार, 05 दिसम्बर 2005

बिग्रे. नयनार विनोद (आईसी-25544), आर्टी, 01 जनवरी 2006

बिग्रे. दुग्गर ए के (आईसी-25635), 48 एआर, 03 जनवरी 2006

बिग्रे. छोटारा बी एस, एसएम, (आईसी-25647), 5 जीआर, 01 फरवरी 2006

बिग्रे. रेखी ए के (आईसी-25648), आर्टी, 01 फरवरी 2006

एन के फूकन
एएमएस/एमएस (एक्स)

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन

सं. 651, दिनांक 6 दिसम्बर 2006--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के आगे दर्शाये गये वर्तमान ग्रेड से अगले ग्रेड पर दिनांक 01 सितम्बर 2006 (पूर्वाह्न) से पदोन्नति करते हैं :--

क्रम सं.	नाम	प्रयोगशाला/स्थापना	वर्तमान ग्रेड	पदोन्नति	पदोन्नत ग्रेड का वेतनमान
1	2	3	4	5	6
(श्री/श्रीमती)					
01.	वी एम शशिधरण	एल आर डी ई	तकनीकी अधिकारी 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'डी'	रु. 12,000-375-16,500
02.	जी एस नरसिम्हा	एल आर डी ई	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	रु. 10,000-325-15,200
03.	रिता अन्सुया जोसेफ	एल आर डी ई	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	--वही--
04.	एम जयरामन	एल आर डी ई	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	--वही--
05.	के राजसिम्हा	एल आर डी ई	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	--वही--
06.	ई गोपकुमार	एल आर डी ई	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	--वही--
07.	आर रवि	डी ए आर ई	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	--वही--
08.	आर श्रीनिवासन	डी ए आर ई	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	--वही--
09.	गिरीश नागवेनी	एम टी आर डी सी	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	--वही--
10.	पी पेरुमाल	डेबेल	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	--वही--
11.	टी आर रमेश	डेबेल	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	रु. 8,000-275-13,500
12.	के जे जॉन	डी ए आर ई	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	--वही--
13.	एस प्रकाश	एल आर डी ई	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	--वही--
14.	आर बी कोलकर	एल आर डी ई	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	--वही--
15.	ए अब्दुल गफूर	एल आर डी ई	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	--वही--
16.	एम ए मंजूला	एल आर डी ई	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	--वही--
17.	एस सुब्रमण्य राज	एल आर डी ई	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	--वही--
18.	गौरी मोहन	एल आर डी ई	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	--वही--
19.	वी एम दयानंद राय	एल आर डी ई	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	--वही--
20.	एन डी प्रभाकर	जी टी आर ई	तकनीकी अधिकारी 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'डी'	रु. 12,000-375-16,500
21.	के पी मोहन कुमार	जी टी आर ई	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	रु. 10,000-325-15,200
22.	के दामोदरन	जी टी आर ई	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	--वही--
23.	यू नागेश	जी टी आर ई	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	--वही--
24.	पी गंगाधरण	जी टी आर ई	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	--वही--
25.	के वी रंगनाथ	जी टी आर ई	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	--वही--
26.	एस अशोक कुमार	जी टी आर ई	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	--वही--
27.	सी श्रीधर	जी टी आर ई	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	--वही--
28.	एम के साइमन	जी टी आर ई	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	--वही--

1	2	3	4	5	6
(श्री/श्रीमती)					
29.	अब्दुल रज्जाक टी पी	जी टी आर ई	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	रु. 10,000-325-15,200
30.	एम आर रूपरानी	जी टी आर ई	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	--वही--
31.	पी एन चौधरी	जी टी आर ई	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	--वही--
32.	एस वेंकटसुब्रमण्या	जी टी आर ई	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	--वही--
33.	एम सुब्रमणियम	जी टी आर ई	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	--वही--
34.	अशोक कुमार मंडल	जी टी आर ई	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	--वही--
35.	के विश्वनाथ	जी टी आर ई	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	--वही--
36.	लिंगामूर्ति	जी टी आर ई	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	रु. 8,000-275-13,500
37.	आर चंदु एस ए बी	जी टी आर ई	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	--वही--
38.	के पी लोनप्पन	जी टी आर ई	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	--वही--
39.	एस मुरली	जी टी आर ई	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	--वही--
40.	पी चेनयन	जी टी आर ई	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	--वही--
41.	डी ई पी के	जी टी आर ई	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	--वही--
42.	गुंडप्पा	जी टी आर ई	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	--वही--
43.	डी प्रकाश	जी टी आर ई	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	--वही--
44.	एस गुरुसिदप्पा	जी टी आर ई	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	--वही--
45.	एच वी जयशंकर	ए डी ई	तकनीकी अधिकारी 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'डी'	रु. 12,000-375-16,500
46.	वी वलारमती	ए डी ई	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	रु. 10,000-325-15,200
47.	जॉन जोशा	ए डी ई	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	--वही--
48.	पी जयारमन	ए डी ई	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	--वही--
49.	एस गुरुस्वामी	ए डी ई	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	--वही--
50.	एन साई राम	ए डी ई	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	--वही--
51.	मैरी मैगडेलिन	ए डी ई	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	--वही--
52.	वी आर सुब्रमणियन	ए डी ई	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	--वही--
53.	बी एन जयन्ती मालिनी	ए डी ई	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	--वही--
54.	के पद्मनाभा	ए डी ई	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	--वही--
55.	हरिहरण	ए डी ई	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	--वही--
56.	विजयकुमार पी	ए डी ई	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	--वही--
57.	एस बालचंद्रण	ए डी ई	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	--वही--
58.	पी एस लॉर्डनाथन	ए डी ई	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	रु. 8,000-275-13,500
59.	आर अनबल्लगन	ए डी ई	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	--वही--
60.	जी पांडुरंगन	ए डी ई	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	--वही--

1	2	3	4	5	6
(श्री/श्रीमती)					
61.	एन मोहन	ए डी ई	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	रु. 8,000-275-13,500
62.	कैलाश हिरमत	ए डी ई	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	--वही--
63.	सी रागिनी	ए डी ई	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	--वही--
64.	अब्दुल नबी एम टी के	ए डी ई	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	--वही--
65.	जे के ललिताम्बिका	ए डी ई	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	--वही--
66.	वी एस एस रेड्डी	ए डी ई	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	--वही--
67.	सी वेलवन	ए डी ई	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	--वही--
68.	अमरजीत सिंह चड्ढा	मुख्यालय-डी ए ई आर	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	रु. 10,000-325-15,200
69.	एच एल टमटा	मुख्यालय-डी आई सी	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	--वही--
70.	पी सी छाबड़ा	मुख्यालय-डी एम एम	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	--वही--
71.	विपीन मलहोत्रा	मुख्यालय-डी एच आर डी	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	रु. 8,000-275-13,500
72.	डी सी जोशी	आर ए सी	तकनीकी अधिकारी 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'डी'	रु. 12,000-375-16,500
73.	आर के भटनागर	डेसिडॉक	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	रु. 10,000-325-15,200
74.	एन मंगामनी	डेसिडॉक	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	--वही--
75.	सुरेन्द्र सिंह	ईनमास	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	--वही--
76.	जोगिन्द्र नाथ	लास्टेक	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	--वही--
77.	ईकबाल सिंह	लास्टेक	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	--वही--
78.	संतोष दास	लास्टेक	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	--वही--
79.	रजनी कुमार	लास्टेक	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	--वही--
80.	विनोद कपूर	एस एस पी एल	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	--वही--
81.	जगबीर सिंह	एस एस पी एल	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	--वही--
82.	कुम कुम खुराना	एस एस पी एल	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	--वही--
83.	जे चंद्रा	एस एस पी एल	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	--वही--
84.	किशन लाल	सी एफ ई ई एस	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	--वही--
85.	रीवा अस्मिजा	एस ए जी	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	--वही--
86.	के एन राय	एस ए जी	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	--वही--
87.	अभिजीत बोस	एस ए जी	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	रु. 8,000-275-13,500
88.	जसबीर सिंह	एस ए जी	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	--वही--
89.	एम बग्गा	डेसिडॉक	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	--वही--
90.	बी के मरीन	ईनमास	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	--वही--
91.	सतवीर सिंह	ईनमास	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	--वही--
92.	एस पी गुप्ता	एस एस पी एल	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	--वही--
93.	रमेश चंद्र	एस एस पी एल	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	--वही--

2. निम्नलिखित व्यक्तियों को एस टी ए 'सी' से तकनीकी अधिकारी 'ए' और टी ए 'सी' से तकनीकी अधिकारी के पद पर दिनांक 01 सितम्बर 2006 (पूर्वाह्न) से पदोन्नति करते हैं:--

क्रम सं.	नाम	प्रयोगशाला/स्थापना	वर्तमान ग्रेड	पदोन्नति	पदोन्नत ग्रेड का वेतनमान
1	2	3	4	5	6
(श्री/श्रीमती)					
1.	बी आर वेंकटेशमूर्ति	ए डी ई	एस टी ए 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	रु. 7,450-225-11,500
2.	जी भारती	ए डी ई	एस टी ए 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	--वही--
3.	एम डी अरिफुल्ला	ए डी ई	एस टी ए 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	--वही--
4.	एन सुरेश कुमार	ए डी ई	एस टी ए 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	--वही--
5.	सी नारायण स्वामी	ए डी ई	एस टी ए 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	--वही--
6.	मेरीकुट्टी डेनियल	जी टी आर ई	एस टी ए 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	--वही--
7.	वी पी थॉमस	जी टी आर ई	एस टी ए 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	--वही--
8.	रमेश चंद्र	जी टी आर ई	एस टी ए 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	--वही--
9.	आर सुरेन्द्र	जी टी आर ई	एस टी ए 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	--वही--
10.	एफ थॉमस लूके	ए डी ई	टी ए 'सी'	तकनीकी अधिकारी	--वही--

2. निम्नलिखित व्यक्तियों को एस टी ए 'सी' से तकनीकी अधिकारी 'ए' के पद पर दिनांक 01 सितम्बर 2006 (पूर्वाह्न) से पदोन्नति करते हैं:--

क्रम सं.	नाम	प्रयोगशाला/स्थापना	वर्तमान ग्रेड	पदोन्नति	पदोन्नत ग्रेड का वेतनमान
1	2	3	4	5	6
(श्री/श्रीमती)					
1.	सुमन नेगी	डैसिडॉक	एस टी ए 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	रु. 7,450-225-11,500
2.	पी के सिन्हा	सी एफ ई ई एस	एस टी ए 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	--वही--
3.	प्रवीण गंभीर	लास्टेक	एस टी ए 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	--वही--
4.	बी एन रमेश	एल आर डी ई	एस टी ए 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	--वही--
5.	बी वरदाराजू	एल आर डी ई	एस टी ए 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	--वही--
6.	टी एस प्रकाश भट्ट	एल आर डी ई	एस टी ए 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	--वही--
7.	के सेल्वेस्टर	एल आर डी ई	एस टी ए 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	--वही--
8.	सी पी श्रीकुमार	डेबेल	एस टी ए 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	--वही--

बी.बी. शर्मा
उप निदेशक (कार्मिक-1)

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन

सं. 652, दिनांक 6 दिसम्बर 2006:—राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं। ए आर डी ई, पुणे के वैज्ञानिकों को दर्शाये गये अगले उच्च ग्रेड और वेतनमान के रूप में रक्षा अनुसंधान एवं विकास सेवा में 01 जुलाई 2006 पूर्वाह्न में :—

क्रम सं.	नाम	वर्तमान पदनाम	पदोन्नत पदनाम	पदोन्नत पदनाम का वेतनमान
1.	श्री कुलकर्णी आर.यू.	वैज्ञानिक 'ई'	वैज्ञानिक 'एफ'	रु. 16,400-450-20,000
2.	श्री नरेन्द्र देव	--उपरोक्त--	--उपरोक्त--	--वही--
3.	श्री एच. एच. कुमार	--उपरोक्त--	--उपरोक्त--	--वही--
4.	श्री डी. सरकार	वैज्ञानिक 'डी'	वैज्ञानिक 'ई'	रु. 14,300-400-18,300
5.	श्री ए. एस. अस्थाना	--उपरोक्त--	--उपरोक्त--	--वही--
6.	श्री पी. पी. पारखी	--उपरोक्त--	--उपरोक्त--	--वही--
7.	श्री डी. पी. बोकाडे	वैज्ञानिक 'सी'	वैज्ञानिक 'डी'	रु. 12,000-375-16,500
8.	श्री अरूण कुमार राय	--उपरोक्त--	--उपरोक्त--	--वही--
9.	श्री राजेंद्र प्रकाश	--उपरोक्त--	--उपरोक्त--	--वही--
10.	श्री के. डी. छोटे	--उपरोक्त--	--उपरोक्त--	--वही--
11.	श्री कुलविन्दर सिंह	--उपरोक्त--	--उपरोक्त--	--वही--
12.	श्री पी. के. चौधा	--उपरोक्त--	--उपरोक्त--	--वही--
13.	श्री आर. बी. कटारे	--उपरोक्त--	--उपरोक्त--	--वही--

ए डी ई, बैंगलोर के निम्नलिखित वैज्ञानिकों को दर्शाये गये अगले ग्रेड और वेतनमान के रूप में रक्षा अनुसंधान एवं विकास सेवा में व उसी स्थापना में 01 जुलाई 2006 से :—

क्रम सं.	नाम	पदनाम	पदोन्नति	वेतनमान
1	2	3	4	5
1.	श्री बी. रमेश बालीगा	वैज्ञानिक 'एफ'	वैज्ञानिक 'जी'	रु. 18,400-500-22,400
2.	श्री बी. एस. चन्द्रशेखर	--उपरोक्त--	--उपरोक्त--	--उपरोक्त--
3.	श्री पी. श्रीकुमार	--उपरोक्त--	--उपरोक्त--	--उपरोक्त--
4.	श्री बी. एस. मंजुनाथ	वैज्ञानिक 'ई'	वैज्ञानिक 'एफ'	रु. 16,400-450-20,000
5.	श्री एस. गोपाला राव	--उपरोक्त--	--उपरोक्त--	--उपरोक्त--
6.	श्री सी. एम. बेंकटेश	--उपरोक्त--	--उपरोक्त--	--उपरोक्त--
7.	श्री के. श्रीधर	--उपरोक्त--	--उपरोक्त--	--उपरोक्त--
8.	श्री बी. सर्वेस्वर्ग	--उपरोक्त--	--उपरोक्त--	--उपरोक्त--
9.	श्री वसन्त शास्त्री	--उपरोक्त--	--उपरोक्त--	--उपरोक्त--
10.	श्रीमती आशा गर्ग	--उपरोक्त--	--उपरोक्त--	--उपरोक्त--
11.	श्री एल. सूर्यराज	वैज्ञानिक 'डी'	वैज्ञानिक 'ई'	रु. 14,300-400-18,300
12.	श्री एल. बालाकृष्णन	--उपरोक्त--	--उपरोक्त--	--उपरोक्त--
13.	श्री बी. महालिंगम	--उपरोक्त--	--उपरोक्त--	--उपरोक्त--
14.	श्रीमती सी. एम. प्रमिला	--उपरोक्त--	--उपरोक्त--	--उपरोक्त--
15.	श्री आर. श्रीनिवासन	--उपरोक्त--	--उपरोक्त--	--उपरोक्त--
16.	श्री के. सेल्वाराज	--उपरोक्त--	--उपरोक्त--	--उपरोक्त--

1	2	3	4	5
17.	श्री एल. एन. राघवेन्द्रा	वैज्ञानिक 'डी'	वैज्ञानिक 'ई'	रु. 14,300-400-18,300
18.	श्रीमती एस. आई. श्रीकना कुमारी	--उपरोक्त--	--उपरोक्त--	--उपरोक्त--
19.	श्री एस. बालाकृष्ण प्रकाश	--उपरोक्त--	--उपरोक्त--	--उपरोक्त--
20.	श्रीमती अनामिका मिश्रा	वैज्ञानिक 'सी'	वैज्ञानिक 'डी'	रु. 12,000-375-16,500
21.	श्री के. एस. एज़िल थिरुमारन	--उपरोक्त--	--उपरोक्त--	--उपरोक्त--
22.	श्री ए. मुनी कृष्णनइया	--उपरोक्त--	--उपरोक्त--	--उपरोक्त--
23.	श्री विश्वनाथ वाकडे	--उपरोक्त--	--उपरोक्त--	--उपरोक्त--
24.	श्री एस. हरी प्रसाद	--उपरोक्त--	--उपरोक्त--	--उपरोक्त--
24A.	श्री मूर्थी	--उपरोक्त--	--उपरोक्त--	--उपरोक्त--
25.	श्री सी. एम. नागेश	--उपरोक्त--	--उपरोक्त--	--उपरोक्त--
26.	श्री एस. एस. तोमर	--उपरोक्त--	--उपरोक्त--	--उपरोक्त--
27.	श्री के. आर. राथीमोल	--उपरोक्त--	--उपरोक्त--	--उपरोक्त--
28.	सुश्री वर्षा अग्रवाल	--उपरोक्त--	--उपरोक्त--	--उपरोक्त--

राष्ट्रपति, एल. आर. डी. ई., बैंगलोर के निम्नलिखित वैज्ञानिकों की वर्तमान ग्रेड से अगले उच्च ग्रेड में उनके सामने दिखाये गये विवरण के अनुसार 01 जुलाई 2006 (पूर्वाह्न) से पदोन्नति करते हैं:--

क्रम सं.	नाम	वर्तमान ग्रेड	ग्रेड जिसमें पदोन्नति हुई है	वेतनमान
1.	श्री एम. विजय कुमार	वैज्ञानिक 'एफ'	वैज्ञानिक 'जी'	रु. 18,400-500-22,400
2.	डा. राजू वेंकटरायायण	--उपरोक्त--	--उपरोक्त--	--उपरोक्त--

राष्ट्रपति, एस. ए. एस. ई., चण्डीगढ़ के निम्नलिखित वैज्ञानिकों की वर्तमान ग्रेड से अगले उच्च ग्रेड में उनके सामने दिखाये गये विवरण के अनुसार 01 जुलाई 2006 (पूर्वाह्न) से पदोन्नति करते हैं:--

क्रम सं.	नाम	वर्तमान ग्रेड	ग्रेड जिसमें पदोन्नति हुई है	वेतनमान
1.	श्री गणेश कुमार	वैज्ञानिक 'सी'	वैज्ञानिक 'डी'	रु. 12,000-375-16,500
2.	श्री विनय चौधरी	--उपरोक्त--	--उपरोक्त--	--उपरोक्त--

आई. टी. आर., बालासोर के वैज्ञानिकों को दर्शाये गये अगले उच्च ग्रेड और वेतनमान के रूप में रक्षा अनुसंधान एवं विकास सेवा में 01 जुलाई 2006 पूर्वाह्न से:--

क्रम सं.	नाम	वर्तमान पदनाम	पदोन्नत पदनाम	पदोन्नत पदनाम का वेतनमान
1.	श्री एस. आर. बेरा	वैज्ञानिक 'एफ'	वैज्ञानिक 'जी'	रु. 18,400-500-22,400
2.	श्री कृष्णन्दु जना	वैज्ञानिक 'ई'	वैज्ञानिक 'एफ'	रु. 16,400-450-20,000
3.	श्री जी. आर. पांडा	--वही--	--वही--	--वही--
4.	श्रीमती श्रवानी भट्टाचार्य	वैज्ञानिक 'सी'	वैज्ञानिक 'डी'	रु. 12,000-375-16,500
5.	श्री अतनु तालुकदर	--वही--	--वही--	--वही--

आर. डी. ई. (इंजिनियर्स), पुणे के वैज्ञानिकों को दर्शाये गये अगले उच्च ग्रेड और वेतनमान के रूप में रक्षा अनुसंधान एवं विकास सेवा में 01 जुलाई 2006 पूर्वाह्न से :--

क्रम सं.	नाम	वर्तमान पदनाम	पदोन्नत पदनाम	पदोन्नत पदनाम का वेतनमान
1.	श्री कुलभूषण राय	वैज्ञानिक 'ई'	वैज्ञानिक 'एफ'	रु. 16,400-450-20,000
2.	श्री डी. बी. पेदराम	--उपरोक्त--	--उपरोक्त--	--वही--
3.	श्री नरेश कुमार	--उपरोक्त--	--उपरोक्त--	--वही--
4.	श्री श्रीधर कट्टी	--उपरोक्त--	--उपरोक्त--	--वही--
5.	श्री जे. के. बिसवास	वैज्ञानिक 'डी'	वैज्ञानिक 'ई'	रु. 14,300-400-18,300
6.	श्री एस. बी. लोकान्दे	--उपरोक्त--	--उपरोक्त--	--वही--
7.	श्री आर. के. चौहान	--उपरोक्त--	--उपरोक्त--	--वही--
8.	श्री आर. एम. धोडिया	--उपरोक्त--	--उपरोक्त--	--वही--
9.	श्री दिलीप कुमार बिसवास	--उपरोक्त--	--उपरोक्त--	--वही--
10.	श्री ए. वी. राजहंस	वैज्ञानिक 'सी'	वैज्ञानिक 'डी'	रु. 12,000-375-16,500
11.	श्री ए. एन. कुलकर्णी	--उपरोक्त--	--उपरोक्त--	--वही--
12.	श्री आर. जी. गभाले	--उपरोक्त--	--उपरोक्त--	--वही--

राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं:

डी. आई. ए टी., पुणे के वैज्ञानिकों को दर्शाये गये अगले उच्च ग्रेड और वेतनमान के रूप में रक्षा अनुसंधान एवं विकास सेवा में 01 जुलाई 2006 पूर्वाह्न से :--

क्रम सं.	नाम	वर्तमान पदनाम	पदोन्नत पदनाम	पदोन्नत पदनाम का वेतनमान
1.	श्री वी. ए. देशमुख	वैज्ञानिक 'ई'	वैज्ञानिक 'एफ'	रु. 16,400-450-20,000
2.	डॉ. ए. के. त्यागी	--उपरोक्त--	--उपरोक्त--	--वही--
3.	डॉ. आर. बी. शर्मा	--उपरोक्त--	--उपरोक्त--	--वही--
4.	श्री ए. के. दीक्षित	वैज्ञानिक 'डी'	वैज्ञानिक 'ई'	रु. 14,300-400-18,300
5.	श्री एन. गणेश	--उपरोक्त--	--उपरोक्त--	--वही--
6.	श्री प्रदीप कुमार वी	वैज्ञानिक 'सी'	वैज्ञानिक 'डी'	रु. 12,000-375-16,500

डी. आर. डी. ई., ग्वालियर के वैज्ञानिकों को दर्शाये गये अगले उच्च ग्रेड और वेतनमान के रूप में रक्षा अनुसंधान एवं विकास सेवा में 01 जुलाई 2006 पूर्वाह्न से :--

क्रम सं.	नाम	वर्तमान पदनाम	पदोन्नत पदनाम	पदोन्नत पदनाम का वेतनमान
1	2	3	4	5
1.	डॉ. डी. सी. गुप्ता	वैज्ञानिक 'ई'	वैज्ञानिक 'एफ'	रु. 16,400-450-20,000
2.	डॉ. (श्रीमती) उर्मिल टुटेजा	वैज्ञानिक 'ई'	वैज्ञानिक 'एफ'	--वही--
3.	डॉ. एस. के. रज़ा	वैज्ञानिक 'ई'	वैज्ञानिक 'एफ'	--वही--
4.	डॉ. एस. सी. पंत	वैज्ञानिक 'ई'	वैज्ञानिक 'एफ'	--वही--

1	2	3	4	5
5.	श्री ए सी पाण्डे	वैज्ञानिक 'डी'	वैज्ञानिक 'ई'	रु. 14,300-400-18,300
6.	डा. फ्रांसिस बी वर्गीस	--वही--	--वही--	--वही--
7.	डा. एम एम परीदा	--वही--	--वही--	--वही--
8.	डा. एम के अगरवाल	वैज्ञानिक 'सी'	वैज्ञानिक 'डी'	रु. 12,000-375-16,500
9.	डा. (श्रीमती) उमा पाठक	--वही--	--वही--	--वही--
10.	श्री डी टी सेलवम	--वही--	--वही--	--वही--
11.	डा. राम कुमार धाकड	--वही--	--वही--	--वही--

डी एम एस आर डी ई, कानपुर के वैज्ञानिकों को दर्शाये गये अगले उच्च ग्रेड और वेतनमान के रूप में रक्षा अनुसंधान एवं विकास सेवा में 01 जुलाई 2006 पूर्वाह्न से :--

क्रम सं.	नाम	वर्तमान पदनाम	पदोन्नत पदनाम	पदोन्नत पदनाम का वेतनमान
1.	डा. डी के सेतुआ	वैज्ञानिक 'एफ'	वैज्ञानिक 'जी'	रु. 18,400-500-22,400
2.	श्री संजय टंडन	वैज्ञानिक 'ई'	वैज्ञानिक 'एफ'	रु. 16,400-450-20,000
3.	श्री सर्वेश कुमार	वैज्ञानिक 'डी'	वैज्ञानिक 'ई'	रु. 14,300-400-18,300
4.	श्री ए के पाण्डे	--वही--	--वही--	--वही--
5.	श्री एच सी श्रीवास्तव	--वही--	--वही--	--वही--
6.	डा. आर के तिवारी	--वही--	--वही--	--वही--
7.	श्री जे एन श्रीवास्तव	--वही--	--वही--	--वही--

राष्ट्रपति, एल आर डी ई, आगरा कैंप के निम्नलिखित वैज्ञानिकों की वर्तमान ग्रेड से अगले उच्च ग्रेड में उनके सामने दिखाये गये विवरण के अनुसार 01 जुलाई 2006 (पूर्वाह्न) से पदोन्नति करते हैं:--

क्रम सं.	नाम	वर्तमान ग्रेड	ग्रेड जिसमें पदोन्नति हुई है	पदोन्नत ग्रेड का वेतनमान
1.	श्री ए डी आहूजा	वैज्ञानिक 'एफ'	वैज्ञानिक 'जी'	रु. 18,400-500-22,400
2.	श्री महेन्द्र प्रताप	वैज्ञानिक 'सी'	वैज्ञानिक 'डी'	रु. 12,000-375-16,500
3.	श्री संदीप मलिक	वैज्ञानिक 'सी'	वैज्ञानिक 'डी'	रु. 12,000-375-16,500

राष्ट्रपति, सी.ई.एम.आई.एल.ए. सी, बँगलूर के निम्नलिखित वैज्ञानिकों की वर्तमान ग्रेड से अगले उच्च ग्रेड में उनके सामने दिखाये गये विवरण के अनुसार 01 जुलाई 2006 (पूर्वाह्न) से पदोन्नति करते हैं:--

क्रम सं.	नाम	वर्तमान ग्रेड	ग्रेड जिसमें पदोन्नति हुई है	पदोन्नत ग्रेड का वेतनमान
1	2	3	4	5
1.	श्री एस नारायण स्वामी	वैज्ञानिक 'ई'	वैज्ञानिक 'एफ'	रु. 16,400-450-20,000
2.	श्री आर कमला कानन	--उपरोक्त--	--उपरोक्त--	--उपरोक्त--
3.	श्री आर थंगाराज	--उपरोक्त--	--उपरोक्त--	--उपरोक्त--
4.	श्री वी वी नागन्द्र कुमार	वैज्ञानिक 'डी'	वैज्ञानिक 'ई'	रु. 14,300-400-18,300
5.	श्री गिरधारी कुमार	--उपरोक्त--	--उपरोक्त--	--उपरोक्त--

राष्ट्रपति, डी.ए.आर.ई., बेंगलूर के निम्नलिखित वैज्ञानिकों की वर्तमान ग्रेड से अगले उच्च ग्रेड में उनके सामने दिखाये गये विवरण के अनुसार 01 जुलाई 2006 (पूर्वाह्न) से पदोन्नति करते हैं:—

क्रम सं.	नाम	वर्तमान ग्रेड	ग्रेड जिसमें पदोन्नति हुई है	पदोन्नत ग्रेड का वेतनमान
1	2	3	4	5
1.	श्री पी एम सुन्दर राजन	वैज्ञानिक 'एफ'	वैज्ञानिक 'जी'	रु. 18,400-500-22,400
2.	श्रीमती मिनी चेरियन	वैज्ञानिक 'ई'	वैज्ञानिक 'एफ'	रु. 16,400-450-20,000
3.	श्री एम श्रीनिवासा राव	वैज्ञानिक 'डी'	वैज्ञानिक 'ई'	रु. 14,300-400-18,300
4.	श्रीमती सुनीता अवस्थी	वैज्ञानिक 'सी'	वैज्ञानिक 'डी'	रु. 12,000-375-16,500

राष्ट्रपति, श्री एम. एल. सिङ्गाना, वैज्ञानिक जी, निदेशक, एडीआरडीई, आगरा कैंट की वैज्ञानिक एच (उत्कृष्ट वैज्ञानिक) के रूप में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन में 01 जुलाई 2006 (पूर्वाह्न) से वेतनमान रु. 22,400-525-24,500/- पर उसी पद पर पदोन्नति करते हैं।

राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं:—

सीवीआरडीई, चेन्नई के श्री एस सुन्दरेश, वैज्ञानिक 'जी' को वैज्ञानिक 'एच' (उत्कृष्ट वैज्ञानिक) के रूप में रक्षा अनुसंधान एवं विकास सेवा में 01 जुलाई 2006 से वेतनमान रु. 22,400-525-24,500/- पर।

पी सारथ
संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

वायु शाखा

सं. 653, दिनांक 5 दिसम्बर 2006—राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित मूल पदोन्नति करते हैं:—

भारतीय वायु सेना

संभारिकी शाखा

एयर कामोडोर के मूल रैंक में

बी मुकजी (13412), संभा, 01 सितम्बर 2006

[इनका नाम एयर कामोडोर डी बी अजगौंकर (13413) संभा के ऊपर आयेगा।]

उड़ान शाखा

एयर कॉमोडोर के मूल रैंक में

टी के वर्मा (14273), उ.पा., 01 अप्रैल 2006/01 सितम्बर 2005 (केवल वरीयता के लिए)

[इनका नाम एयर कॉमोडोर एच एच पटेल (14271) उ.पा. और एम जोश (14278) उ.पा के बीच में आयेगा।]

ए नसीम (14279), उ.पा., 01 मार्च 2006/19 सितम्बर 2005 (केवल वरीयता के लिए)

[इनका नाम एयर कॉमोडोर एच पी एस नट्ट (14281) उ.पा. के ऊपर आयेगा।]

वी पी सिंह (14551), उ.पा., 01 मार्च 2006/01 अक्टूबर 2005 (केवल वरीयता के लिए)

[इनका नाम एयर कॉमोडोर जी एस चीमा (14292) उ.पा. के नीचे आयेगा।]

एन सिंह (14552), उ.पा., 01 फरवरी 2006/01 अक्टूबर 2005 (केवल वरीयता के लिए)

[इनका नाम एयर कॉमोडोर डी सिंह (14553) उ.पा. के ऊपर आयेगा।]

आर धर (14559), उ.पा., 01 मार्च 2006

[इनका नाम एयर कॉमोडोर जे कुम्भत (14558) उ.पा. के नीचे आयेगा।]

वी के चोपड़ा (14563), उ.पा., 01 मार्च 2006

ए चौधरी (14564), उ.पा., 01 मार्च 2006

ए के जैन (14565), उ.पा., 01 मार्च 2006

आर गोयल (14567), उ.पा., 01 अप्रैल 2006

एस जे बहादुर (14570), उ.पा., 01 मई 2006

संभारिकी शाखा

विंग कमांडर के मूल रैंक में

जी बरआ (16853), संभा, 01 नवम्बर 2003

टी पी एस अरोड़ा (16973), संभा, 01 मार्च 2004

पी के दुदेजा (16991), संभा, 01 सितम्बर 2004

के वी शंकर

संयुक्त निदेशक कार्मिक (अधिकारी)-2(बी)

सेना शाखा

सं. 654, दिनांक 6 दिसम्बर 2006—राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित एडी कोर अफसरो को अल्पस्थायी कमीशन से मुक्त करते हैं और 10 जुलाई

2006 से एडी कोर में, थल सेना अनुदेश 37/78 के अधीन, स्थाई कमीशन में नियुक्ति करते हैं :--

नियमित सेना

सेना दन्त चिकित्सा कोर

(स्थायी कमीशन)

मेजर पी एच शेख (डीआर-10590एफ), 10 जुलाई 2006, परन्तु वेतन और पदोन्नति व पेंशन के लिए वरिष्ठता 01 फरवरी 2001 से दी जाती है।

कैप्टन पूनम प्रकाश (डीआर-10591ए), 10 जुलाई 2006, परन्तु वेतन और पदोन्नति व पेंशन के लिए वरिष्ठता 16 नवम्बर 2002 से दी जाती है।

कैप्टन विजयलक्ष्मी की मलाली (डीआर-10592एच), 10 जुलाई 2006, परन्तु वेतन और पदोन्नति व पेंशन के लिए वरिष्ठता 29 मई 2002 से दी जाती है।

कैप्टन अनिता कापरी (डीआर-10593एल), 10 जुलाई 2006, परन्तु वेतन और पदोन्नति व पेंशन के लिए वरिष्ठता 17 अगस्त 2002 से दी जाती है।

कैप्टन अविनाश कुमार (डीआर-10594एन), 10 जुलाई 2006, परन्तु वेतन और पदोन्नति व पेंशन के लिए वरिष्ठता 20 अगस्त 2002 से दी जाती है।

कैप्टन भूपिन्द्र सिंह (डीआर-10595डब्ल्यू), 10 जुलाई 2006, परन्तु वेतन और पदोन्नति व पेंशन के लिए वरिष्ठता 24 जनवरी 2003 से दी जाती है।

कैप्टन कमलफाथे के (डीआर-10596वाई), 10 जुलाई 2006, परन्तु वेतन और पदोन्नति व पेंशन के लिए वरिष्ठता 19 फरवरी 2003 से दी जाती है।

कैप्टन विजय कुमार आर (डीआर-10597एफ), 10 जुलाई 2006, परन्तु वेतन और पदोन्नति व पेंशन के लिए वरिष्ठता 13 मार्च 2003 से दी जाती है।

कैप्टन ओमन नेयन (डीआर-10598के), 10 जुलाई 2006, परन्तु वेतन और पदोन्नति व पेंशन के लिए वरिष्ठता 20 मार्च 2003 से दी जाती है।

कैप्टन दिनेश चन्द्र चौधरी (डीआर-10599एम), 10 जुलाई 2006, परन्तु वेतन और पदोन्नति व पेंशन के लिए वरिष्ठता 09 जून 2003 से दी जाती है।

कैप्टन पराबिन्द्र शर्मा (डीआर-10600डब्ल्यू), 10 जुलाई 2006, परन्तु वेतन और पदोन्नति व पेंशन के लिए वरिष्ठता 19 फरवरी 2004 से दी जाती है।

कैप्टन अनिल कुमार एस (डीआर-10601वाई), 10 जुलाई 2006, परन्तु वेतन और पदोन्नति व पेंशन के लिए वरिष्ठता 25 फरवरी 2004 से दी जाती है।

कैप्टन अशिश कम्बोज (डीआर-10602एफ), 10 जुलाई 2006, परन्तु वेतन और पदोन्नति व पेंशन के लिए वरिष्ठता 25 फरवरी 2004 से दी जाती है।

कैप्टन सतीश टी एस (डीआर-10603के), 10 जुलाई 2006, परन्तु वेतन और पदोन्नति व पेंशन के लिए वरिष्ठता 05 मार्च 2004 से दी जाती है।

डी के तनेजा

मेजर जनरल

एडीजीडीएस

सेना शाखा

शुद्धि पत्र

सं. 655, दिनांक 4 दिसम्बर 2006--02 सितम्बर 2006 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय के शुद्धि पत्र शीर्षक 'स्थायी कमीशन' तथा उप शीर्षक 'मेजर से मूल लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक में', अधिकारी जिसका विवरण संख्या नं. 34 विषय राजपत्र में प्रकाशित तथा नीचे दिया गया है को हटा दिया जाता है :--

स्थायी कमीशन

मेजर से मूल लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक में

(बी-465ए) पी बी एस सिद्धू, आरवीसी, 16 दिसम्बर 2004

सत्यपाल शर्मा

अवर सचिव

स्थायी थल सेना : स्थायी कमीशन

संशोधन पत्र

सं. 656, दिनांक 5 दिसम्बर 2006--दिनांक 03 जनवरी 04 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना में शीर्षक नियमित सेना स्थायी कमीशन उप शीर्षक :--

स्थायी लेफ्टिनेंट कर्नल जो कि स्थाई कर्नल होंगे

नाम के सामने	के लिए	पढ़ा जाए
वी. के. मेहता, सिग्नल्स	आईसी-30265	आईसी-30625
एस. एस. ठाकुर, आर्टी	आईसी-23259	आईसी-33259
एन. वेनुगोपाल, ईएमई	एन वेनुगोपाल	एम वेनुगोपाल

स्थायी मेजर जो कि स्थाई लेफ्टिनेंट कर्नल होंगे

नाम के सामने

एस. के. डबराल	आईसी-39159	आईसी-39519
---------------	------------	------------

आशा आनन्द

उप निदे.

गुआमनि/प्रशा-4

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 30th December 2006

No. 638, dated 1st December 2006—The President is pleased to appoint Shri Dheeraj Gupta, IAS (J&K : 93) as Private Secretary to Raksha Mantri (Shri A.K. Antony) at the level of Deputy Secretary w.e.f. 7.11.2006 (AN) for a period of five years or till he ceases to function as Private Secretary to Raksha Mantri or until further orders, whichever event occurs the earliest. The period of five years as PS to Minister is covered under the combined tenure of 7 years. He counts his tenure at the centre with effect from 30.03.2006.

The President is pleased to appoint Ms. Namita Mehrotra, IRAS (91) on transfer from the Ministry of Railways (Railway Board), as Director in the Ministry of Defence w.e.f. 16.11.2006 (FN) upto 15.11.2011 or until further orders, whichever is earlier.

The President is pleased to appoint Shri Vinod Kumar Langan, IRSS (88) on transfer from the Ministry of Railways (Railway Board), as Director in the Ministry of Defence w.e.f. 8.11.2006 (AN) upto 8.11.2011 or until further orders, whichever is earlier.

The President is pleased to appoint the Shri V.D. Dhamija, Assistant, borne on the CSS Cadre of Department of Commerce (Supply Division) as Section Officer on ad-hoc basis in the Ministry of Defence in the Scale of Pay of Rs. 6,500-200-10,500/- w.e.f. 3.11.2006 (FN) for a period upto 31.12.2006 or until further orders, whichever is earlier, subject to the following conditions :—

- (i) The ad-hoc appointments shall not confer on the appointee any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Section Officers' grade of CSS;
- (ii) The ad-hoc arrangement may continue till regular candidates in Section Officers' Grade are available either through Seniority quota and/or Limited Departmental Competitive Examination (LDCE). In the event of the ad-hoc appointee not qualifying for regular appointment in either of these two categories, he will be reverted to the Assistants' Grade on availability of such a regular officer from the date the regular Section Officer joins Ministry of Defence.

The President is pleased to appoint the Shri S.C. Mondal, ad-hoc Section Officer, borne on the CSS Cadre of Department of Personnel & Training (Department of Administrative Reforms and Public Grievances) as Section Officer on ad-hoc basis in the Ministry of Defence in the Scale of Pay of Rs. 6,500-200-10,500/- w.e.f. 16.10.2006 (FN) for a period upto 31.12.2006 or until further orders, whichever is earlier, subject to the following conditions :—

- (i) The ad-hoc appointments shall not confer on the appointee any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Section Officers' grade of CSS;
- (ii) The ad-hoc arrangement may continue till regular candidates in Section Officers' Grade are available either through Seniority quota and/or Limited Departmental Competitive Examination (LDCE). In the event of the ad-hoc appointee not qualifying for regular appointment in either of these two categories, he will be reverted to the Assistants' Grade on availability of such a regular officer from the date the regular Section Officer joins Ministry of Defence.

The President is pleased to appoint Shri T. Pratap as First PA to Raksha Mantri (Shri A.K. Antony) in the pay scale of Rs. 6,500-200-10,500/- with effect from 8.11.2006 (AN) till the Minister demits office or until further orders, whichever is earlier.

The President is pleased to appoint Shri J.S. Iyer as Assistant Private Secretary to Raksha Mantri (Shri A.K. Antony) in the pay scale of Rs. 6,500-200-10,500/- with effect from 9.11.2006 (AN) till the Minister demits office or until further orders, whichever is earlier.

The President is pleased to appoint Shri Vikrant Sachdeva, CSS, Section Officer, borne on the strength of the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs), to Grade I of the CSS (Under Secretary) on ad-hoc basis in the Ministry of Defence w.e.f. 14.11.2006 (FN), until further orders in terms of DOP&T OM No. 5/8/2006-CS.I(Desk)(Pt.III) dated the 25th September, 2006.

2. The appointment of the above officer as Under Secretary (ad-hoc) is subject to following conditions :—

- (i) The ad-hoc promotion shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade I (Under Secretary) of CSS.
- (ii) Ad-hoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason therefor.

S. K. DEB
Under Secy.

No. 639, dated 4th December 2006.—The President has made the following appointment on his Honorary Personal Staff w.e.f. 01 November, 2006 :—

Honorary Air ADC

Air Marshal KS Chaturvedi, VSM (12100) AE(L)

S.D. BANGA
Under Secy.

(ARMY BRANCH)

No. 640, dated 6th December 2006.—The President is pleased to make the following appointments :—

(REGULAR ARMY)

PERMANENT COMMISSION

(To be Lts w.e.f. 12 Jun 1999)

Avinash Prakash (IC-58757N) AC seniority next below Maneesh Bhola (IC-58756L) Mech whose name appeared in the Gazette of India, Ministry of Defence Notification published on 13 May 2000.

(To be Lts w.e.f. 10 Dec 2005)

The undermentioned Gentlemen Cadets of 117 Regular Course (117 DE, 107 Ex NDA and 84 Ex ACC) are granted permanent commission in the Army in the rank of Lt w.e.f. 10 Dec. 2005 under the provision of SAI 4/S/74 (for DE, AI 53/78 read with SAI 4/S/74 (for Ex NDA) and AI 55/73 (for Ex ACC).

Name (IC No.), Arm/Service

Subhash Chandra (67383K), Inf

Moneet Singh (67384M), Arty

Rohin Chibber (67385P), AC

Neeraj Singh (67386X), EME

Rahul Gupta (67387A), Inf

Manish Kumar Pillai (67388H), Inf

Tarun Rana (67389L), Inf

Vinod Kumar Choudhary (67390A), Arty

Jayvardhan Sanan (67391H), ASC

Rohit Kumar (67392L), Arty

Harsimran Singh Sandhawalia (67393N), Inf

Sunil Kumar Pal (67394W), Inf

Ashish Jaswal (67395Y), Inf

Ankur Suhag (67396F), Inf

Arnab Narayan Dey (67397K), ASC

Rohit Kumar Singh (67398M), Inf

Garge Yuvraj Abhay (67399P), Mech

Swarnendu Roy (67400Y), AOC

Siddharth Gopal (67401F), AAD

Dinesh Tiwari (67402K), Inf

Gajendra Singh Uprari (67403M), Inf

Kumar Abhishek (67404P), AOC

Sumit Kumar (67405X), Arty

Deepak Thakur (67406A), Sigs

Shalender (67407H), Inf

Mayuresh Jadhav (67408L), Engrs

Anuj Chandra Shrivastava (67409N), AAD

Sahil Butalia (67410H), AC

S. Yunes Yoga Raj (67411L), Arty

Mayank Bagchi (67412N), Inf

Arjun Singh Tomar (67413W), Inf

Ngasangva Shimrei (67414Y), Inf

Sandeep Chopra (67415F), EME

Amit Kumar Sirohi (67416K), ASC

Vivek Singh Bhadouria (67417M), AAD

Shiv Shankar Rathi (67418P), Inf

Rajesh Biswas (67419X), Arty

Rajdeep Singh Mann (67420M), Mech

Khan Ahmed A Mohd Majeedullah Khan (67421P), Inf

Yuvraj Malik (67422X), Inf

Dinesh Garg (67423A), Int

Hardeep Inder Singh Sidhu (67424H), Arty

Ankit Sharma (67425L), Inf

Mani Singh (67426N), AOC

Rishamreet Singh Ghuman (67427W), Inf

Siddharth Chhikara (67428Y), Sigs

Sandeep Washisht (67429F), Inf

Kabramani Napoleon Singh (67430W), Inf

Bhanwardeep Singh (67431Y), AAD

Navshinder Singh Khera (67432F), Engrs

Amit Bhatt (67433K), AC

Ranjan Thakur (67434M), Arty

Vikram Vasant Nalawade (67435P), Inf

Amit Tyagi (67436X), AOC

Aman Kumar Tiwari (67437A), Mech

Gaurav Pachauri (67438H), ASC

Saurabh Sharma (67439L), AAD

Tarkeshwar Singh (67440A), Inf

Vikas Kumawat (67441H), Arty

Puneet Oberoi (67442L), AC

R. Balakarthik (67443N), Inf

Tarun Kharb (67444W), ASC

Dhruv Singh Chahal (67445Y), AC
Pankaj Kumar (67446F), Inf
Basavaraj S Halli (67447K), Engrs
Satish Rai (67448M), AAD
Mannu Gaur (67449P), Arty
Amanpreet Singh (67450K), Mech
Pooran Chandra (67451M), AOC
Romil Goel (67452P), Arty
Nishant Kalra (67453X), Inf
Umesh Chandra Nayak (67454A), Inf
Chandan Kumar (67455H), Arty
Utpal Das (67456L), Inf
Abheet Patil (67457N), Sigs
Ben MS (67458W), Inf
Ashwin Vivek Khare (67459Y), Engrs
Atul Kumar (67460N), Inf
Prakash Kumar (67461W), Inf
Charanjit Singh (67462Y), Arty
Subhash Yadav (67463F), Int
Prashant Lodha (67464K), Arty
Neeraj Singh Mann (67465M), Inf
Sandeep Sachdeva (67466P), AAD
Manish Kumar (67467X), ASC
Gireetra Joshi (67468A), Inf
Gyan Chand Bhuyan (67469H), Arty
Pradeep Singh (67470X), Engrs
Mohit Verma (67471A), Inf
A. Vivek Arumanayagam (67472H), Inf
Jagjeet Singh (67473L), Inf
Abhishek Moudgil (67474N), ASC
Rishi Chauhan (67475W), AC
Parminder Singh (67476Y), Arty
Ashish Dubey (67477F), AAD
Rajpal Negi (67478K), Inf
Umesh M Pai (67479M), Inf
Amit Sharma (67480F), Inf
Ozarkar Sachin Deepak (67481K), Arty
Nabarun Mazumdar (67482M), AC
Satendra Kumar (67483P), Sigs

Harsukhchain Singh (67484X), Inf
Amrit Shankar (67485A), Inf
Prashant Kumar (67486H), Int
Anurag Upadhyay (67487L), Inf
Subodh Kumar Tripathi (67488N), AOC
Pankaj J Bhojwani (67489W), Arty
Jitendra Singh (67490L), Mech
Anshul Ahlawat (67491N), Inf
Anoopam Singh Kardia (67492W), Inf
Manoj Dobriyal (67493Y), Inf
Vivek Yadav (67494F), AC
Vivek Yadav (67495K), Inf
Netke Atul Keshav (67496M), Arty
Pankaj Kushwaha (67497P), Engrs
Manish Baral (67498X), Inf
Rahul Narang (67499A), AAD
Gokhale Atul Subhash (67500K), Inf
Kushagra Singh (67501M), Inf
Puneet Prakash Srivastava (67502P), Arty
Kulkarni Mangesh Bhalchandra (67503X), Arty
Tarun Singh (67504A), Inf
Satyam Anand (67505H), Mech
Bhupendra Malik (67506L), Inf
Umesh Sukhija (67507N), Arty
Manmeet Singh (67508W), Arty
Aditya Rana (67509Y), Inf
Waknis Hrishikesh Ajit (67510N), Inf
Devesh Jayant Joshi (67511W), Inf
Rahul Singh (67512Y), Inf
Kuldeep Singh Shekhawat (67513F), Inf
Anand Tripathi (67514K), Engrs
Sanasam Roland Singh (67515M), Inf
Naveen Sehrawat (67516P), AAD
Devender Vashist (67517X), Inf
Rahul Pathania (67518A), Inf
Rakesh Sharma (67519H), AC
Krishan Kumar Sharma (67520X), AAD
Manav (67521A), AOC
Abhishek Prakash (67522H), Arty

Bebale Satyaheet Suryakant (67523L), Inf
 Jitendra Kumar (67524N), Inf
 Amit Kumar Singh (67525W), Inf
 Ashish Mangain (67526Y), Inf
 Laishram Chourajit Singh (67527F), AC
 Nishant Kumar (67528K), Inf
 Uddipto Bhushan Malik (67529M), Mech
 Anudeep Singh Sidhu (67530F), AOC
 Manbeer Singh Ghuman (67531K), ASC
 Maruti Nandan (67532M), Int
 Digamber Singh (67533P), Mech
 Ish Kumar Yadav (67534X), Arty
 Vickram Chark (67536H), Engrs
 Kallol Biswal (67537L), Arty
 G Somu Maharajan (67538N), Arty
 Deepak Kumar Dimri (67539W), Inf
 Ravish Pathak (67540L), Inf
 Tadpatrikar Pranav Ram (67541N), Arty
 Abhishek Kumar (67542W), ASC
 Krishna Thapa (67543Y), Inf
 Deepak Kumar Singh (67544F), Arty
 Vikas Kumar Repswal (67545K), AC
 Manu Pandey (67546M), ASC
 Nitin Chauhan (67547P), Inf
 Neeraj Kumar (67548X), Inf
 Amit Dadhwal (67549A), Arty
 Gaurav Katoch (67550P), AC
 Varun Chaudhry (67551X), Inf
 Gyanesh Kumar (67552A), AOC
 Prasanth S (67553H), Sigs
 Anchit Kumar (67554L), Inf
 Dishwan Grewal (67555N), EME
 Dipankar Himalayan (67556W), Inf
 Kishlaya Shukla (67557Y), Arty
 Prabhanshu Singh (67558F), Arty
 Rajeev Thapa (67559K), ASC
 Vinod Kumar Rathore (67560Y), Inf
 Mayuresh Sharad Khedekar (67561F), Inf
 V Chaitanya Reddy (67562K), Inf

Santosh Semwal (67563M), AOC
 Srinivasa Rao Kuppili (67564P), Sigs
 Shaurya Singh (67565X), Inf
 Kuldeep Vaishnava (67566A), Mech
 Neeraj Kumar (67567H), Int
 Charanjit Singh (67568L), AOC
 Dheeraj Pohad (67569N), Engrs
 Himanshu Saklani (67570H), ASC
 Sandeep Suman (67571L), Inf
 Vikas Thapa (67572N), ASC
 Aditya Sinha (67573W), Inf
 Shailender Singh Shekhawat (67574Y), AOC
 Sumit Kothiyal (67575F), Mech
 Shashi Shankar Vidyarthi (67576K), Engrs
 Govind Narain Mishra (67577M), Arty
 Kanishk Thapa (67578P), Inf
 Arunesh Prasad Dwivedi (67579X), AOC
 Kulwant Singh (67580M), Arty
 Suresh S (67581P), AOC
 Romit Sharma (67582X), Inf
 Joshi Shriram Shrihairsha (67583A), Arty
 Rajkumar Mondal (67584H), Mech
 Saugata Sarkar (67585L), ASC
 ✓ Surendra Singh Rathore (67586N), ASC
 Tara Datt Joshi (67587W), Arty
 Mithlesh Joshi (67588Y), AOC
 Sukrit Dhar Jayal (67589F), Inf
 Kapil Kumar Chand (67590W), Arty
 Vishwas Kumar (67591Y), AC
 Shitanshu Jain (67592F), ASC
 Bhupendra Singh Bhakuni (67593K), Inf
 Alok Tomer (67594M), AAD
 Amit Kumar Singh (67595P), AC
 Sagar Suryakant Barge (67596X), Inf
 Rajkumar Pallab Gohain (67597A), Inf
 Shreyas Subhash Deshpande (67598H), Engrs
 Pradeep Kumar (67599L), Arty
 A Santhana Gopala Krishnan (67600P), Inf
 Siddharth Kukreti (67601X), AAD

Prateek Mathur (67602A), Arty	Sarish Tiwary (67641Y), Inf
Pankaj Sood (67603H), Inf	Dilip Kumar Sen (67642F), AAD
Paras Arora (67604L), Arty	Pawan KR Shukla (67643K), Arty
Amit Yadav (67605N), AOC	Arpan Rai (67644M), Inf
Purohit Gopalraj Jasraj (67606W), Inf	Kingshuk Raktim (67645P), ASC
Sudeep Singh Rawal (67607Y), AC	Vikas Kashyap (67646X), AC
Bhupendra Singh (67608F), ASC	Parikshit Chauhan (67647A), Sigs
Rajiv Koner (67609K), Inf	Jay Prakash Kumar (67648H), Inf
Deepak Kumar Thakur (67610Y), Engrs	Ram G (67649L), Engrs
Sudhir Kumar (67611F), Inf	Vivek Kumar (67650A), Inf
Kunal Ganguly (67612K), Inf	Suneel Kumar Sharma (67651H), Arty
Bikram Jeet Singh (67613M), Inf	Abhishek Srivastava (67652L), Arty
Saroj Kumar Adhikary (67614P), AOC	Ravi Raj Randhawa (67654W), Arty
Rajneesh Kumar Sharma (67615X), Inf	Anil Kumar Khajuria (67655Y), Arty
Sudhanshu Khurana (67616A), Inf	Narendra Singh (67656F), Inf
Vikas Panwar (67617H), Arty	Anil Kumar Pandey (67658M), Inf
Rishu Goyal (67618L), AAD	Vivek SV (67659P), Arty
Om Prakash Chamola (67619N), Arty	Manoj Sehrawat (67660K), Int
Gandikota VV Rama Santosh Kiran (67620H), Inf	Aman Yadav (67661M), AC
Gaurav Yadav (67621L), Inf	Alok Kumar (67662P), AAD
Manish Narwal (67622N), Inf	Ravinder Singh (67664A), Inf
Prashant Singh Thakur (67623W), Inf	K. Makesh Kumar Naidu (67665H), Inf
Vijay Dhaka (67624Y), ASC	Sandeep Kumar Dubey (67666L), Inf
Sanjeev Singh (67625F), Mech	Karthik U (67667N), Inf
Deepak Chhajta (67626K), AC	Bhanu Pratap Singh Rathore (67668W), AAD
Shailendra Singh Shekhawat (67627M), Mech	Sandeep Bajwa (67669Y), AC
Abhimaan Pattar (67628P), Inf	Nareesh Sharma (67670N), Arty
Karan Karir (67629X), Inf	Maneesh Gusain (67671W), Inf
Rounendra Singh (67630M), Arty	Neelesh Bhardwaj (67672Y), Mech
Luv Gaurav Vats (67631P), Arty	Puneet Nagar (67673F), Arty
Narender Shiv Narayan Singh (67632X), Inf	Pradeep (67674K), Engrs
Abhijit Patra (67633A), Inf	Vineet Choudhary (67675M), Inf
Nikhil Prakash (67634H), AAD	Rahul Raman (67676P), ASC
Dipangshu Saha (67635L), Inf	Saurabh Tripathi (67677X), Mech
Jadhav Nikhil Vijay (67636N), ASC	Vishal Malik (67678A), Engrs
Sharad Negi (67637W), Inf	Amit Misra (67679H), AC
Rahul Singh (67638Y), AOC	Joshy Joseph (67680X), Inf
Jitender Raturi (67639F), Inf	Chaskar Prashant Gulabrao (67681A), AC
Piyushpani Pandey (67640W), Int	Abhinav Datta (67682H), Arty

Manoj Uniyal (67683L), Inf
 Karan Veer (67684N), Meeh
 Vishal Singh Rathore (67685W), Arty
 Punarnaba Chakrabarti (67686Y), Inf
 Dhushyant Chauhan (67687F), AAD
 Lalit Singh Bisht (67688K), AOC
 Puneet Bhardwaj (67689M), AOC
 Shreesh Pandey (67690F), Inf
 Kapil Varshney (67691K), Inf
 K Jaya Kumar (67692M), Inf
 Akash Khattri (67693P), Inf
 Dushyant Arora (67694X), Inf
 Agni Pradhan (67695A), Inf
 Neeraj Nautiyal (67696H), Sigs
 Vijay Jalneela (67697L), EME
 Sandeep Kumar Bhattacharya (67698N), Arty
 Mohit Goswami (67700A), Inf
 Karthick Rajendran (67701H), Int
 Ashish Chitale (67702L), Arty
 Vivek Tiwari (67703N), AAD
 Jaspal Singh Negi (67704W), ASC
 Sunny Rathee (67705Y), Inf
 Abhimanyu Sharma (67706F), Sigs
 Pushpendra Singh Parihar (67708M), Inf
 Gajendra Mohan Singh Khatri (67709P), Arty
 Sukesh Sur (67710K), Arty
 Sunil Dutt (67711M), Sigs
 Anil Kumar Upadhyay (67712P), AAD
 Naveen Kumar Jha (67713X), AC
 Ramendra Kumar Singh (67714A), Inf
 Harsh Tomar (67715H), Inf
 Manish Yadav (67716L), EME
 Nependra Singh (67717I), Arty
 Amit Kumar Sharma (67718W), Inf
 Devendra Padhiary (67719Y), Inf
 Tuhin Joshi (67720N), AC
 Kumar Ashish Sunil (67721W), Inf
 Anshul Verma (67722Y), AAD
 Praveen Nirola (67723F), Inf

Abhishek Duseja (67724K), AOC
 Avesh Udhai Pal (67725M), EME
 Rahul Mehta (67726P), Inf
 Vijay S Ahlawat (67727X), Inf
 Ravi Shankar (67728A), ASC
 Fahd Enayath (67729H), Inf
 M Sajin (67731A), Arty
 Sandeep Kumar Tomar (67732H), Engrs
 Ragul P (67733L), Arty
 Shiraj Singh (67734N), Meeh
 Ashish Sharma (67735W), Inf

CHANDER SHEIKHAR
 Lt Col
 AMS 8B

DEFENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT ORGANISATION

No. 641, dated 6th December 2006—The President is pleased to make the following appointment :—

Shri Deepak Kothari to be temporary Scientist 'D' on probation for one year in TBRL, Chandigarh with effect from 27 Jul 2005 (F/N) in the pay scale of Rs. 12,000-375-16,500.

P. SARATH
 Jt. Dir. (Pers.)

COAST GUARD HEADQUARTERS

No. 642, dated 5th December 2006—The President is pleased to appoint the following as Assistant Commandant (GD/Tech) in Coast Guard with effect from the date indicated against each :—

GENERAL DUTY

Name	Appointment	Date of joining	Personal No.
1	2	3	4
S/Shri MVN Abhishek Rao	Appointed as Assistant Comdt (GD/PN) in the Pay Scale of Rs. 8000-275-13500/- on probation of two years	27 Jun 05	0647-S

1	2	3	4
Shri			
Deepak Kumar Lama	Appointed as Assistant Comdt (GD/PN) in the Pay Scale of Rs. 8000-275-13500/- on probation of two years	27 Jun 05	0648-V
Tarun Dutt Pandey	-do-	-do-	0649-X
Manish Kumar	-do-	-do-	0650-C
Motilal	-do-	09 Sep 05	0651-D
Ved Pal	-do-	-do-	0652-E
Vijendra Singh Tomar	-do-	26 Dec 05	0653-J
Vangala Venkateswar Reddy	-do-	-do-	0654-L
G Mani Kumar	-do-	-do-	0655-M
Atul Kumar Agrawal	-do-	-do-	0656-P
O Marjit Singh	-do-	-do-	0657-Q
Abhik Chakraborty	-do-	-do-	0658-S
Abhimanyu Singh Chouhan	-do-	-do-	0659-V
Chandan Kumar Singh	-do-	-do-	0660-X
Sandesh Prabha KJ	-do-	-do-	0661-C
Sunil Dutt	-do-	-do-	0662-D
TECHNICAL			
Vikas Kapoor	Appointed as Assistant Comdt (Tech) in the Pay Scale of Rs. 8000-275-13500/- on Probation of two years	27 Jun 05	5090-Q
CR Hari Kumar	-do-	-do-	4138-D
Girish Arya	-do-	-do-	4139-E
Karamjeet Singh	-do-	-do-	5091-S
Vinod Kumar NB	-do-	09 Sep 05	4140-J
Vikas Rathi	-do-	26 Dec 05	4141-L
D Jaya Kumar	-do-	-do-	4142-M
Pradeep Kumar Jena	-do-	-do-	4143-P
Pradip Roy	-do-	-do-	4144-Q
Deepak Gosain	-do-	-do-	5092-V
Ajab Singh Tanwar	-do-	-do-	5093-X
Jeevan Singh	-do-	-do-	5094-C
Kuldeep Kumar Gupta	-do-	-do-	5095-D

VK TIWARY
Dir. (Navy-II)

AIR BRANCH

No. 643, dated 6th December 2006--The President is pleased to grant Permanent Commission (on probation) to the undermentioned officers wef the date mentioned against their names under the provisions of AFO 59/98.

INDIAN AIR FORCE

Ex-Flt Cdts to be Fg Offr

ADMINISTRATIVE BRANCH

Fg Offr Purushothaman Maruda Mariappan (28225), Sharma Suraj Kumar Harikant (28226), Vikas Chaudhary (28227), Sagar Bhardwaj (28228), Dhan Mohan Singh (28229), Jagat Behari Dash (28230), Ashish Kakkar (28231), Paritosh Kumar Singh (28232), Kangeyam Hanumantharao Nagarajan (28233), Manish Chandra (28234), Devendra Singh (28235), Dipak Kumar Chaube (28236), Gaurav Kapil (28237), Chinmoy Sanyal (28238), J Srinivas (28239), Palash Ghosh (28240), Pankaj Kumar Shah (28242), Shirke Vivek Vasant (28243), Krishna Kumar PN (28244), Kodidala Hari Prasad (28245), Durga Shankar Das (28246) wef 18 Dec 04.

LOGISTICS BRANCH

Fg Offr Brajesh Kumar (28247), Malekudy George Stephen (28248), Vijendra Kumar Verma (28249), Saurabh Kumar (28250), Jayanta Kumar Patra (28251), Pradeep Kumar (28252) wef 18 Dec 04.

ACCOUNTS BRANCH

Fg Offr Satheesan Varakkandi (28253), Kumaran Mania Raja (28254), Ramakrishnan Kaippilly (28255), Sunil Gupta (28256), Chandrasekhara Bijukumar (28257), Seera Srinivas Sridhar (28258) wef 18 Dec 04.

METEOROLOGICAL BRANCH

Fg Offr Surendra Singh (28259), Prashanth BS (28260) wef 18 Dec 04.

The President is pleased to grant Provisional Short Service Commission to the undermentioned U/T officer wef the date mentioned against her name under the provisions of Govt of India, Min of Def letter No. Air HQ/S 24745/4/PP(O)/PC-I/184/DS/D (Air-III) dated 23 Apr 01.

INDIAN AIR FORCE

METEOROLOGICAL BRANCH

Fg Offr Reshma P Patil (27937) wef 05 Jan 04.

The President is pleased to terminate the Provisional Short Service Commission and grant Short Service Commission (on probation) to the undermentioned U/T officer wef the date mentioned against her name under the provisions of Govt of India, Min of Def letter No. Air HQ/S 24745/4/PP(O)/PC-I/184/DS/D (Air-III) dated 23 Apr 01.

INDIAN AIR FORCE

U/T Offr to be Fg Offr

METEOROLOGICAL BRANCH

Fg Offr Reshma P Patil (27937) wef 18 Dec 04.

The President is pleased to grant Provisional Short Service Commission to the undermentioned officers wef the date mentioned against their names under the provisions of Govt of India, Min of Def letter No. Air HQ/S 24745/4/PP(O)/PC-I/184/DS/D(Air-III) dated 23 Apr 01.

INDIAN AIR FORCE

Ex-Flt Cds to be Fg Offr

ADMINISTRATIVE BRANCH

Fg Offr Nishtha Suhag (28264), Pooja Misra (28265), Jaya Gautam (28266), Shweta Choudhry (28267), Aparna Bist (28268), Sargam Tatwawadi (28269), Soumya V (28270), Suganya Kamatchi Ponnann (28272), Shikha Sharma (28273), Atma Tripathi (28274), Sanku Bharati (28276), T Mukila (28277), Ranjana Saini (28278), Grace Nirmala (28279), Meena Arora (28280), Anudeepti (28281), Lekshmi Sobhana (28282), Kulkarni Vrushali Deepak (28283), B Suba Vandana (28284), Dhanasree Puthiya Veetil (28285) wef 18 Dec 04, Antara Dey Chowdhury (28294) wef 17 Jan 05.

LOGISTICS BRANCH

Fg Offr Bhavna Mittal (28286), Abhilasha Srivastava (28287), Sarah Cleventine (28288), R Scindia (28289), Dhupal Pallavi Sudhir (28290) wef 18 Dec 04.

ACCOUNTS BRANCH

Fg Offr Mishra Lalita Akhilesh S (28291) wef 18 Dec 04.

EDUCATION BRANCH

Fg Offr Priya Joshi (28292) wef 18 Dec 04.

The President is pleased to award Permanent Commission and Wings (on Probation) to the undermentioned flight cadets in the rank of Fg Offr under the provisions of AFO 59/98. These officers will be eligible for grant of flying pay with effect from the date of grant of PC & Wings (On Probation) i.e. 18 Dec 04.

INDIAN AIR FORCE

FLYING (PILOT) BRANCH

Ex-Flight Cadets to be Flying Officers

Fg Offr Abhay Kumar Singh (28169), Varinder Saini (28171), Nikhil Kumar Rath (28172), Sagili Sai Kiran (28173), Varun Fauzdar (28174), Ankit Raj Singh (28175), Rohit Singh (28176), Gurpreet Singh Dhillon (28177), Shubhankan (28178), Vaibhaw Vishal (28179), Ranjeet Singh Sidhu (28181), Prashant Uniyal (28182), Prashant Singh Negi (28183), Karan Kapoor (28184), Nimish Maheshwari (28185), Dhruv Kumar (28186), Ravi Raj Khatri (28187), Sandeep Ranwa (28189), Yogesh Sharma (28194), Atul Anand (28195), M Surendran (28197), Virender Khatri (28199), Angad Pratap (28200), Dheeraj Ahlawat (28201),

Gautam Singh (28204), Maneesh (28205), Rohan Bisht (28206), Chethan CJ (28207), Gaurav Kundalia (28209), Navrender Kanwar (28210), Abhishek Singh Tanwar (28211), Ajay Chauhan (28213), Sunil Gartia (28214), Karan Shirish Deo (28215), Abrar Asagar Moulavi (28217), Ashish Kapoor (28218), Sayantan Chakravarty (28219), Sansar (28220), Harmeet Talwar (28221), Parikshit Hastekar (28223), Sumedh Ashok Jamkar (28224) wef 18 Dec 04.

The President is pleased to award Permanent Commission and Wings (On Probation) to the undermentioned flight cadets in the rank of Fg Offr under the provisions of AFO 59/98. The officers will be eligible for grant of flying pay with effect from the date of grant of PC & Wings (On Probation) i.e. 19 Jun 04.

INDIAN AIR FORCE

FLYING (PILOT) BRANCH

Ex-Flight Cadets to be Flying Officers

Fg Offr Niranjana Acharya (28025) wef 19 Jun 04.

The President is pleased to grant Provisional Short Service Commission and Wings to the undermentioned officers in the rank of Fg Offr wef the dates mentioned against their names under the provisions of Govt. of India, Ministry of Defence letter No. Air HQ/S 24745/4/PP(O)/PC-I/184/DS/D(Air-III) dated 23 Apr 01. These officer are eligible for flying pay wef the dates of grant of PSSC & Wings i.e. 18 Dec 04.

INDIAN AIR FORCE

FLYING (PILOT) BRANCH

Ex-flight Cadets to be Flying Officers

Fg Offr Vyomika Singh (28261), Tima Mathew (28262), Madhura Ashok Warnekar (28263) wef 18 Dec 04.

The President is pleased to award Permanent Commission and Brevets (On Probation) to the undermentioned flight cadets in the rank of Fg Offr under the provisions of AFO 59/98. These officers will be eligible for grant of flying pay with effect from the date of grant of PC & Brevets (On Probation) i.e. 18 Dec 04.

INDIAN AIR FORCE

FLYING (NAVIGATOR) BRANCH

Ex-Flight Cadets to be Flying Officers

Fg Offr Kumar Vikram Singh Baghel (28170), Devender Boora (28180), Deepak Kumar Dehury (28193), Mohit Chauhan (28196), Ayush Rawat (28202), Vikas Tayal (28203), Vikrant Singh Jamwal (28216), Rajneesh Chand Katoh (28222) wef 18 Dec 04.

The President is pleased to terminate the Provisional Short Service Commission granted to the undermentioned officers and grant them Permanent Commission (On Probation) in the rank of Fg Offr wef the date mentioned against their names under the provisions of AFO 59/98.

INDIAN AIR FORCE

U/T Officers to be Fg Offr

METEOROLOGICAL BRANCH

Fg Offr Murali Krishna (27935), Nidumanda Sandesh Appaiah (27936) wef 18 Dec 04.

The President is pleased to award Provisional Short Service Commission to the undermentioned U/T officers wef the date mentioned against their names under the provisions of AFO 59/98.

INDIAN AIR FORCE

MET BRANCH

Fg Offr Murali Krishna (27935), Nidumanda Sandesh Appaiah (27936) wef 05 Jan 04.

S. SRIVASTAV
Wg Cdr
JDPO-3(D)

AIR BRANCH

No. 644, dated 6th December 2006—The President is pleased to confirm the undermentioned officers wef the date stated against his name who granted permanent commission (on probation).

INDIAN AIR FORCE

FLYING (PILOT) BRANCH

Fg Offr Niranjan Acharya (28025) wef 19 Jun 2004

S. SRIVASTAV
Wg Cdr
JDPO-3(D)

(ARMY BRANCH)

No. 645, dated 1st December 2006—The President is pleased to make the following promotions.

(REGULAR ARMY)

ARMY MEDICAL CORPS

To be Substantive Subedar Major (Ambulance Assistant)

Sub Dalip Singh Meel (JC-692731H), 01 Feb 2006

To be Substantive Subedar (Ambulance Assistant)

Nb Sub Indraj Kumar (JC-694311F), 01 Sep 2005

Nb Sub Binod Kumar Singh (JC-694347A), 01 Jan 2006

Nb Sub Jita Ram (JC-694476A), 01 Jan 2006

Nb Sub Gaikwad Baban Jairam (JC-694486K), 01 Jan 2006

Nb Sub Gama Prasad Yadav (JC-694488P), 01 Feb 2006

Nb Sub Lekh Raj (JC-694489K), 01 Feb 2006

Nb Sub Sada Nand Ray (JC-694490M), 01 Feb 2006

Nb Sub Ram Chandra Thakur (JC-694491P), 01 Feb 2006

Nb Sub Deb Singh Bisht (JC-694503P), 01 Feb 2006

Nb Sub Chandra Mohan (JC-694492X), 01 Feb 2006

Nb Sub Lal Babu Thakur (JC-694493A), 01 Feb 2006

Nb Sub Mangade Ankush Hariba (JC-694494H), 01 Feb 2006

Nb Sub Gagan Bihari Aich (JC-694496N), 01 Feb 2006

Nb Sub Sashi Kumar Singha (JC-694497W), 01 Feb 2006

Nb Sub Madan Lal (JC-694498Y), 01 Feb 2006

Nb Sub Vishnubir Thapa (JC-694504F), 01 Feb 2006

Nb Sub Bhaskar E (JC-694499F), 01 Feb 2006

Nb Sub Akshaya Kumar Jena (JC-694500L), 01 Feb 2006

Nb Sub Mirza Khoshnabi (JC-694501N), 01 Feb 2006

Nb Sub Jagdev Singh (JC-694565Y), 01 Feb 2006

Nb Sub Bharat Choudhary (JC-694566F), 01 Feb 2006

Nb Sub Jay Gopal Ray (JC-694567K), 01 Feb 2006

Nb Sub Ashok Kumar (JC-694568M), 01 Feb 2006

Nb Sub Chhotu Ram (JC-694338Y), 01 Mar 2006

Nb Sub Prabhakar Singh (JC-694569P), 01 Mar 2006

Nb Sub A Rajappan (JC-694571M), 01 Mar 2006

Nb Sub Nagarajan P (JC-694572P), 01 Mar 2006

Nb Sub Prabeen Kumar Dhadwal (JC-694573X), 01 Mar 2006

Nb Sub Virender Singh (JC-694703P), 01 Mar 2006

Nb Sub Santosh Kumar Pathak (JC-694574A), 01 Mar 2006

Nb Sub Rameshwar Thakur (JC-694575H), 01 Mar 2006

Nb Sub Sewa Singh (JC-694576L), 01 Mar 2006

Nb Sub Probodh Kumar Dhar (JC-694577N), 01 Mar 2006

Nb Sub G Uggi Naidu (JC-694704X), 01 Mar 2006

Nb Sub Jaya Prakash PK (JC-694705A), 01 Mar 2006

Nb Sub M Vijayan (JC-694706H), 01 Mar 2006

Nb Sub Manoharan M (JC-694707L), 01 Jun 2006

Nb Sub Mahendar Kumar (JC-694708L), 01 Jun 2006

Nb Sub Madan Lal (JC-694710L), 01 Jun 2006

Nb Sub Balwant Singh (JC-694765P), 01 Jun 2006

Nb Sub Raj Nath Raj (JC-694767A), 01 Jun 2006

Nb Sub Sumil Kumar Singha (JC-694816X), 01 Jun 2006

Nb Sub Nandji Dubey (JC-694768H), 01 Jun 2006

Nb Sub Rathava Maliya Bhai Bhuna Bhai (JC-694817A),
01 Jun 2006

To be Substantive Subedar (Driver MT)

Nb Sub Pahilwan (JC-694602F), 01 Mar 2006

Nb Sub Udeyvir Singh (JC-694712W), 01 Jun 2006

Nb Sub Dinesh Rai (JC-694603X), 01 Jun 2006

Nb Sub A Fsakki Doss (JC-694604M), 01 Jul 2006

Nb Sub Karambir (JC-694770A), 01 Jul 2006

Nb Sub Srinivas Singh (JC-694772L), 01 Jul 2006

Nb Sub Rajender Prasad Gupta (JC-694821H), 01 Jul 2006

To be Naib Subedar (Ambulance Assistant)

Hav Chaman Lal (No. 13951332H now JC-695569F),
09 Jul 2006*

*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef
01 Oct 2005 without effect on pay and allces).

Hav Ganpat Ram (No. 13952729F now JC-695332K),
10 Feb 2006*

*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef
01 Jan 2006 without effect on pay and allces).

Hav Bijoy Kumar Biswas (No. 13950318K now JC-695527P),
22 Mar 2006*

Hav Mahadeo Oraon (No. 13951057N now JC-695372L),
13 Mar 2006*

Hav Niyaran Palras Nag (No. 13950678A now JC-695360W),
08 Mar 2006*

Hav Hara Kumar Deb Barma (No. 13952238L now JC-
695393F), 14 Mar 2006*

Hav Bashir Khan (No. 13952628N now JC-695394K),
20 Mar 2006*

Hav Fakir Razzak Melhtab (No. 13952824N now JC-
695333M), 20 Feb 2006*

Hav Surendra Prasad Rai (No. 13952869N now JC-695344Y),
03 Mar 2006*

Hav Siva Sankara Pillai V (No. 13952897A now JC-695373N),
20 Mar 2006*

Hav Ram Bhawan Gosowami (No. 13952906W now JC-
695334P), 18 Feb 2006*

Hav Jai Ram (No. 13952925F now JC-695335X), 13 Feb 2006*

Hav Ranjit Kumar Ray (No. 13952956F now JC-695336A),
06 Feb 2006*

Hav Prit Pal (No. 13952946X now JC-695361Y), 23 Feb 2006*

Hav R Ramachandran (No. 13952952L now JC-695345F),
25 Feb 2006*

Hav Virendra Singh (No. 13952983L now JC-695346K),
20 Feb 2006*

Hav Mehar Singh (No. 3380527F now JC-695362F), 07 Mar
2007*

Hav Bam Deo Tiwari (No. 13952990F now JC-695347M),
22 Feb 2006*

Hav Dagadu Babu Rao Patil (No. 13953157K now JC-
695363K), 03 Mar 2006*

Hav Chandrappa N (No. 13953382M now JC-695364M),
06 Mar 2006*

Hav Sukhlai Vaish (No. 13953385A now JC-695348P),
02 Mar 2006*

Hav Vinod Kumar Pandey (No. 13953388N now JC-
695349X), 28 Feb 2006*

Hav Surendra Kumar Mishra (No. 13953436H now JC-
695350M), 26 Feb 2006*

Hav Sidhnath Paswan (No. 13953432M now JC-695459M),
27 Feb 2006*

Hav Rajendra Prasad Harijan (No. 13953440L now JC-
695337H), 18 Feb 2006*

Hav Hanumanthu Rama Krishna Rao (No. 13953446M now
JC-695351P), 23 Feb 2006*

*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Feb
2006 without effect on pay and allces).

Hav Manje Gowda MT (No. 13953483A now JC-695374W),
16 Mar 2006*

Hav Sreekantan Nair B (No. 13953523W now JC-695365P),
09 Mar 2006*

Hav Debendra Narain Singh (No. 13952381X now JC-
695375Y), 13 Mar 2006*

Hav Ramkrishna Mandal (No. 13953466A now JC-
695395M), 31 Mar 2006*

Hav S Pushparaj (No. 13953529X now JC-695376F), 13 Mar
2006*

Hav Dilip Kumar Singha (No. 13953534H now JC-695396P),
24 Mar 2006*

Hav Machavaram Venkata Rangaiah (No. 13953537W now
JC-695377K), 09 Mar 2006*

Hav Ram Bibek Thakur (No. 13953490W now JC-695460W),
14 Apr 2006*

Hav Magdulla Prasad (No. 13953494M now JC-695397X),
15 Mar 2006*

*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Mar
2006 without effect on pay and allces).

Hav Bhanu Pratap (No. 13953511F now JC-695398A),
01 Apr 2006*

Hav Ratna Kanta Bora (No. 13953501X now JC-695399H),
03 Apr 2006*

Hav Maruti Jayawant Khot (No. 13953570N now JC-695461K), 01 Apr 2006*

*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Apr 2006 without effect on pay and Allces).

Hav Ramesh Chand (No. 13952482L now JC-695528X), 20 May 2006*

Hav Jitendra Ch Das (No. 13953583L now JC-695529A), 27 May 2006*

Hav Bijay Pandey (No. 13953614A now JC-695532A), 01 Jun 2006*

*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 May 2006 without effect on pay and Allces).

Hav Radhe Shyam (No. 13953625M now JC-695567W), 05 Jun 2006*

Hav Rajender Singh (No. 13953624K now JC-695533H), 01 Jun 2006*

Hav Major Singh (No. 3381343P now JC-695534L), 01 Jun 2006*

Hav Girija Shankar (No. 13953621W now JC-695530P), 01 Jun 2006*

*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Jun 2006 without effect on pay and Allces).

Hav Jaleshwar Rai (No. 13952909K now JC-695593X), 26 Jul 2006*

Hav Suresh Chandra Yadav (No. 13952927M now JC-695570W), 10 Jul 2006*

*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 11 Jun 2006 without effect on pay and Allces).

Hav Raj Narayan Ray (No. 13953389W now JC-695624M), 12 Sep 2006*

Hav Nagendra Kumar (No. 13953635W now JC-695625P), 23 Aug 2006*

Hav Rajender Prasad Nadia (No. 13953634N now JC-695594A), 29 Jul 2006*

Hav Narayan Singh (No. 13953644X now JC-695595H), 31 Jul 2006*

Hav Shiva Shankar Navik (No. 13953641K now JC-695596L), 05 Aug 2006*

Hav Vinod Kumar Bhatt (No. 13953632H now JC-695597N), 05 Aug 2006*

*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Jul 2006 without effect on pay and Allces).

Hav Bhana Ram (No. 13953477M now JC-695598W), 14 Aug 2006*

Hav Surendra Singh (No. 13953674P now JC-695599Y), 31 Aug 2006*

Hav Kasindra Yadav (No. 13953680H now JC-695600H), 01 Aug 2006*

*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Aug 2006 without effect on pay and Allces).

Hav Madan Pal Sharma (No. 13951632K now JC-695343W), 15 Feb 2006*

*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 13 Nov 2005 without effect on pay and Allces).

Hav Shiv Pujan Rout (No. 13951203H now JC-695400M), 24 Mar 2006*

Hav Sudhir Prasad Singh (No. 13951204L now JC-695462M), 20 Apr 2006*

Hav Patole Bharat Tukaram (No. 13952632W now JC-695401P), 01 Apr 2006*

*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 22 Jan 2006 without effect on pay and Allces).

Hav Prabhakar Tukaramji Lawhale (No. 13954716H now JC-695568Y), 20 Apr 2006*

Hav Param Hans Singh (No. 13954745X now JC-695531X), 01 Apr 2006*

*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 02 Apr 2006 without effect on pay and Allces).

Hav Rajender Singh (No. 13954473H now JC-695601N), 12 Aug 2006*

Hav Sasadhar Deshmukh (No. 13954242M now JC-695602N), 31 Jul 2006*

*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 11 Jun 2006 without effect on pay and Allces).

To be Naib Subedar (N Asst)

Hav Kunwar Singh Pal (No. 13956578L now JC-695109A), 01 May 2005*

*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 May 2005 without effect on pay and Allces).

Hav Naresh Kumar (No. 13956636K now JC-695110P), 01 Aug 2005*

Hav Babu Sharma (No. 13956761N now JC-695175H), 01 Aug 2005*

Hav Shri Kishan (No. 13956988F now JC-695182Y), 01 Aug 2005*

Hav Uttar Kumar Rai (No. 13955610H now JC-695402X), 01 Aug 2005*

*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Aug 2005 without effect on pay and Allces).

Hav Ram Prasad Pal (No. 13956476P now JC-695302M), 01 Oct 2005*

Hav Uttam Kumar Deb (No. 13956765K now JC-695303M), 01 Oct 2005*

Hav Manohar Singh Rathour (No. 13953833F now JC-695315K), 01 Oct 2005*

*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Oct 2005 without effect on pay and Allces).

Hav Mohammad Sagir (No. 13957100A now JC-695266M), 01 Nov 2005*

Hav Gulab Singh (No. 13957104W now JC-695267P), 01 Nov 2005*

Hav Mahender Singh (No. 13957152W now JC-695268X), 01 Nov 2005*

*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Nov 2005 without effect on pay and Allces).

To be Nb Sub (N Asst)

Hav Motilal Varma (No. 13957178L now JC-695269A), 01 Dec 2005*

Hav Suresh Chand (No. 13957194H now JC-695270P), 01 Dec 2005*

*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Dec 2005 without effect on pay and Allces).

Hav Ramesh Chand (No. 13957298K now JC-695316M), 01 Jan 2006*

Hav Surender Kumar (No. 13957320K now JC-695403A), 01 Jan 2006*

Hav Sher Singh Yadav (No. 13957429K now JC-695317P), 01 Jan 2006*

Hav Satyawar (No. 13957417P now JC-695359F), 01 Jan 2006*

*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Jan 2006 without effect on pay and Allces).

Hav Ajay Kumar (No. 13957413Y now JC-695458K), 01 Feb 2006*

Hav Rajender Singh (No. 13957419A now JC-695416X), 01 Feb 2006*

Hav Lal Dhar Ram (No. 13957426W now JC-695404H), 01 Feb 2006*

Hav Shrikant Yadav (No. 13957465P now JC-695496A), 01 Feb 2006*

Hav Chain Singh (No. 13952605M now JC-695417A), 01 Feb 2006*

Hav Umed Singh Rawat (No. 13956831F now JC-695418H), 01 Feb 2006*

*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Feb 2005 without effect on pay and Allces).

Hav Sushant Kumar Behra (No. 13956994P now JC-695419L), 02 Feb 2006*

*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 02 Feb 2005 without effect on pay and Allces).

Hav Ashok Kumar Jena (No. 13957275H now JC-695420A), 01 Mar 2006*

Hav Satyapal Singh (No. 13957432K now JC-695405L), 01 Mar 2006*

Hav Ved Pal (No. 13957454H now JC-695459X), 01 Mar 2006*

Hav Arun Kumar Sharma (No. 13957495M now JC-695421H), 01 Mar 2006*

Hav Ram Phal (No. 13957494K now JC-695422L), 01 Mar 2006*

Hav Ram Avtar (No. 13957450M now JC-695423N), 01 Mar 2006*

*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Mar 2006 without effect on pay and Allces).

Hav Subhash Chand Sharma (No. 13957150L now JC-695490L), 10 Mar 2006*

*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 10 Mar 2006 without effect on pay and Allces).

Hav Girdhari Lal (No. 13957361N now JC-695560M), 01 Apr 2006*

Hav Asoka Kumar KG (No. 13957393W now JC-695424W), 01 Apr 2006*

Hav Kailash Bihari Sharma (No. 13957380Y now JC-695491F), 01 Apr 2006*

Hav Rohtas Singh (No. 13957455L now JC-695497H), 01 Apr 2006*

Hav Chauhal Singh (No. 13957376W now JC-695561P), 01 Apr 2006*

Hav Jaswant Singh (No. 13957511Y now JC-695425Y), 01 Apr 2006*

Hav Reji A (No. 13957397M now JC-695538F), 01 Apr 2006*

Hav Mohanan Pillai C (No. 13957398P now JC-695441W), 01 Apr 2006*

Hav Krishna Kurup MR (No. 13957387H now JC-695562X), 01 Apr 2006*

Hav Sree Kumar R (No. 13957394Y now JC-695492K), 01 Apr 2006*

*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Apr 2006 without effect on pay and Allces).

Hav Radhe Shyam Kushwaha (No. 13957496P now JC-695493M), 01 Apr 2006*

Hav Rajendra Singh (No. 13957386A now JC-695563A), 01 Apr 2006*

Hav Satpal Singh (No. 13957452X now JC-695603W), 01 Apr 2006*

Hav Pintu Kumar Biswas (No. 13957476F now JC-695565L), 01 Apr 2006*

Hav Gorakh Nath Yadav (No. 13957473N now JC-695494P),
01 Apr 2006*

Hav Manoj Kumar Singh (No. 13957517A now JC-695564H), 01 Apr 2006*

Hav Virender Kumar (No. 13957520A now JC-695463P),
01 Apr 2006*

Hav Tirthraj Singh (No. 13957521H now JC-695442Y),
01 Apr 2006*

Hav Ishwar Singh (No. 13957518H now JC-695495X),
01 Apr 2006*

Hav Atar Mohmad (No. 13957526F now JC-695535N),
01 Apr 2006*

Hav Mahesh Kumar (No. 13957525Y now JC-695498L),
01 Apr 2006*

Hav Jaivir (No. 13957557F now JC-695604Y), 01 Apr 2006*

*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Apr 2006 without effect on pay and Allces).

Hav Ranjan Kumar Parida (No. 13957605W now JC-695566N), 01 May 2006*

Hav Satish Kumar (No. 13957593M now JC-695605F),
01 May 2006*

*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 May 2006 without effect on pay and Allces).

Hav Madusudhanan S (No. 13957392N now JC-695571Y),
25 May 2006*

*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 25 May 2006 without effect on pay and Allces).

Hav Manwar Singh (No. 13957632A now JC-695536W),
01 Jun 2006*

Hav Mohinder Singh (No. 13957658P now JC-695539K),
01 Jun 2006*

Hav Ram Moorat (No. 13957668Y now JC-695537Y),
01 Jun 2006*

*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Jun 2006 without effect on pay and Allces).

Hav Satyadeo Singh (No. 13957679L now JC-695606K),
01 Jun 2006*

Hav Ashok Kumar (No. 13957691M now JC-695572F),
01 Jun 2006*

Hav Ram Awtar Singh Prajapati (No. 13957692P now JC-695540Y), 01 Jun 2006*

*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Jun 2006 without effect on pay and Allces).

R.C. Raturi
Under Secy.

No. 646, dated 4th December 2006—The President is pleased to make the following promotion :—

REGULAR ARMY

REGIMENT OF ARTILLERY

To be Substantive Subedar (GD)

Nb Sub Nawab Singh (JC-265686K), 09-Aug 2006/01 Aug 2006*

Nb Sub Jagat Singh (JC-266045K), 01 Jun 2006

Nb Sub Balam Singh (JC-264679F), 10 Jul 2006/11 May 2006*

Nb Sub Jai Bhagwan (JC-262835F), 10 May 2006/01 Jan 2006*

Nb Sub Ved Prakash (JC-265258L), 14 Feb 2006/01 Feb 2006*

Nb Sub Surendra Singh (JC-264521Y), 12 Mar 2006/01 Feb 2006*

Nb Sub Rattan Chand (JC-264373Y), 05 Apr 2006/01 Feb 2006*

Nb Sub Brij Lal Kapoor (JC-264914P), 01 Dec 2005

Nb Sub P Srinivasan (JC-264473K), 08 Apr 2006/01 Feb 2006*

Nb Sub A Murugaraj (JC-265025K), 20 Jun 2006/01 Feb 2006*

Nb Sub Unnikrishnan KK (JC-265956N), 20 Jun 2006/
07 Apr 2006*

Nb Sub Pokar Mal (JC-265671K), 22 Jul 2006/01 Jun 2006*

Nb Sub Amma Rao Appikatla (JC-265181N), 15 May 2006/
07 Apr 2006*

Nb Sub Patle Tirthraj Duli (JC-265394F), 28 Aug 2006/
01 Jun 2006*

Nb Sub Shinde Khandu Devram (JC-265395K), 01 May 2006/
01 Feb 2006*

Nb Sub Ramesh Chander (JC-266033P), 29 May 2006/
01 Mar 2006*

Nb Sub Rajan Babu M (JC-264944M), 16 Jun 2006/01 Apr 2006*

Nb Sub Subhash Singh (JC-266164A), 30 May 2006/01 Apr 2006*

Nb Sub Satish Chandra Tiwari (JC-265057M), 07 Jun 2006/
01 Mar 2006*

Nb Sub Ashok Prasad (JC-266261X), 11 Feb 2006/01 Feb 2006*

Nb Sub Narinder Singh (JC-264458P), 28 Apr 2006/01 Feb 2006*

Nb Sub Mahendra Singh (JC-264688H), 26 Jun 2006/01 Mar 2006*

Nb Sub Jagtap Deelip Kautik (JC-264733X), 23 Feb 2006/01 Feb 2006*

Nb Sub Sarwan Kumar Rana (JC-265681L), 01 Feb 2006

Nb Sub Dinesh Prasad Singh (JC-264971W), 30 Jun 2006/01 Apr 2006*

Nb Sub Ram Kishan (JC-266855M), 04 Sep 2006/01 Aug 2006*

Nb Sub Anand Kumar Tewari (JC-267269W), 04 Sep 2006/01 Sep 2006*

Nb Sub Balkrishan Sharma (JC-266078P), 16 Feb 2006/01 Feb 2006*

Nb Sub Bijendera Kumar (JC-264837L), 05 Jun 2006/01 Apr 2006*

Nb Sub Balkeshwar Singh Yadav (JC-264544A), 01 Jul 2006/01 Mar 2006*

Nb Sub Ram Nath (JC-263825K), 18 Jan 2006/01 Dec 2005*

Nb Sub Dalim Kumar Singha (JC-262256P), 30 May 2006/01 Apr 2006*

Nb Sub Ramchandran BP (JC-265127A), 05 Oct 2006/01 Jun 2006*

Nb Sub Trailanga Mukherjee (JC-265846Y), 30 May 2006/06 May 2006*

Nb Sub Surmukh Singh (JC-265633L), 28 May 2006/01 May 2006*

Nb Sub Shri Nivas Dhage (JC-264340N), 16 Jun 2006/01 Feb 2006*

Nb Sub Jadhav Anandrao Shankar (JC-264822H), 13 Jul 2006/01 Feb 2006*

Nb Sub Ambre Ravindra Bhagoji (JC-266035A), 28 Dec 2005/01 Nov 2005*

Nb Sub Surendran PK (JC-266063M), 10 May 2006/01 May 2006*

Nb Sub Jagdeesh K (JC-266490A), 01 Jul 2006

Nb Sub Ajaya Kumar V (JC-266034X), 17 Jul 2006/01 May 2006*

Nb Sub Dushmanta Das (JC-265945F), 24 Feb 2006/01 Aug 2005*

Nb Sub Gokul Singh Sekhawat (JC-264491M), 01 May 2006/01 Feb 2006*

Nb Sub Jhingoor Bhatt (JC-265969L), 21 Jun 2006/01 Jun 2006*

Nb Sub Ram Avtar Yadav (JC-264975M), 11 Jun 2006/01 May 2006*

Nb Sub Bhoite Dattatraya Vishnu (JC-265569Y), 01 Jun 2006

Nb Sub Sakpal Vijay Raghunath (JC-265623F), 29 Jul 2006/01 Jun 2006*

Nb Sub Anil Kumar Dash (JC-265751Y), 01 Jun 2006/14 Mar 2006*

Nb Sub Vijay Kumar Sharma (JC-264804A), 01 Apr 2006

Nb Sub Awani Kumar Mishra (JC-265182W), 11 Jul 2006/01 Apr 2006*

Nb Sub Janardanan T (JC-264586M), 03 Jul 2006/01 Apr 2006*

Nb Sub Baljit Singh (JC-262083H), 06 Mar 2006/01 Jan 2006*

Nb Sub Atma Ram (JC-266293A), 01 Feb 2006

Nb Sub M Kalidass (JC-265968H), 17 Apr 2006/01 Feb 2006*

Nb Sub Chinnadurai (JC-266071L), 25 May 2006/01 Apr 2006*

Nb Sub Anup Singh (JC-265552L), 23 Dec 2005/01 Dec 2005*

To be Nb Sub

Hav Ashok Kumar (No. 14482085P now JC-269409W), 16 May 2006/01 Feb 2006*

Hav Nand Kishore Jha (No. 14467124L now JC-269410L), 24 Apr 2006/05 Mar 2006*

Hav Param Singh (No. 14471597F now JC-269411N), 07 Jul 2006/01 Apr 2006*

Hav Bhupender Singh (No. 14368589H now JC-269412W), 08 Jul 2006/01 Apr 2006*

Hav Jarman Singh (No. 14370396F now JC-269413Y), 07 Jul 2006/01 Apr 2006*

Hav Sivadasan C (No. 14363842P now JC-269414F), 01 Apr 2006

Hav Raghu Raj Singh (No. 14492366Y now JC-269415K), 15 Jun 2006/01 Apr 2006*

Hav Shiv Shankar Singh (No. 14479578L now JC-269416M), 23 Jun 2006/07 Apr 2006*

Hav Om Kumar Dwivedi (No. 14498850F now JC-269417P), 03 Jul 2006/21 May 2006*

BHM Sukh Pal (No. 14371567P now JC-269418X), 29 Jun 2006/25 May 2006*

BHM Chandrika Prasad (No. 14474216A now JC-269419A), 10 Jul 2006/28 May 2006*

Hav Rajput Triveni Singh (No. 15103922P now JC-269420P), 03 Jun 2006/01 Jun 2006*

Hav Ram Avtar (No. 14474292M now JC-269421X), 15 Aug 2006/23 Jul 2006*

Hav Harjeet Singh (No. 14382220H now JC-269422A), 05 Aug 2006/01 Aug 2006*

Hav Chandeshwari Prasad Yadav (No. 14363198N now JC-269423H), 01 Aug 2006

Hav Shyamveer Singh (No. 14365152X now JC-269424L),
19 Aug 2006/01 Aug 2006*

Hav Bharat Chandra Mondal (No. 14455788P now JC-269393W), 03 Jul 2006/01 Sep 2003*

Hav Jabril Ahmed (No. 14465867P now JC-269394Y),
08 May 2006/01 Dec 2004*

Hav Raj Kumar (No. 14368974M now JC-269395F), 19 May
2005/06 Apr 2005*

Hav Sarbjit Singh (No. 14387126H now JC-269396K),
02 Jun 2006/01 Feb 2006*

RHM Bindeshwari Singh (No. 14389781A now JC-269397M), 23 May 2006/01 Feb 2006*

Hav Jaspal Singh (No. 14474370Y now JC-269398P), 12 Jun
2006/01 Feb 2006*

Hav Ravi Dutt (No. 14480471H now JC-269399X), 18 Mar
2006/08 Feb 2006*

BHM Amarjit Singh (No. 14472510F now JC-269400F),
09 Feb 2006

Hav Rampal (No. 14367465F now JC-269401K), 14 Jun 2006/
01 Apr 2006*

Hav Balasubramani D (No. 14486621K now JC-269402M),
05 Jun 2006/06 May 2006*

Hav Bhagat Singh (No. 14356429W now JC-269403P),
01 Aug 2006/01 Jun 2006*

Hav Durg Pal (No. 14359913N now JC-269404X), 05 Aug
2006/01 Jun 2006*

Hav Karumbaiah CN (No. 14397390K now JC-269405A),
19 Aug 2006/20 Jun 2006*

Hav Surender Singh (No. 14470644F now JC-269406H),
27 Jul 2006/04 Jul 2006*

Hav Chandeshwar Prasad Singh (No. 15109194W now JC-269407L), 01 Aug 2006

Hav Balwant Singh (No. 14481923M now JC-269408N),
01 Sep 2006

Hav Sumer Singh (No. 14379911K now JC-269362W),
28 Apr 2006/01 Feb 2006*

RHM Baloar Singh (No. 14478717X now JC-269363Y),
22 May 2006/01 Feb 2006*

Hav Yakub Ali (No. 14478101K now JC-269364F), 11 May
2006/01 Feb 2006*

Hav K Selva Raj (No. 14494464X now JC-269365K), 02 May
2006/01 Feb 2006*

Hav Kakde Namdeo Babu Rao (No. 14381966M now JC-269366M), 01 Apr 2006/17 Feb 2006*

Hav M Paulchamy (No. 14373232W now JC-269367P),
15 May 2006/01 Mar 2006*

BHM Narender Singh (No. 14390216P now JC-269368X),
23 May 2006/01 Mar 2006*

BHM Harmander Singh (No. 14397689W now JC-269369A),
23 May 2006/01 Mar 2006*

BHM Shiv Prakash (No. 14391711A now JC-269370P),
05 Jun 2006/08 Mar 2006*

BHM S Ram Nath Babu (No. 14359281N now JC-269371X),
02 May 2006/01 Apr 2006*

Hav Natter Parkash (No. 14479639X now JC-269372A),
15 May 2006/01 Apr 2006*

BHM C Soundara Pandian (No. 14490726L now JC-269373H), 22 May 2006/01 Apr 2006*

Hav Ramawatar Singh (No. 14377840P now JC-269374L),
03 Jun 2006/20 Apr 2006*

RHM Sukhdev Singh (No. 14385319K now JC-269375N),
01 Jun 2006/01 May 2006*

Hav Akhlesh Chandra Pathak (No. 14387774L now JC-269376W), 16 Jun 2006/01 Jun 2006*

Hav Ramesh Chander (No. 14493219H now JC-269377Y),
16 Jun 2006/01 Jun 2006*

*(Gtd seniority wef).

S. P. SHARMA
Under Secy.

No. 647, dated 1st December 2006—The President is
pleased to make following promotions :—

REGULAR ARMY

CORPS OF ENGINEERS

BENGAL ENGINEER GROUP

To be Substantive Sub Maj (GD)

Sub Pijush Kanti Baroi (JC-327225L), 01 Feb 2006

Sub Dolak Bahadur Mall (JC-326796X), 01 Feb 2006

Sub Jagbir Singh (JC-326962A), 01 Feb 2006

Sub Krishna Bahadur (JC-326799L), 01 Apr 2006

Sub Raj Pal Singh (JC-326899W), 01 Apr 2006

Sub Bhupinder Singh (JC-326718A), 01 May 2006

Sub Hari Datt Joshi (JC-327020W), 01 Jun 2006

Sub Sher Singh (JC-326986K), 01 Jun 2006

Sub Kulbir Singh (JC-326949W), 01 Jun 2006

Sub Mahesh Chander (JC-326989X), 01 Jul 2006

To be Substantive Sub Maj CLK (GD)

Sub Kundan Singh Negi (JC-325309A), 01 Nov 2005

Sub Anand Singh Negi (JC-325133A), 01 Jan 2006

Sub Krishna Moni Singha (JC-325137W), 01 Feb 2006
 Sub Vijay Narain Singh (JC-325192M), 01 Feb 2006
 Sub Babu Ram Azad (JC-325198N), 01 Feb 2006
 Sub Renu Pada Das (JC-325261X), 01 Feb 2006
 Sub Atul Chetia (JC-325273M), 01 Mar 2006
 Sub Manjit Singh (JC-325290M), 01 Mar 2006
 Sub Balwant Singh (JC-325291P), 01 Apr 2006
 Sub Bishnu Chandra Dubey (JC-325499X), 01 Apr 2006
 Sub Shankar Baxla (JC-325504X), 01 Apr 2006
 Sub Bechan Chaudhry (JC-325506H), 01 Apr 2006
 Sub Saroop Singh (JC-325314L), 01 Apr 2006
 Sub Birender Prasad Singh (JC-325315N), 01 May 2006
 Sub Vinai Kumar (JC-325517P), 01 May 2006
 Sub Suvasish Ganguli (JC-325540H), 01 Jul 2006
 Sub Sarjivan (JC-325539M), 01 Jul 2006

(To be Substantive Sub Maj SKT)

Sub Hari Chand (JC-325723Y), 01 Jan 2006
 Sub Dina Nath Tripathi (JC-326143W), 01 Jun 2006
 (To be Substantive Sub Maj SVY CAT)
 Sub Kabal Singh (JC-327279M), 01 Jan 2006
 Sub Mukesh Kumar Ravat (JC-328108M), 01 Jan 2006
 Sub Yogender Singh (JC-328114A), 01 Jan 2006
 Sub Bhimsen Mallick (JC-328211X), 01 Jan 2006
 Sub Dinesh Chandra (JC-328215N), 01 Jan 2006
 Sub Swarup Maji (JC-328216W), 01 Jan 2006
 Sub Ramesh Chand Dhiman (JC-326393X), 01 Aug 2006

(To be Substantive Sub Maj RT)

Sub Som Prakash Pant (JC-120469M), 01 Apr 2006
 Sub Gurnek Singh (JC-120468K), 01 May 2006

To be Substantive Sub (GD)

Nb Sub Aditya Narain Singh (JC-328885P), 01 Jan 2006
 Nb Sub Ajimon KS (JC-328887A), 01 Jan 2006
 Nb Sub Dinesh Kumar (JC-328888H), 01 Feb 2006
 Nb Sub Sujan Sarkar (JC-328889L), 01 Feb 2006
 Nb Sub Upendra Pal Singh (JC-328890A), 01 Feb 2006
 Nb Sub Bidhan Chandra Mandal (JC-328891H), 01 Feb 2006
 Nb Sub Subash Chand (JC-328940A), 01 Feb 2006
 Nb Sub Siby C Joseph (JC-328892L), 01 Feb 2006
 Nb Sub Babu KB (JC-328893A), 01 Feb 2006

Nb Sub Sunil Kumar PV (JC-328894W), 01 Feb 2006
 Nb Sub Suresh Kumar G (JC-328895Y), 01 Feb 2006
 Nb Sub Daljit Singh (JC-328896F), 01 Feb 2006
 Nb Sub Gabbar Singh (JC-328897K), 01 Feb 2006
 Nb Sub Jaipal (JC-328898M), 01 Feb 2006
 Nb Sub Onkar Singh (JC-328920M), 01 Feb 2006
 Nb Sub Uma Shankar Singh (JC-328899P), 01 Feb 2006
 Nb Sub Harjinder Singh (JC-328900Y), 01 Feb 2006
 Nb Sub Prem Singh (JC-328901F), 01 Feb 2006
 Nb Sub Pitember Singh (JC-328902K), 01 Feb 2006
 Nb Sub Dhanya Chandra Roy (JC-328921P), 01 Feb 2006
 Nb Sub Chand Singh (JC-328906A), 01 Feb 2006
 Nb Sub Shiv Singh (JC-328861L), 01 Jan 2006
 Nb Sub Jagtar Singh (JC-328907H), 01 Feb 2006
 Nb Sub Hare Krushna Mohanty (JC-328908L), 01 Feb 2006
 Nb Sub Vijay Singh Bani (JC-328909N), 01 Feb 2006
 Nb Sub Basant Kumar Sahni (JC-328910H), 01 Mar 2006
 Nb Sub Jagvir Singh (JC-328923A), 01 Mar 2006
 Nb Sub Mina Ketan Pradhan (JC-328911L), 01 Mar 2006
 Nb Sub Bhar Pur Singh (JC-328912N), 01 Mar 2006
 Nb Sub Dinesh Kumar Namdev (JC-328913W), 01 Mar 2006
 Nb Sub Bhagin Chandra Nath (JC-328925L), 01 Mar 2006
 Nb Sub Hakam Singh (JC-328926N), 01 Mar 2006
 Nb Sub Harish Chandra (JC-328957N), 01 Mar 2006
 Nb Sub Dalip Kumar Singh (JC-328927N), 01 Mar 2006
 Nb Sub Bishnu Kumar Singh (JC-328928Y), 01 Mar 2006
 Nb Sub Ramayan Singh (JC-328880W), 01 Jan 2006
 Nb Sub Gopal Hazarika (JC-328746L), 06 Dec 2004
 Nb Sub Hayat Singh (JC-328929F), 01 Apr 2006
 Nb Sub Satnam Singh (JC-328942L), 01 Apr 2006
 Nb Sub Laxman Singh (JC-328958W), 01 Apr 2006
 Nb Sub Jarnail Singh (JC-328964K), 01 Apr 2006
 Nb Sub Paras Nath Singh (JC-328931Y), 01 Apr 2006
 Nb Sub Vir Singh (JC-328991W), 01 Apr 2006
 Nb Sub Sri Kant Sethi (JC-328943N), 01 Apr 2006
 Nb Sub Bhupendra Singh (JC-328959Y), 01 Apr 2006
 Nb Sub Shyam Singh (JC-328947K), 01 Apr 2006
 Nb Sub Dinesh Kumar (JC-328948M), 01 Apr 2006
 Nb Sub Sumer Chand (JC-329130K), 01 Apr 2006

Nb Sub Indra Swaroop Verma (JC-328945Y), 01 Apr 2006
 Nb Sub Baljit Singh (JC-328941H), 01 Feb 2006
 Nb Sub Ram Chandra Roy (JC-328684W), 01 Apr 2006
 Nb Sub Tapas Kumar Mandal (JC-328946F), 01 May 2006
 Nb Sub Makan Singh (JC-328789A), 06 Dec 2005
 Nb Sub Madho Singh (JC-328961W), 01 May 2006
 Nb Sub Ajit Kumar Singh (JC-328829W), 01 Nov 2005
 Nb Sub Darbara Singh (JC-329159M), 01 Jul 2006
 Nb Sub Hira Singh (JC-328922X), 01 Jul 2006
 Nb Sub Uday Narayan Singh (JC-328904P), 01 Jul 2006
 Nb Sub Arun Kumar Chaudhary (JC-328962Y), 01 Jul 2006
 Nb Sub Ram Kumar (JC-328992W), 01 Jul 2006
 Nb Sub Tara Singh (JC-328963F), 01 Jul 2006
 Nb Sub Satya Ram (JC-328965M), 01 Jul 2006
 Nb Sub Rajindar Kumar Thapa (JC-329131M), 01 Jul 2006
 Nb Sub Kishore Kumar (JC-328967Y), 01 Aug 2006
 Nb Sub Narayan Singh (JC-328968A), 01 Aug 2006
 Nb Sub Jagat Singh Raorhan (JC-328969H), 01 Aug 2006
 Nb Sub Ranveer Singh (JC-327207H), 01 Jul 2006
 Nb Sub Dalip Singh Beniwal (JC-329205W), 01 Jul 2006
 Nb Sub Ashyut Machary (JC-329206W), 01 Jul 2006
 Nb Sub Mahendra Singh (JC-328993Y), 01 Jul 2006

To be Substantive Sub Clk (GD)

Nb Sub Hari Shankar Singh (JC-327118K), 01 Jan 2006
 Nb Sub Gopal Chand Sharma (JC-327103F), 01 Jan 2006
 Nb Sub Ram Krishan (JC-327104K), 01 Jan 2006
 Nb Sub Sukhdev Guleria (JC-327105M), 01 Jan 2006
 Nb Sub Jai Kishan (JC-327077L), 01 Jan 2006
 Nb Sub Ram Paul (JC-327106P), 01 Jan 2006
 Nb Sub Satya Narain (JC-327078N), 01 Jan 2006
 Nb Sub Saseendran KR (JC-327079W), 01 Jan 2006
 Nb Sub Ram Roop (JC-327119M), 01 Feb 2006
 Nb Sub Jaibir Singh (JC-327107X), 01 Feb 2006
 Nb Sub Mahinder Pal Singh (JC-327108A), 01 Feb 2006
 Nb Sub Shiv Lal (JC-327109H), 01 Feb 2006
 Nb Sub Amba Datt Joshi (JC-327110X), 01 Feb 2006
 Nb Sub Avtar Singh (JC-327111A), 01 Feb 2006
 Nb Sub Satyawar Sharma (JC-327112H), 01 Feb 2006
 Nb Sub Ramesh Chandra Barik (JC-327113L), 01 Feb 2006

Nb Sub Basant Kumar Sharma (JC-327120F), 01 Feb 2006
 Nb Sub Bhupendra Singh (JC-327121K), 01 Feb 2006
 Nb Sub Bholu Ram Prajapati (JC-327114N), 01 Mar 2006
 Nb Sub Chandra Kishor Roy (JC-327131N), 01 Mar 2006
 Nb Sub Hans Raj (JC-327132W), 01 Apr 2006
 Nb Sub Rudolf Kerketta (JC-327215F), 01 Apr 2006
 Nb Sub Devendra Prasad Singh (JC-327133Y), 01 Apr 2006
 Nb Sub Keshar Singh Ghugtiyal (JC-327134F), 01 Apr 2006
 Nb Sub Ombir Singh (JC-327233K), 01 Mar 2006
 Nb Sub Ranjit Kumar Debnath (JC-327135K), 01 Apr 2006
 Nb Sub Raj Kumar Sharma (JC-327136M), 01 Apr 2006
 Nb Sub Pruthi Raj Das (JC-328688M), 01 Apr 2006
 Nb Sub Puma Chandra Nayak (JC-327289W), 01 Apr 2006
 Nb Sub Karuna Kar Nath (JC-327137F), 01 Apr 2006
 Nb Sub Sartish Kumar Nadda (JC-327255F), 01 Apr 2006
 Nb Sub Rattan Kumar Sharma (JC-327218P), 01 Apr 2006
 Nb Sub Ram Naresh Prasad (JC-327256L), 01 Apr 2006
 Nb Sub Ashok Pati Tripathi (JC-327257N), 01 May 2006
 Nb Sub Kamlesh Bahadur Singh (JC-327219X), 01 May 2006

Nb Sub Mahipal Singh (JC-327234M), 01 Jun 2006
 Nb Sub Chandra Mani Pandey (JC-328011F), 01 Jun 2006
 Nb Sub Rajender Singh (JC-327258W), 01 Jun 2006
 Nb Sub Rama Nand (JC-327259Y), 01 Jun 2006
 Nb Sub Govind Prasad (JC-327260N), 01 Jul 2006
 Nb Sub Hem Chandra (JC-326083M), 01 Jul 2006
 Nb Sub Anil Kumar (JC-327235P), 01 Jul 2006
 Nb Sub Shyam Sunder (JC-327236X), 01 Aug 2006
 Nb Sub Ranjan Kumar Dhal (JC-327262Y), 01 Aug 2006
 Nb Sub Anil Borgohain (JC-327264K), 01 Aug 2006

(To be Substantive Sub SKT)

Nb Sub Ravi Praveesh Bhakta (JC-328198Y), 01 Jun 2006

(To be Substantive Sub SVY CAT)

Nb Sub Shyam Karan Kurmi (JC-329596M), 01 Jun 2006
 Nb Sub Mohan Dass TP (JC-329427L), 01 Jun 2006
 Nb Sub Anup Kumar Jana (JC-329428N), 01 Jun 2006
 Nb Sub Vinit Kumar Sharma (JC-329429W), 01 Jun 2006
 Nb Sub Jitendra Kumar Bairiganjan (JC-329430L), 01 Jun 2006
 Nb Sub Jaison CV (JC-329432W), 01 Jun 2006

Nb Sub Hari Dass PV (JC-329433Y), 01 Jun 2006
 Nb Sub Prabhat Rai (JC-329435K), 01 Jun 2006
 Nb Sub Velangi Raju Kocherla (JC-329436M), 01 Jun 2006
 Nb Sub Motar Kedari (JC-329437P), 01 Jun 2006
 Nb Sub Dharmvir Singh (JC-329438X), 01 Jun 2006
 Nb Sub Sarv Jeet Shukla (JC-329439A), 01 Jun 2006
 Nb Sub Ramanand Kumar Singh (JC-329440P), 01 Jun 2006
 Nb Sub Parikhit Mohanty (JC-329441X), 01 Jun 2006
 Nb Sub Prabhat Kumar Dubey (JC-329442A), 01 Jun 2006
 Nb Sub Srinibas Behera (JC-329444L), 01 Jun 2006
 Nb Sub Rakesh Kumar Rawat (JC-329445N), 01 Jun 2006
 Nb Sub Yashwant Singh Negi (JC-329446W), 01 Jun 2006
 Nb Sub Raja Shekharayya (JC-329447Y), 01 Jun 2006
 Nb Sub KA Leela Shiva Kumar (JC-329448F), 01 Jun 2006
 Nb Sub Daleep Singh Rathore (JC-329449K), 01 Jun 2006
 Nb Sub Susanta Kumar Panigraphy (JC-329450Y), 01 Jun 2006

Nb Sub Mahesh Chand (JC-329451F), 01 Jun 2006
 Nb Sub Rakesh Chand (JC-329453M), 01 Jun 2006
 Nb Sub Pramod Sahoo (JC-329454P), 01 Jun 2006
 Nb Sub Partha Sarkar (JC-329455X), 01 Jun 2006
 Nb Sub Venukuri Srinivas Reddy (JC-329456A), 01 Jun 2006
 Nb Sub Sanjeev Kumar Pandey (JC-329458L), 01 Jun 2006
 Nb Sub Jadhav Nilesh Vasantao (JC-329459M), 01 Jun 2006

Nb Sub Ram Gopal Patel (JC-329460H), 01 Jun 2006
 Nb Sub Anup Kumar Biswas (JC-329461L), 01 Jun 2006
 Nb Sub Protosh Kumar Biswas (JC-329462N), 01 Jun 2006
 Nb Sub Dewarka Nath Sharma (JC-329431N), 01 Jun 2006
 Nb Sub Dinesh Chand Sharma (JC-329452K), 01 Jun 2006
 Nb Sub Samiran Kumar Pal (JC-329463W), 01 Jun 2006
 Nb Sub Rakesh Kumar (JC-329457H), 01 Jun 2006
 Nb Sub Sri Sovendra Singh (JC-329443H), 01 Jun 2006
 Nb Sub Shishu Pal Singh (JC-326824Y), 01 Jul 2006

To be Substantive Sub (RT)

Nb Sub Vachaspati Pandey (JC-305852X), 01 May 2006

To be Nb Sub (GD)

Hav Kundan Singh Bist (No. 1475146Y now JC-329916W), 17 Apr 2006@

Hav Jagir Singh (No. 1475216M now JC-329917Y), 20 Jun 2006#

Hav Ram Nath Singh (No. 1473742Y now JC-329918F), 01 Jun 2006#

To be Nb Sub Clk (GD)

Hav Krishan Pal (No. 1472223X now JC-329919K), 08 Mar 2006\$

Hav Shyam Dhar Goswami (No. 1472367A now JC-329920Y), 01 Jul 2006*

Hav Munni Lal (No. 1472457F now JC-329921F), 01 Aug 2006&

Hav Atal Bihari Dubey (No. 1472420A now JC-329922K), 01 Aug 2006&

Hav Visnudev Yadav (No. 1472542K now JC-329923M), 03 Aug 2006&

Hav Ram Avtar (No. 1472545X now JC-329924P), 01 Aug 2006&

Hav Daya Shankar Pandey (No. 1472546A now JC-329925X), 05 Aug 2006&

Hav Shri Kant Chatterji (No. 1472568Y now JC-329926A), 01 Sep 2006%

Hav Ramji Singh (No. 1472664N now JC-329927H), 01 Sep 2006%

Hav Prem Sagar Mishra (No. 1472730L now JC-329928L), 01 Sep 2006%

Hav Bindeshwar Tiwari (No. 1472974Y now JC-329929N), 01 Sep 2006%

Hav Md Abdul Kalam (No. 1473201L now JC-329930H), 01 Sep 2006%

Hav Niroda Chandra Mallik (No. 1473243X now JC-329931L), 01 Sep 2006%

Hav Susanta Das (No. 1473254K now JC-329932N), 01 Sep 2006%

Hav Mahesh Chandra (No. 1472342N now JC-329933W), 01 Sep 2006%

Hav Raj Narain Dubey (No. 1472284P now JC-329934Y), 01 Sep 2006%

Hav Jagpal Singh (No. 1473263L now JC-329935F), 01 Sep 2006%

To be Nb Sub (SKT)

Hav Satya Bir Singh (No. 1483981P now JC-329936K), 11 Jul 2006#

To be Nb Sub (Svy)

Hav Umesh Kumar Singh (No. 1465564A now JC-329937M), 03 Aug 2006**

\$(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2006 without effect on pay & allces).

@(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2006 without effect on pay & allces).

#(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2006 without effect on pay & allces).

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2006 without effect on pay & allces).

** (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 07 Jul 2006 without effect on pay & allces).

&(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2006 without effect on pay & allces).

%(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2006 without effect on pay & allces).

To be Naib Subedar (Religious Teacher)

Sep Ranjit Singh (No. 2495690X now JC-329914L), 12 May 2006

BOMBAY ENGINEER GROUP

To be Subedar Major (GD)

Sub (GD) Balwinder Singh (JC-347889A), 01 Aug 2006

Sub (GD) Nagender Mani (JC-347935K), 06 Aug 2006

To be Subedar Major (Cik GD)

Sub (Cik GD) Dastgeer Miyan (JC-347332N), 06 Jul 2006

Sub (Cik GD) Joginder Singh Sandhu (JC-347333W), 24 Aug 2006

To be Subedar (GD)

Nb Sub (GD) Didar Singh SM (JC-349314K), 11 Jul 2006

Nb Sub (GD) Vaman Ranba Aytake (JC-349315M), 11 Jul 2006

Nb Sub (GD) Abdul Haq Khan (JC-349324N), 13 Jul 2006

Nb Sub (GD) Kadam Vajinath Bhanudas (JC-349276Y), 14 Jul 2006

Nb Sub (GD) Anil Kumar Pandurang Kadam (JC-349313F), 15 Jul 2006

Nb Sub (GD) Mahabir Singh (JC-349309Y), 17 Jul 2006

Nb Sub (GD) Kadam Madan Kisan (JC-349200Y), 19 Jul 2006

Nb Sub (GD) Ingwale Dilip Kumar Namdeo (JC-349323L), 19 Jul 2006

Nb Sub (GD) Gurmit Singh (JC-349345K), 24 Jul 2006

Nb Sub (GD) Rakesh Chand (JC-349306L), 25 Jul 2006

Nb Sub (GD) Ram Sajeewan (JC-349300K), 04 Aug 2006

Nb Sub (GD) Jarnail Singh (JC-349325W), 08 Aug 2006

Nb Sub (GD) Mate Suryabhan Shrirang (JC-349341N), 08 Aug 2006

Nb Sub (GD) Sukhminder Singh (JC-349333P), 11 Aug 2006

Nb Sub (GD) Avtar Singh (JC-349310N), 12 Aug 2006

Nb Sub (GD) Harbans Singh (JC-349350P), 21 Aug 2006

Nb Sub (GD) Khokhariya Rajuji Lmedji (JC-349335A), 07 Sep 2006

To be Subedar (SKT)

Nb Sub (SKT) Rajbir Singh (JC-348973M), 01 Aug 2006

To be Subedar (Cik GD)

Nb Sub (Cik GD) Tarlok S Chowdhry (JC-348652P), 22 Jun 2006

Nb Sub (Cik GD) Rajinder Singh (JC-348649P), 23 Jun 2006

Nb Sub (Cik GD) Jawahar Lal (JC-348647K), 22 Jul 2006

Nb Sub (Cik GD) Dhani Ram (JC-348656L), 01 Aug 2006

Nb Sub (Cik GD) Baldev Prashad Panthri (JC-348658W), 01 Aug 2006

Nb Sub (Cik GD) Shashikant Tiwari (JC-348667X), 01 Aug 2006

Nb Sub (Cik GD) Girja Shankar (JC-348653X), 07 Aug 2006

Nb Sub (Cik GD) Mahak Singh (JC-348671A), 01 Sep 2006

To be Nb Sub (RT)

Jaswinder Singh (JC-349957F), 20 Aug 2005

Parwinder Singh (JC-349958K), 20 Aug 2005

Damoder Lal Sharma (JC-350079H), 10 Dec 2005

Kuldip Singh (JC-350127X), 20 Aug 2005

Hardip Singh (JC-350183W), 12 May 2006

MADRAS ENGINEER GROUP

To be Substantive Sub Maj (GD)

Sub (GD) Rajendran A (JC-305580H), 19 May 2006

Sub (GD) Viswanathan CV (JC-305694N), 27 Jun 2006

Sub (GD) Vijayakumaran Nair S (JC-305699M), 06 Jul 2006

Sub (GD) Aramuthu D (JC-305700W), 04 Jul 2006

Sub (GD) C Ananta Rajan (JC-305728W), 10 Jul 2006

To be Substantive Sub (GD)

Nb Sub (GD) Igance Tirkey (JC-307381N), 13 Apr 2006

Nb Sub (GD) SJ Sagayan (JC-307473A), 22 May 2006

Nb Sub (GD) DA Rajakumar (JC-307480W), 24 Jun 2006

Nb Sub (GD) M Balasundaram (JC-307500Y), 27 Jun 2006

Nb Sub (GD) Sridharan C (JC-307503M), 01 Aug 2006

Nb Sub (GD) M Elumalai (JC-307505X), 23 Jun 2006

Nb Sub (GD) Sugumaran K (JC-307507H), 09 Jun 2006
 Nb Sub (GD) N Udaya Kumar (JC-307511L), 17 Jul 2006
 Nb Sub (GD) A John Joseph (JC-307512N), 29 Jul 2006
 Nb Sub (GD) Ayyasami M (JC-307514Y), 14 Jul 2006
 Nb Sub (GD) V Prem Kumar (JC-307516K), 07 Jul 2006
 Nb Sub (GD) Mohana Chandran B (JC-307517M), 26 Jul 2006
 Nb Sub (GD) M Albert (JC-307518P), 03 Jul 2006
 Nb Sub (GD) M Shanmugam (JC-307522X), 01 Jul 2006
 Nb Sub (GD) Radhakrishnan Pillai R (JC-307524H), 21 Jul 2006
 Nb Sub (GD) Sankar V (JC-307525L), 04 Aug 2006
 Nb Sub (GD) Raghupathy R (JC-307531Y), 01 Aug 2006
 Nb Sub (GD) Sreenivasan K (JC-307532F), 01 Aug 2006
 Nb Sub (GD) K Timana Reddy (JC-307546F), 01 Aug 2006
 Nb Sub (GD) Subramanian MS (JC-307549P), 01 Aug 2006

To be Substantive Sub (Religious Teachers)

Sub (RT) Ajay Kumar (JC-305851P), 06 Jul 2006

To be Nb Sub Clks (GD)

Rank/Trade Name (Personnel No. JC No. Allotted).
 Promotion to Nb Sub

Hav/Clk (GD) Yunus S (No. 15306617X now JC-308516W),
 01 Jun 2006*

Hav/Clk (GD) Naizam TJ (No. 15306620X now JC-308517Y),
 01 Jun 2006*

Hav/Clk (GD) A Laxmi Kondalah (No. 15306622H now JC-308518F), 01 Jun 2006*

Hav/Clk (GD) Moti Gir Goswami (No. 15306632M now JC-308519K), 01 Jun 2006*

Hav/Clk (GD) Radhikrishna Upadhy (No. 15306635A now JC-308520Y), 01 Jun 2006*

Hav/Clk (GD) Jitender Kumar Lamba (No. 15306711F now JC-308521F), 21 Jun 2006*

Hav/Clk (GD) Ramnath Singh (No. 15306706W now JC-308522K), 13 Jun 2006*

Hav/Clk (GD) Mahesh Prasad (No. 15306707Y now JC-308523M), 01 Jun 2006*

Hav/Clk (GD) Durga Dat Pandey (No. 15306708F now JC-308524P), 08 Jul 2006*

Hav/Clk (GD) Rajendra Nath (No. 15306709K now JC-308544H), 03 Jul 2006*

Hav/Clk (GD) Tamina Siva Sankara Rao (No. 2684375L now JC-308545L), 11 Jul 2006**

Hav/Clk (GD) B Prasan Kumar Patro (No. 2684378Y now JC-308546N), 01 Jul 2006**

Hav/Clk (GD) Presennan G (No. 15306730M now JC-308547W), 01 Jul 2006**

Hav/Clk (GD) Ashok Kumar Tripathy (No. 15306740W now JC-308548Y), 03 Jul 2006**

Hav/Clk (GD) Balvir Singh (No. 15306919K now JC-308549F),
 03 Jul 2006**

Hav/Clk (GD) Sateesh Kumar M (No. 15306942X now JC-308550W), 01 Jul 2006**

To be Nb Sub (SKT)

Hav/SKT Lagamanna Walikar (No. 1382758X now JC-308525X), 01 Jun 2006*

* Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2006 without effect on pay and allee.

** Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2006 without effect on pay and allee.

To be Nb Sub Clks (GD)

Rank/Trade Name (Personnel No. JC No. allotted), Promotion to Nb Sub

Hav/Clk (GD) Padmendra Singh Bisht (No. 15301628A now JC-308376P), 01 Dec 2005*

Hav/Clk (GD) Dilip Roy (No. 15304867A now JC-308377X),
 01 Dec 2005*

Hav/Clk (GD) Sutar Vidyanand Mahadev (No. 15304914M now JC-308380X), 01 Dec 2005*

Hav/Clk (GD) Rohtas Singh (No. 15304865P now JC-308379H), 01 Dec 2005*

Hav/Clk (GD) Jyotish Kumar Mahanta (No. 15304860W now JC-308378A), 20 Dec 2005*

Hav/Clk (GD) Dayamand Saini (No. 15305713A now JC-308381A), 21 Dec 2005*

Hav/Clk (GD) Rakesh Paul Singh (No. 15306127K now JC-308400A), 02 Jan 2006**

Hav/Clk (GD) Pravash Ranjan Panda (No. 15306119L now JC-308101H), 02 Jan 2006**

Hav/Clk (GD) Radhakrishnan T (No. 15306120A now JC-308402L), 02 Jan 2006**

Hav/Clk (GD) Nilkanth Jana (No. 15306125Y now JC-308421W), 01 Feb 2006***

Hav/Clk (GD) Rajan Lal (No. 15306165A now JC-308422Y),
 01 Feb 2006***

Hav/Clk (GD) Vinod Kumar (No. 15306296L now JC-308423F), 01 Feb 2006***

Hav/Clk (GD) K Durai Raj (No. 15306301L now JC-308445P),
 01 Mar 2006#

Hav/Clk (GD) Anand Rao Panigrahi (No. 15304522Y now JC-308444X), 01 Mar 2006#

Hav/Clk (GD) Ramnarayan Pathak (No. 15300986X now JC-308445A), 01 Mar 2006#

Hav/Clk DH Keshav (No. 15306584X now JC-308446H), 01 Mar 2006#

Hav/Clk Marathi Anil Kumar Mangam (No. 15306593Y now JC-308447L), 01 Mar 2006#

Hav/Clk Kadam Popat Kishan (No. 15306605H now JC-308448N), 01 Mar 2006#

Hav/Clk (GD) Mahendra Kumar P (No. 15306126F now JC-308449W), 01 Mar 2006#

Hav/Clk (GD) Jogendra Kumar Savita (No. 15306370F now JC-308450L), 02 Mar 2006#

Hav/Clk (GD) Ashok Kumar Pandey (No. 15306387P now JC-308451N), 01 Apr 2006#

Hav/Clk (GD) Arun Kumar (No. 15306441X now JC-308452W), 17 Mar 2006#

Hav/Clk (GD) Anil Kumar R (No. 5346710K now JC-308453Y), 12 Apr 2006#

Hav/Clk (GD) Govinda Vallabh Sati (No. 15306464Y now JC-308454F), 24 Mar 2006#

Hav/Clk (GD) Teeka Ram (No. 15306466K now JC-308455K), 11 Mar 2006#

Hav/Clk (GD) Arun Kumar Pandey (No. 15306474H now JC-308456M), 17 Mar 2006#

Hav/Clk (GD) M Subhani Shaik (No. 15306481H now JC-308457P), 29 Mar 2006#

Hav/Clk (GD) Ram Gopal (No. 15306495Y now JC-308458X), 27 Mar 2006#

Hav/Clk (GD) Ram Prakash (No. 15306499P now JC-308459A), 17 Mar 2006#

Hav/Clk (GD) Anil Kumar B (No. 15306504P now JC-308482N), 10 Apr 2006##

Hav/Clk (GD) Shaji Kumar A (No. 15306505X now JC-308483W), 01 Apr 2006##

Hav/Clk (GD) Tara Chand (No. 15306293W now JC-308484Y), 07 Apr 2006##

Hav/Clk (GD) Lal Singh (No. 15304056P now JC-308485M), 13 Apr 2006##

Hav/Clk (GD) Ganesh Chandra M (No. 15302723Y now JC-308486K), 07 Apr 2006##

Hav/Clk (GD) Parshn Ram Singh (No. 15306369M now JC-308487M), 17 Apr 2006##

Hav/Clk (GD) Sithanath Mondal (No. 15306559Y now JC-308488P), 04 Apr 2006##

Hav/Clk (GD) Nemai Nag (No. 15306564X now JC-308489X), 01 Apr 2006##

Hav/Clk (GD) KS Dev Gengetta (No. 15306573L now JC-308490M), 23 May 2006##

Hav/Clk (GD) Pronotosh Kumar Mondal (No. 15306574Y now JC-308502W), 01 May 2006\$

Hav/Clk (GD) D Chandra Adak (No. 15306576Y now JC-308503Y), 01 May 2006\$

Hav/Clk (GD) T Rajesh Somrao (No. 15306586H now JC-308504F), 01 May 2006\$

Hav/Clk (GD) R Vijaya Manohar Rao (No. 15306592N now JC-308505K), 01 May 2006\$

Hav/Clk (GD) G Chandrasekhar (No. 15306594F now JC-308506M), 01 May 2006\$

Hav/Clk (GD) H Nishant Waman Rao (No. 15306600K now JC-308507P), 01 May 2006\$

Hav/Clk (GD) Dharm S Ganapat (No. 15306587L now JC-308564W), 03 Aug 2006\$

To be Nb Sub (SKT)

Hav/SKT Anil Kumar AV (No. 1383180Y now JC-308375M), 29 Dec 2005*

Hav/SKT Unnikrishnan V (No. 15300735P now JC-308442M), 01 Mar 2006#

* Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2005 without effect on pay and allce.

** Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2006 without effect on pay and allce.

*** Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2006 without effect on pay and allce.

Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2006 without effect on pay and allce.

Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2006 without effect on pay and allce.

\$ Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 2006 without effect on pay and allce.

ROSY SHARMA
Dy. Secy.

No. 648, dated 6th December 2006—The President is pleased to make the promotion :—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

(ARMY MEDICAL CORPS)

Col (& Equiv) to be Brig (& Equiv)

Zile Singh (MR-03658L), 08 Aug 2005 with notional seniority without effect on pay and pension from 18.08.04.

Sqn Ldr to be Wg Cdr

(Mrs) Renuka Garg (MR-06803L) (AF-25571), AMC, 27 Mar 2006

(Mrs) R Gowri (MR-07579N) (AF-23424), AMC, 06 Apr 2006

(Mrs) Babita Mishra (MR-07598Y) (AF-23471), AMC, 04 Jun 2006

A Gupta (MR-06675W) (AF-23430), AMC, 06 Jun 2006

Mukul Bhatia (MR-06668F) (AF-23064), AMC, 06 Jun 2006

Flt Lt to be Sqn Ldr

Juhi Borgohain (MR-07270K) (27650), AMC, 05 Feb 2004

Rakhi Malhotra (MR-07404L) (27658), AMC, 15 Feb 2005

RAJESH KAMRAN
Brig
Dy. DGAFMS (Pers)

No. 649, dated 5th December 2006—The President is pleased to make the following promotion :—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

Substantive Major to be Substantive Lt Colonel

Raj Pal Singh (IC-36716), EME, 16 Dec 2004

NG Keshav (IC-38211), AD Arty, 16 Dec 2004

ASHA ANAND
Dy. Dir.
DGQA/Admn-4

No. 650, dated 6th December 2006—The President is pleased to make substantive promotions of Major General to the following officers :—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

To be Substantive Maj Gen

Rank Name (IC No.), Arm, D.O. Subs Maj Gen

Brig Mittal P (IC-24759), AOC, 07 Feb 2005

Brig Panicker MKV (IC-32014), Garh Rif, 01 Mar 2005

Brig Venkateswarlu P (IC-32041), AD Arty, 01 Mar 2005

Brig Datta VK, SM*, VSM* (IC-29732), 1 GR, 18 Mar 2005

Brig Ghunman JS (IC-29783), AEC, 18 Mar 2005

Brig Chopra Vinod (IC-29915), Guards, 01 Apr 2005

Brig Bhardwaj D (IC-25053), 62 CAV, 01 Apr 2005

Brig Bakshi TPS, SM (IC-25054), Dogra, 01 May 2005

Brig Inderjit Singh (IC-25056), EME, 01 May 2005

Brig Grewal GS, VSM* (IC-25060), Para, 01 Jun 2005

Brig Kumar SS (IC-25064), Guards, 01 Jul 2005

Brig Lamba AS (IC-25066), Arty (GC), 01 Jul 2005

Brig Ravindra Singh (IC-25091), Sigs, 01 Oct 2005
(with seniority from 01.08.05 without effect on pay and pension)

Brig Grewal BPS (IC-25123), Sigs, 01 Oct 2005
(with seniority from 01.08.05 without effect on pay and pension)

Brig Sujana RS (IC-25126), Sikh, 01 Aug 2005

Brig Chaturvedi VK, VSM (IC-25135), Arty, 01 Aug 2005

Brig Gupta AK (IC-25136), Gren, 25 Aug 2005

Brig Raj Deepak, SM (IC-25141), Mech Inf, 25 Aug 2005

Brig Chandra Anukul (IC-25148), EME, 25 Aug 2005

Brig Singh JP (IC-25156), 82 AR, 25 Aug 2005

Brig Goswami Rana, VSM (IC-25178), Arty, 25 Aug 2005

Brig Banerjee Gautam, YSM (IC-25189), Engrs, 12 Sep 2005
(with seniority from 25.08.05 without effect on pay and pension)

Brig Sabharwal Mukesh, VSM (IC-25213), Rajput, 25 Aug 2005

Brig Sinha SK (IC-25236), AD Arty, 01 Sep 2005

Brig Rao SA (IC-27878), Engrs (GC), 01 Sep 2005

Brig Sehgal AK (IC-27909), AD Arty, 01 Sep 2005

Brig Bhutani VK (IC-32357), Int, 01 Sep 2005

Brig MC Badhani (IC-25408), Engrs, 01 Jan 2006
(with seniority from 01.09.05 without effect on pay and pension)

Brig SG Chatterjee, VSM (IC-25409), Arty (GC), 28 Feb 2006
(with seniority from 01.09.05 without effect on pay and pension)

Brig Sharma Vinay (IC-25439), Dogra, 01 Oct 2005

Brig GS Aulakh (IC-25440), Sigs, 03 Apr 2006
(with seniority from 01.10.05 without effect on pay and pension)

Brig Handa SN (IC-25442), 3 GR, 01 Oct 2005

Brig Rath PK (IC-25448), Arty (GC), 01 Oct 2005

Brig Ahluwalia VK, VSM (IC-25457), Arty (GC), 01 Oct 2005

Brig Dwivedi GG, VSM (IC-25466), Jat, 01 Nov 2005

Brig Yadava KS, VSM (IC-25469), 3 GR, 01 Nov 2005

Brig K Babayya, VSM (IC-25478), Engrs, 02 Apr 2006
(with seniority from 16.11.05 without effect on pay and pension)

Brig KMS Shergill, VSM (IC-25501), AC, 21 May 2006
(with seniority from 01.12.05 without effect on pay and pension)

Brig Brajesh Kumar (IC-25511), Engrs, 02 Apr 2006
(with seniority from 01.12.05 without effect on pay and pension)

Brig Kumar Kamal (IC-25512), EME, 01 Dec 2005

Brig Guriqbal Singh (IC-25532), Arty (GC), 01 Dec 2005

Brig Bakshi GD, VSM (IC-25534), Jak Rif, 01 Dec 2005

Brig Swamy RK (IC-25538), Mahar, 05 Dec 2005

Brig Nayanar Vinod (IC-25544), Arty, 01 Jan 2006

Brig Dugar AK (IC-25635), 48 AR, 03 Jan 2006

Brig Ghotra BS, SM (IC-25647), 5 GR, 01 Feb 2006

Brig Rekhi AK (IC-25648), Arty, 01 Feb 2006

N. K. PHUKAN
AMS/MS(X)

DEFENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT ORGANISATION

No. 651, dated 6th December 2006—The President is pleased to promote the following officers from their existing grade to the next grade w.e.f. 01 Sep 2006 (F/N) as mentioned against each :—

Name (S/Shri/Smt), Lab/Estt, Existing Grade, Promoted to, Pay Scale of Promoted Grade

VM Sashidharan, LRDE, TO 'C', TO 'D', Rs. 12,000-375-6,500

GS Narsimhan, LRDE, TO 'B', TO 'C', Rs. 10,000-325-15,200

Rita Ansuya Joseph, LRDE, TO 'B', TO 'C', Rs. 10,000-325-15,200

M Jayaraman, LRDE, TO 'B', TO 'C', Rs. 10,000-325-15,200

K Rajasimha, LRDE, TO 'B', TO 'C', Rs. 10,000-325-15,200

E Gopakumar, LRDE, TO 'B', TO 'C', Rs. 10,000-325-15,200

R Ravi, DARE, TO 'B', TO 'C', Rs. 10,000-325-15,200

R Srinivasan, DARE, TO 'B', TO 'C', Rs. 10,000-325-15,200

Girish Nagaveni, MTRDC, TO 'B', TO 'C', Rs. 10,000-325-15,200

P Perumal, DEBEL, TO 'B', TO 'C', Rs. 10,000-325-15,200

TR Ramesh, DEBEL, TO 'A', TO 'B', Rs. 8,000-275-13,500

KJ John, DARE, TO 'A', TO 'B', Rs. 8,000-275-13,500

S Prakash, LRDE, TO 'A', TO 'B', Rs. 8,000-275-13,500

RB Kolekar, LRDE, TO 'A', TO 'B', Rs. 8,000-275-13,500

A Abdul Gafoor, LRDE, TO 'A', TO 'B', Rs. 8,000-275-13,500

MA Manjula, LRDE, TO 'A', TO 'B', Rs. 8,000-275-13,500

S Subramanya Raj, LRDE, TO 'A', TO 'B', Rs. 8,000-275-13,500

Gowri Mohan, LRDE, TO 'A', TO 'B', Rs. 8,000-275-13,500

VM Dayananda Rao, LRDE, TO 'A', TO 'B', Rs. 8,000-275-13,500

ND Prabhakar, GTRE, TO 'C', TO 'D', Rs. 12,000-375-16,500

KP Mohan Kumar, GTRE, TO 'B', TO 'C', Rs. 10,000-325-15,200

K Dhamodaran, GTRE, TO 'B', TO 'C', Rs. 10,000-325-15,200

U Nagesh, GTRE, TO 'B', TO 'C', Rs. 10,000-325-15,200

P Gangadharan, GTRE, TO 'B', TO 'C', Rs. 10,000-325-15,200

KV Ragunath, GTRE, TO 'B', TO 'C', Rs. 10,000-325-15,200

S Ashok Kumar, GTRE, TO 'B', TO 'C', Rs. 10,000-325-15,200

C Sridhar, GTRE, TO 'B', TO 'C', Rs. 10,000-325-15,200

MK Simon, GTRE, TO 'B', TO 'C', Rs. 10,000-325-15,200

Abdul Razak TP, GTRE, TO 'B', TO 'C', Rs. 10,000-325-15,200

MR Rooparani, GTRE, TO 'B', TO 'C', Rs. 10,000-325-15,200

PN Choudhury, GTRE, TO 'B', TO 'C', Rs. 10,000-325-15,200

S Venkatasubramanya, GTRE, TO 'B', TO 'C', Rs. 10,000-325-15,200

M Subramaniam, GTRE, TO 'B', TO 'C', Rs. 10,000-325-15,200

Ashok Kumar Mondal, GTRE, TO 'B', TO 'C', Rs. 10,000-325-15,200

K Viswanath, GTRE, TO 'B', TO 'C', Rs. 10,000-325-15,200

Lingamurthy, GTRE, TO 'A', TO 'B', Rs. 8,000-275-13,500

R Chandu SAB, GTRE, TO 'A', TO 'B', Rs. 8,000-275-13,500

KP Lonappan, GTRE, TO 'A', TO 'B', Rs. 8,000-275-13,500

S Murali, GTRE, TO 'A', TO 'B', Rs. 8,000-275-13,500

P Chennian, GTRE, TO 'A', TO 'B', Rs. 8,000-275-13,500

DE PK, GTRE, TO 'A', TO 'B', Rs. 8,000-275-13,500

Gundappa, GTRE, TO 'A', TO 'B', Rs. 8,000-275-13,500

D Prakash, GTRE, TO 'A', TO 'B', Rs. 8,000-275-13,500

S Gurusiddappa, GTRE, TO 'A', TO 'B', Rs. 8,000-275-13,500

HV Jayashankara, ADE, TO 'C', TO 'D', Rs. 12,000-375-16,500

V Valarmathi, ADE, TO 'B', TO 'C', Rs. 10,000-325-15,200

John Joshua, ADE, TO 'B', TO 'C', Rs. 10,000-325-15,200
 P Jayaraman, ADE, TO 'B', TO 'C', Rs. 10,000-325-15,200
 S Guruswamy, ADE, TO 'B', TO 'C', Rs. 10,000-325-15,200
 N Sai Ram, ADE, TO 'B', TO 'C', Rs. 10,000-325-15,200
 Mary Magdaline, ADE, TO 'B', TO 'C', Rs. 10,000-325-15,200
 VR Subramanian, ADE, TO 'B', TO 'C', Rs. 10,000-325-15,200
 BN Jayanti Malini, ADE, TO 'B', TO 'C', Rs. 10,000-325-15,200
 K Padmanabha, ADE, TO 'B', TO 'C', Rs. 10,000-325-15,200
 Hariharan, ADE, TO 'B', TO 'C', Rs. 10,000-325-15,200
 Vijayakumar P, ADE, TO 'B', TO 'C', Rs. 10,000-325-15,200
 S Balachandran, ADE, TO 'B', TO 'C', Rs. 10,000-325-15,200
 PS Lourdhunathan, ADE, TO 'A', TO 'B', Rs. 8,000-275-13,500
 R Anbalagan, ADE, TO 'A', TO 'B', Rs. 8,000-275-13,500
 G Pandurangan, ADE, TO 'A', TO 'B', Rs. 8,000-275-13,500
 N Mohan, ADE, TO 'A', TO 'B', Rs. 8,000-275-13,500
 Kailash Hiremath, ADE, TO 'A', TO 'B', Rs. 8,000-275-13,500
 C Ragini, ADE, TO 'A', TO 'B', Rs. 8,000-275-13,500
 Abdul Nabi MTK, ADE, TO 'A', TO 'B', Rs. 8,000-275-13,500
 JK Lalithambika, ADE, TO 'A', TO 'B', Rs. 8,000-275-13,500
 VSS Reddy, ADE, TO 'A', TO 'B', Rs. 8,000-275-13,500
 C Velavan, ADE, TO 'A', TO 'B', Rs. 8,000-275-13,500
 Amarjit Singh Chadha HQ-DAER, TO 'B', TO 'C', Rs. 10,000-325-15,200
 HL Tamta, HQ-DIC, TO 'B', TO 'C', Rs. 10,000-325-15,200
 PC Chhabra, HQ-DMM, TO 'B', TO 'C', Rs. 10,000-325-15,200
 Vipin Malhotra, HQ DHRD, TO 'A', TO 'B', Rs. 8,000-275-13,500
 DC Joshi, RAC, TO 'C', TO 'D', Rs. 12,000-375-16,500
 RK Bhatnagar, DESIDOC, TO 'B', TO 'C', Rs. 10,000-325-15,200
 N Mangamani, DESIDOC, TO 'B', TO 'C', Rs. 10,000-325-15,200
 Surender Singh, INMAS, TO 'B', TO 'C', Rs. 10,000-325-15,200
 Joginder Nath, LASTEC, TO 'B', TO 'C', Rs. 10,000-325-15,200
 Iqbal Singh, LASTEC, TO 'B', TO 'C', Rs. 10,000-325-15,200

Santosh Dass, LASTEC, TO 'B', TO 'C', Rs. 10,000-325-15,200
 Rajni Kumar, LASTEC, TO 'B', TO 'C', Rs. 10,000-325-15,200
 Vinod Kapoor, SSPL, TO 'B', TO 'C', Rs. 10,000-325-15,200
 Jagbir Singh, SSPL, TO 'B', TO 'C', Rs. 10,000-325-15,200
 Kum Kum Khurana, SSPL, TO 'B', TO 'C', Rs. 10,000-325-15,200
 J Chandra, SSPL, TO 'B', TO 'C', Rs. 10,000-325-15,200
 Kishan Lal, CFEES, TO 'B', TO 'C', Rs. 10,000-325-15,200
 Reva Asija, SAG, TO 'B', TO 'C', Rs. 10,000-325-15,200
 KN Rao, SAG, TO 'B', TO 'C', Rs. 10,000-325-15,200
 Avijit Bose, SAG, TO 'A', TO 'B', Rs. 8,000-275-13,500
 Jasbir Singh, SAG, TO 'A', TO 'B', Rs. 8,000-275-13,500
 M Bagga, DESIDOC, TO 'A', TO 'B', Rs. 8,000-275-13,500
 VK Sareen, INMAS, TO 'A', TO 'B', Rs. 8,000-275-13,500
 Satveer Singh, INMAS, TO 'A', TO 'B', Rs. 8,000-275-13,500
 SP Gupta, SSPL, TO 'A', TO 'B', Rs. 8,000-275-13,500
 Ramesh Chandra, SSPL, TO 'A', TO 'B', Rs. 8,000-275-13,500

The undermentioned individuals are promoted from STA 'C' to TO 'A' & TA 'C' to TO w.e.f. 01 Sep 2006 (F/N).

Name (S/Shri/Smt), Lab/Estt, Existing Grade, Promoted to, Pay Scale of Promoted Grade

BR Venkateshamurthy, ADE, STA 'C', TO 'A', Rs. 7,450-225-11,500
 G Bharathi, ADE, STA 'C', TO 'A', Rs. 7,450-225-11,500
 MD Arifulla, ADE, STA 'C', TO 'A', Rs. 7,450-225-11,500
 N Suresh Kumar, ADE, STA 'C', TO 'A', Rs. 7,450-225-11,500
 C Narayana Swamy, ADE, STA 'C', TO 'A', Rs. 7,450-225-11,500
 Marykutty Daniel, GTRE, STA 'C', TO 'A', Rs. 7,450-225-11,500
 VP Thomas, GTRE, STA 'C', TO 'A', Rs. 7,450-225-11,500
 Ramesh Chandra, GTRE, STA 'C', TO 'A', Rs. 7,450-225-11,500
 R Surendra, GTRE, STA 'C', TO 'A', Rs. 7,450-225-11,500
 F Thomas Luke, ADE, TA 'C', TO, Rs. 7,450-225-11,500

The undermentioned individuals are promoted from STA 'C' to TO 'A' w.e.f. 01 Sep 2006 (F/N).

Name (S/Shri/Smt), Lab/Estt, Existing Grade, Promoted to, Pay Scale of Promoted Grade

Suman Negi, DESIDOC, STA 'C', TO 'A', Rs. 7,450-225-11,500

PK Sinha, CFEES, STA 'C', TO 'A', Rs. 7,450-225-11,500
 Praveen Gambhir, LASTEC, STA 'C', TO 'A', Rs. 7,450-225-11,500

BN Ramesh, LRDE, STA 'C', TO 'A', Rs. 7,450-225-11,500
 V Varadaraju, LRDE, STA 'C', TO 'A', Rs. 7,450-225-11,500
 TS Prakash Bhat, LRDE, STA 'C', TO 'A', Rs. 7,450-225-11,500

K Sylvester, LRDE, STA 'C', TO 'A', Rs. 7,450-225-11,500
 CP Sreekumar, DEBEL, STA 'C', TO 'A', Rs. 7,450-225-11,500

B. B. SHARMA
 Dy. Dir. (Pers.-I)

DEFENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT ORGANISATION

No. 652, dated 6th December 2006.—The President is pleased to promote the following Scientists of ARDE, Pune from their existing grade to the next higher grade with effect from 01.07.2006 (F/N) as mentioned against each :—

Name, Existing Grade, Grade to which promoted, Pay Scale of promoted Grade

Shri Kulkarni R.U., Sc 'E', Sc 'F', Rs. 16,400-450-20,000
 Shri Narendra Dev, Sc 'E', Sc 'F', Rs. 16,400-450-20,000
 Shri HH Kumar, Sc 'E', Sc 'F', Rs. 16,400-450-20,000
 Shri D Sarkar, Sc 'D', Sc 'E', Rs. 14,300-400-18,300
 Shri AS Asthana, Sc 'D', Sc 'E', Rs. 14,300-400-18,300
 Shri P.P. Parkhi, Sc 'D', Sc 'E', Rs. 14,300-400-18,300
 Shri D.P. Bokade, Sc 'C', Sc 'D', Rs. 12,000-375-16,500
 Shri Arun Kumar Roy, Sc 'C', Sc 'D', Rs. 12,000-375-16,500
 Shri Rajeev Prakash, Sc 'C', Sc 'D', Rs. 12,000-375-16,500
 Shri K.D. Dhote, Sc 'C', Sc 'D', Rs. 12,000-375-16,500
 Shri Kulwinder Singh, Sc 'C', Sc 'D', Rs. 12,000-375-16,500
 Shri P.K. Choudha, Sc 'C', Sc 'D', Rs. 12,000-375-16,500
 Shri RV Katare, Sc 'C', Sc 'D', Rs. 12,000-375-16,500

The President is pleased to promote the following Scientists of ADE, Bangalore from their existing grade to the next higher grade with effect from 01 Jul 2006 (F/N) as mentioned against each :—

Name, Existing Grade, Grade to which promoted, Pay Scale of promoted Grade

Shri B. Ramesh Baliga, Sc 'F', Sc 'G', Rs. 18,400-500-22,400
 Shri VS Chandrashekhar, Sc 'F', Sc 'G', Rs. 18,400-500-22,400
 Shri P Srikumar, Sc 'F', Sc 'G', Rs. 18,400-500-22,400
 Shri VS Manjunath, Sc 'E', Sc 'F', Rs. 16,400-450-20,000

Shri S Gopala Rao, Sc 'E', Sc 'F', Rs. 16,400-450-20,000
 Shri CM Venkatesh, Sc 'E', Sc 'F', Rs. 16,400-450-20,000
 Shri K Sreedhar, Sc 'E', Sc 'F', Rs. 16,400-450-20,000
 Shri V Sarveswaran, Sc 'E', Sc 'F', Rs. 16,400-450-20,000
 Shri Vasanth Shastri, Sc 'E', Sc 'F', Rs. 16,400-450-20,000
 Smt Asha Garg, Sc 'E', Sc 'F', Rs. 16,400-450-20,000
 Shri L Soosairaj, Sc 'D', Sc 'E', Rs. 14,300-400-18,300
 Shri M Balakrishnan, Sc 'D', Sc 'E', Rs. 14,300-400-18,300
 Shri B Mahalingam, Sc 'D', Sc 'E', Rs. 14,300-400-18,300
 Smt CM Premila, Sc 'D', Sc 'E', Rs. 14,300-400-18,300
 Shri R Srinivasan, Sc 'D', Sc 'E', Rs. 14,300-400-18,300
 Shri K Selvaraj, Sc 'D', Sc 'E', Rs. 14,300-400-18,300
 Shri LN Raghavendra, Sc 'D', Sc 'E', Rs. 14,300-400-18,300
 Smt SI Sreekala Kumari, Sc 'D', Sc 'E', Rs. 14,300-400-18,300
 Shri S Balakrishna Prakash, Sc 'D', Sc 'E', Rs. 14,300-400-18,300

Smt Anamika Mishra, Sc 'C', Sc 'D', Rs. 12,000-375-16,500
 Shri KS Ezhil Thirumarani, Sc 'C', Sc 'D', Rs. 12,000-375-16,500

Shri A Munikrishnaiah, Sc 'C', Sc 'D', Rs. 12,000-375-16,500
 Shri Vishwanath Vakade, Sc 'C', Sc 'D', Rs. 12,000-375-16,500

Shri M Hari Prasad, Sc 'C', Sc 'D', Rs. 12,000-375-16,500
 Shri CM Nagesh, Sc 'C', Sc 'D', Rs. 12,000-375-16,500
 Shri Murthy, Sc 'C', Sc 'D', Rs. 12,000-375-16,500
 Shri SS Tomar, Sc 'C', Sc 'D', Rs. 12,000-375-16,500
 Shri KR Rathymol, Sc 'C', Sc 'D', Rs. 12,000-375-16,500
 Ms Varsha Agarwal, Sc 'C', Sc 'D', Rs. 12,000-375-16,500

The President is pleased to promote the following Scientists of LRDE, Bangalore from their existing grade to the next grade with effect from 01.07.2006 (F/N) as mentioned against each :—

Name, Existing Grade, Grade to which promoted, Pay Scale of promoted Grade

Shri M Vijayakumar, Sc 'F', Sc 'G', Rs. 18,400-500-22,400
 Dr Raju Venkatanarayana, Sc 'F', Sc 'G', Rs. 18,400-500-22,400

The President is pleased to promote the following Scientists of SASE, Chandigarh from their existing grade to the next grade w.e.f. 01.07.2006 (F/N) as mentioned against each :—

Name, Existing Grade, Grade to which promoted, Pay Scale of promoted Grade

Shri Ganesh Kumar, Sc 'C', Sc 'D', Rs. 12,000-375-16,500
 Shri Vinay Chaudhary, Sc 'C', Sc 'D', Rs. 12,000-375-16,500

The President is pleased to promote the following Scientists of ITR, Balasore from their existing grade to the next higher grade with effect from 01.07.2006 (F/N) as mentioned against each :—

Name, Existing Grade, Grade to which promoted, Pay Scale of promoted Grade

Shri SR Bera, Sc 'F', Sc 'G', Rs. 18,400-500-22,400

Shri Krishnendu Jana, Sc 'E', Sc 'F', Rs. 16,400-450-20,000

Shri GR Panda, Sc 'E', Sc 'F', Rs. 16,400-450-20,000

Smt Shrabani Bhattacharya, Sc 'C', Sc 'D', Rs. 12,000-375-16,500

Shri Atanu Talukdar, Sc 'C', Sc 'D', Rs. 12,000-375-16,500

The President is pleased to promote the following Scientists of R&DE (Engrs), Pune from their existing grade to the next higher grade with effect from 01.07.2006 (F/N) as mentioned against each :—

Name, Existing Grade, Grade to which promoted, Pay Scale of promoted Grade

Shri Kulbhushan Rai, Sc 'E', Sc 'F', Rs. 16,400-450-20,000

Shri DB Pedram, Sc 'E', Sc 'F', Rs. 16,400-450-20,000

Shri Naresh Kumar, Sc 'E', Sc 'F', Rs. 16,400-450-20,000

Shri Shreedhar Katti, Sc 'E', Sc 'F', Rs. 16,400-450-20,000

Shri JK Biswas, Sc 'D', Sc 'E', Rs. 14,300-400-18,300

Shri SB Lokhande, Sc 'D', Sc 'E', Rs. 14,300-400-18,300

Shri RK Chouhan, Sc 'D', Sc 'E', Rs. 14,300-400-18,300

Shri RM Dhodia, Sc 'D', Sc 'E', Rs. 14,300-400-18,300

Shri Dilip Kumar Biswas, Sc 'D', Sc 'E', Rs. 14,300-400-18,300

Shri AV Rajahansa, Sc 'C', Sc 'D', Rs. 12,000-375-16,500

Shri AN Kulkarni, Sc 'C', Sc 'D', Rs. 12,000-375-16,500

Shri RG Gabhale, Sc 'C', Sc 'D', Rs. 12,000-375-16,500

The President is pleased to promote the following Scientists of D.I.A.T., Pune from their existing grade to the next higher grade with effect from 01.07.2006 (F/N) as mentioned against each :—

Name, Existing Grade, Grade to which promoted, Pay Scale of promoted Grade

Shri VA Deshmukh, Sc 'E', Sc 'F', Rs. 16,400-450-20,000

Dr. AK Tyagi, Sc 'E', Sc 'F', Rs. 16,400-450-20,000

Dr. RB Sharma, Sc 'E', Sc 'F', Rs. 16,400-450-20,000

Shri AK Dixit, Sc 'D', Sc 'E', Rs. 14,300-400-18,300

Shri N Ganesh, Sc 'D', Sc 'E', Rs. 14,300-400-18,300

Shri Pradeep Kumar V, Sc 'C', Sc 'D', Rs. 12,000-375-16,500

The President is pleased to promote the following Scientists of DRDE, Gwalior from their existing grade to the next higher grade with effect from 01.07.2006 (F/N) as mentioned against each :—

Name, Existing Grade, Grade to which promoted, Pay Scale of promoted Grade

Dr. D.C. Gupta, Sc 'E', Sc 'F', Rs. 16,400-450-20,000

Dr. (Mrs) Urmil Tuteja, Sc 'E', Sc 'F', Rs. 16,400-450-20,000

Dr. S.K. Raza, Sc 'E', Sc 'F', Rs. 16,400-450-20,000

Dr. S.C. Pant, Sc 'E', Sc 'F', Rs. 16,400-450-20,000

Shri A.C. Pandey, Sc 'D', Sc 'E', Rs. 14,300-400-18,300

Dr. Francis V. Varghese, Sc 'D', Sc 'E', Rs. 14,300-400-18,300

Dr. M.M. Parida, Sc 'D', Sc 'E', Rs. 14,300-400-18,300

Dr. M.K. Agrawal, Sc 'C', Sc 'D', Rs. 12,000-375-16,500

Dr. (Mrs) Uma Pathak, Sc 'C', Sc 'D', Rs. 12,000-375-16,500

Shri D.T. Selvam, Sc 'C', Sc 'D', Rs. 12,000-375-16,500

Dr. Ram Kumar Dhakad, Sc 'C', Sc 'D', Rs. 12,000-375-16,500

The President is pleased to promote the following Scientists of DMSRDE, Kanpur from their existing grade to the next higher grade with effect from 01.07.2006 (F/N) as mentioned against each :—

Name, Existing Grade, Grade to which promoted, Pay Scale of promoted Grade

Dr. D.K. Setua, Sc 'F', Sc 'G', Rs. 18,400-500-22,400

Shri Sanjay Tandon, Sc 'E', Sc 'F', Rs. 16,400-450-20,000

Shri Sarvesh Kumar, Sc 'D', Sc 'E', Rs. 14,300-400-18,300

Shri AK Pandey, Sc 'D', Sc 'E', Rs. 14,300-400-18,300

Shri HC Srivastava, Sc 'D', Sc 'E', Rs. 14,300-400-18,300

Dr. R.K. Tiwari, Sc 'D', Sc 'E', Rs. 14,300-400-18,300

Shri J.N. Srivastava, Sc 'D', Sc 'E', Rs. 14,300-400-18,300

The President is pleased to promote the following Scientists of ADRDE, Agra Cantt from their existing grade to the next higher grade with effect from 01.07.2006 (F/N) as mentioned against each :—

Name, Existing Grade, Grade to which promoted, Pay Scale of promoted Grade

Shri AD Ahuja, Sc 'F', Sc 'G', Rs. 18,400-500-22,400

Shri Mahendra Pratap, Sc 'C', Sc 'D', Rs. 12,000-375-16,500

Shri Sandeep Malik, Sc 'C', Sc 'D', Rs. 12,000-375-16,500

The President is pleased to promote the following Scientists of CEMILAC, Bangalore from their existing grade to the next higher grade with effect from 01.07.2006 (F/N) as mentioned against each :—

Name, Existing Grade, Grade to which promoted, Pay Scale of promoted Grade

Shri S Narayana Swamy, Sc 'E', Sc 'F', Rs. 16,400-450-20,000

Shri R Karnalakannan, Sc 'E', Sc 'F', Rs. 16,400-450-20,000

Shri R Thangaraj, Sc 'E', Sc 'F', Rs. 16,400-450-20,000

Shri VV Nagendra Kumar, Sc 'D', Sc 'E', Rs. 14,300-400-18,300

Shri Girdhari Kumar, Sc 'D', Sc 'E', Rs. 14,300-400-18,300

The President is pleased to promote the following Scientists of DARE, Bangalore from their existing grade to the next higher grade with effect from 01.07.2006 (F/N) as mentioned against each :—

Name, Existing Grade, Grade to which promoted, Pay Scale of promoted Grade

Shri PM Soundar Rajan, Sc 'F', Sc 'G', Rs. 18,400-500-22,400

Smt Mini Cherian, Sc 'E', Sc 'F', Rs. 16,400-450-20,000

Shri M Sreenivasa Rao, Sc 'D', Sc 'E', Rs. 14,300-400-18,300

Smt Sunita Awasthi, Sc 'C', Sc 'D', Rs. 12,000-375-16,500

The President is pleased to make the following promotions :—

Shri ML Sidana, Scientist 'G', Director ADRDE, Agra Cantt to be Scientist 'H' (Outstanding Scientist) in Defence Research & Development Service with effect from 01 Jul 2006 (F/N) in the pay scale of Rs. 22,400-525-24,500 in the same appointment.

Shri S Sundaresh, Scientist 'G', CVRDE, Chennai to be Scientist 'H' (Outstanding Scientist) in the Defence Research & Development Service with effect from 01 Jul 2006 in the Pay Scale of Rs. 22,400-525-24,500.

P. SARATH
Jt. Dir. (Pers.)

(AIR BRANCH)

No. 653, dated 5th December 2006.—The President is pleased to make the following substantive promotion :—

INDIAN AIR FORCE

LGS BRANCH

To be Substantive Air Cmde (Lgs Branch)

Rank, Name (Number), Br, Date

Air Cmde (Actg), B Mukerji (13412), Lgs, 01 Sep 2006

(His name will appear below Air Cmde DE Ajgaonkar (13413) Lgs in the combined gradation list).

FLYING BRANCH

To be Substantive Air Cmde (Flying Branch)

Rank, Name (Number), Br, Date

Air Cmde (Actg), TK Varma (14273), F(P), 01 Apr 2006/01 Sep 2005 (For seniority purpose only)

(His name will appear between Air Cmdes HH Patel (14271) F(P) and M Jose (14278) F(P) in the combined gradation list).

Air Cmde (Actg), A Naseem (14279), F(P), 01 Mar 2006/19 Sep 2005 (For seniority purpose only)

(His name will appear above Air Cmde HPS Natt (14281) F(P) in the combined gradation list).

Air Cmde (Actg), VP Singh (14551), F(P), 01 Mar 2006/01 Oct 2005 (For seniority purpose only)

(His name will appear below Air Cmde GS Cheema (14292) F(P) in the combined gradation list).

Air Cmde (Actg), N Singh (14552), F(P), 01 Feb 2006/01 Oct 2005 (For seniority purpose only)

(His name will appear above Air Cmde D Singh (14553) F(P) in the combined gradation list).

Air Cmde (Actg), R Dhar (14559), F(P), 01 Mar 2006

(His name will appear below Air Cmde J Kumbhat (14558) F(P) in the combined gradation list).

Air Cmde (Actg), VK Chopra (14563), F(P), 01 Mar 2006

Air Cmde (Actg), A Chaudhari (14564), F(P), 01 Mar 2006

Air Cmde (Actg), AK Jain (14565), F(P), 01 Mar 2006

Air Cmde (Actg), R Goyal (14567), F(P), 01 Apr 2006

Air Cmde (Actg), SJ Bahadur (14570), F(P), 01 May 2006

LGS BRANCH

To be Substantive Wg Cdr (Lgs Branch)

Particular of the Officer, Date

W/C G Baruah (16853), Lgs, 01 Nov 2003

W/C TPS Arora (16973), Lgs, 01 Mar 2004

W/C PK Dudeja (16991), Lgs, 01 Sep 2004

K.V. SHANKAR

Jt. Dir. of Pers. (Officers) 2(B)

ARMY BRANCH

No. 654, dated 6th December 2006.—The President is pleased to permit the undermentioned officer to relinquish the Short Service Commission in the Army Dental Corps wef 10.07.06 and to grant them Permanent Commission in the Army Dental Corps from the same date under AI 37/78 as amended :—

REGULAR ARMY

ARMY DENTAL CORPS

(PERMANENT COMMISSION)

Maj PH Shaikh (DR-10590X), 10 Jul 2006 with seniority for pay, promotion and pension wef 01.02.2001.

Capt (Ms) Poonam Prakash (DR-10591A), 10 Jul 2006 with seniority for pay, promotion and pension wef 16.11.2002.

Capt (Ms) Vijayalaxmi V Malali (DR-10592H), 10 Jul 2006 with seniority for pay, promotion and pension wef 29.05.2002.

Capt (Ms) Anita Kapri (DR-10593L), 10 Jul 2006 with seniority for pay, promotion and pension wef 17.08.2002.

Capt Avinash Kumar (DR-10594N), 10 Jul 2006 with seniority for pay, promotion and pension wef 20.08.2002.

Capt Bhupinder Singh (DR-10595W), 10 Jul 2006 with seniority for pay, promotion and pension wef 24.01.2003.

Capt Kamalpathey K (DR-10596Y), 10 Jul 2006 with seniority for pay, promotion and pension wef 19.02.2003.

Capt Vijaya Kumar R (DR-10597F), 10 Jul 2006 with seniority for pay, promotion and pension wef 13.03.2003.

Capt Oommen Nainan (DR-10598K), 10 Jul 2006 with seniority for pay, promotion and pension wef 20.03.2003.

Capt Dinesh Chander Chaudhary (DR-10599M), 10 Jul 2006 with seniority for pay, promotion and pension wef 09.06.2003.

Capt Parvinder Sharma (DR-10600W), 10 Jul 2006 with seniority for pay, promotion and pension wef 19.02.2004.

Capt Anil Kumar S (DR-10601Y), 10 Jul 2006 with seniority for pay, promotion and pension wef 25.02.2004.

Capt Ashish Kamboj (DR-10602F), 10 Jul 2006 with seniority for pay, promotion and pension wef 25.02.2004.

Capt Satisha TS (DR-10603K), 10 Jul 2006 with seniority for pay, promotion and pension wef 05.03.2004.

D. K. TANEJA
Maj Gen.
Addl. DGDS

(ARMY BRANCH)

CORRIGENDUM

No. 655, dated 4th December 2006.—In Ministry of Defence Draft Gazette Notification published in the Gazette of India

dated 02 Sep 2006, under the heading PERMANENT COMMISSION and sub-heading Maj to be Substantive Lt Col, the name of the officer whose particulars are mentioned at serial No. 36 of the subject DGN and are furnished as under, is hereby deleted :—

V-465A Maj PVS Sidhu, RVC, 16.12.2004

S. P. SHARMA
Under Secy.

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

CORRIGENDUM

No. 656, dated 5th December 2006.—In Ministry of Defence Gazette Notification published in Gazette of India on 03 Jan 2004 under the heading REGULAR ARMY, PERMANENT COMMISSION for Sub heading :—

Substantive Lt Col to be Substantive Colonel

Against the names of	For	Read
VK Mehta, Sigs	IC-30265	IC-30625
SS Thakur, Arty	IC-23259	IC-33259
N Venugopal, EME	N Venugopal	M Venugopal

Substantive Maj to be Substantive Lt Colonel

Against the name of		
SK Dabral, Sigs	IC-39159	IC-39519

ASHA ANAND
Dy. Dir.
DGQA/Admn-4

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2006
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND
PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2006